

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



920

कम मर्यादा

काल नं०

वर्षः

२१५ जौल्लमरे  
7166





# JAIN INSCRIPTIONS

## JAISALMER

*( With Introduction, Notes, Index of Places, &c. )*

---

Collected & Compiled

BY

**Puran Chand Nahar, M.A.B.L., M.R.A.S.,**

Vakil, High Court, Calcutta ; Member, Asiatic Society of Bengal, Bihar & Orissa  
Research Society, Bhandarkar Institute, Poona, Jain Swetambar Education  
Board, Bombay ; Hon. Correspondent, Archæological Department,  
Government of India, &c.

---

**PART III**  
**( With Plates )**

---

**1929**

Price Rs 8/-

Printed by G. N. Sharma  
at the  
**VISWAVINODE PRESS**  
&  
Published by the Compiler,  
48, Indian Mirror Street,  
CALCUTTA

जैन लेख संग्रह

# जैसलमेर

( चूमिका, टिप्पणी, संवत् की सूची इत्यादि आवश्यकीय विषयों से युक्त )

संग्रहकर्ता

पूरण चंद नाहर. एम. ए., बि. एल.,

वकील हार्डकोर्ट, र्वेल एसियाटिक सोसाइटी, एसियाटिक सोसाइटी

अफ् बंगल, रिसार्च सोसाइटी विहार—उड़ीसा, भण्डारकर

इन्स्टिट्यूट् पूना आविके मेम्बर, अनरारी करेस्पण्डेंट

सरकारी पुरातत्व विभाग, इत्यादि

तृतीय खंड

[ सचित्र ]

कलकत्ता

वीर संख्या: २४५५

विक्रम संम्वत् १९८५

ई० संव १९२६

मूल्य ८७ ००





विषय	पन्नांक
सूचीपत्र	
चित्र सूची	
Foreward	i-iv
Appendix	v-ix
Bibliography	xi-xviii
चूमिका	१-३४
चूमिका-परिशिष्ट	३५-५०
लेख संग्रह	१-१७६
जेसलमेर	१-१३६, १६५-१६६
भमरसागर	१३७-१५६
लोदवा	१६०-१८४
देवीकोट	१८५-१८८
ब्यासर	१८९-१९२
गजकूपसागर	१९३-१९४
परिशिष्ट	१७७-११७
शुद्धिपत्र	११७





नाम	पन्नांक	नाम	पन्नांक
<b>Foreword</b> ...	... i	प्रस्तावना ...	... १२
<b>Appendix A</b>		महत्त्व के लेख ...	... २४
Translation of Dr. Buhler's		कोसवाल ज्ञानि ...	... २५
letter ...	... v	भणशाली वंश ...	... २७
<b>Appendix B</b>		वाफणा वंश ...	... ३०
Prof. Bhandarkar's		शिल्पकला ...	... ३३
Report (1904-06) ...	... vi		
<b>Bibliography</b>		<b>चूमिका-परिशिष्ट</b>	
English ...	xi, xvii	[ क ] कल्याणक पट्ट ( ज्ञानू तीर्थ ) ...	... ३५
Hindi ...	xv, xviii	[ ख ] चैत्यपरिपाटी ( जिनसुखसूरि कृत ) ...	... ४०
<b>चूमिका</b> ...	... १	[ ग ] " ( महिमासमुद्रजी कृत ) ...	... ४३
जैसलमेर के राजवंश ...	... ५	[ घ ] श्रीअष्टापदजी शांतिनाथजी का स्तवन	
जैन मंडार ...	... १३	( समयसुन्दरजी कृत ) ...	... ४५
किले के मन्दिर ...	... १४	[ ङ ] श्रीआदोश्वर स्तवन ( " " ) ...	... ४६
शहर के मन्दिर ...	... १८	[ छ ] लोदवपुर स्तवन ( जिनलाभसूरि कृत ) ...	... ४८
" के देवासर ...	... १८		
" के कपासरा ...	... १९	<b>जैसलमेर</b>	
दादाजी के ज्ञान ...	... २०	किले पर	
धरमसागर ...	... २०	श्रीपाश्वनाथजी का मन्दिर ...	... १
लोदवा ...	... २१	श्रीसंभवनाथजी का मन्दिर ...	... १५
देवीकोट ...	... २२	श्रीशांतिनाथजी का मन्दिर ...	... ३५
		श्रीअष्टापदजी का मन्दिर ...	... ४३
		श्रीचंद्रमजी का मन्दिर ...	... ५८

नाम	पन्नांक
श्रीशोतलनाथजी का मंदिर ...	... ८६
श्रीशुभमदेवजी का मंदिर ...	... १६५
श्रीमहावीर स्वामी का मंदिर ...	... ६८
बड़ा भंडार ...	... १०५
स्तंभ पर ...	... १३६

### ग्रहर में

श्रीसुपाश्वनाथजी का मंदिर ...	... ४६
श्रीधिमलनाथजी का मंदिर ...	... १०६
सेठ धोरुग्राहजी का देरासर ...	... १०६
सेठ केसरीमलजी का देरासर ...	... ११२
सेठ खांदमलजी का देरासर ...	... ११४
अखय सिंहजी का देरासर ...	... "
रामसिंहजी का देरासर ...	... ११५
धनराजजी का देरासर ...	... ११६
बेगड़गच्छ का उपासरा ...	... १०८
बृहत् भरतरगच्छ उपासरा ...	... ११६
तपगच्छ उपासरा ...	... १२०

### दादा स्थान

दादावाड़ी ...	... १२१
श्रीजिनचंद्रसुरि का स्थान ...	... १२६
रामशान भूमि ...	... १२८

### धरमसागर

श्रीभादिनाथजी का मंदिर ...	... १३७
बाफया सवाईरामजी का मंदिर ...	... १४०
बाफया हिमतरामजी का मंदिर ...	... १४३

नाम	पन्नांक
<b>लोहवा</b>	
श्रीपाश्वनाथजी का मंदिर ...	... १६०
मंदिर नं० १ ...	... १७२
मंदिर नं० २ ...	... १७३
मंदिर नं० ३ ...	... १७३
मंदिर नं० ४ ...	... १७५

### देवीकोट

श्रीभादिनाथजी का मंदिर ...	... १८५
दादा स्थान ...	... १८८

### ब्रह्मसर

श्रीपाश्वनाथजी का मंदिर ...	... १८६
दादा स्थान ...	... १६१

### गजरूप सागर ।


दादा स्थान ...	... १६३
----------------	---------

### परिशिष्ट

( क ) संवत् की सूची ...	... १६६
( ख ) राजाओं की सूची ...	... २०५
( ग ) श्रावकों की ज्ञातिगोत्रादि की सूची ...	... २०७
( घ ) आचार्यों के गच्छ और संवत् की सूची ...	... २११
( ङ ) स्थानों की सूची ...	... २२५

शुद्धिपत्र ...	... ३२९
----------------	---------





नाम

पन्नांक

### छेखों के चित्र

#### जैसलमेर

श्रीपार्श्वनाथ मन्दिर प्रशस्ति नं० १	...	...	४
" " " नं० २	...	...	६
श्रीसम्भवनाथ मन्दिर प्रशस्ति	...	...	१६
" " तपपट्टिका	...	...	२२
श्रीशांतिनाथ मन्दिर प्रशस्ति	...	...	३६
श्रीसुपार्श्वनाथ मन्दिर प्रशस्ति	...	...	४६
श्रीशत्रुंजय गिरनारावतार पट्टिका	...	...	६०
श्रीविण्णगच्छ उपासना प्रशस्ति	...	...	१०८
" " "	...	...	१०६

#### खोडवा

पहावली पट्टक ( रंगोन ) फोरवर्ड	...	...	१
ज्ञानदलपत्र यंत्र	...	...	१६०
मन्दिर नं० १	स्तम्भ पर	...	१७२
"	मूर्ति पर	...	"
मन्दिर नं० २	स्तम्भ पर	...	१७३
"	मूर्ति पर	...	"
मन्दिर नं० ३	स्तम्भ पर	...	१७४
"	मूर्ति पर	...	"
मन्दिर नं० ४	स्तम्भ पर	...	१७६
"	मूर्ति पर	...	"

नाम

पन्नांक

### अमरसागर

बाणना हिम्मतारामजी का मंदिर प्रशस्ति	...	...	१९१
--------------------------------------	-----	-----	-----

#### आबू तीर्थ

कल्याणक पट्ट	...	...	भूमिका पृ० ३५
--------------	-----	-----	---------------

### दृश्यों के चित्र

#### जैसलमेर

श्रीशांतिनाथजी के मन्दिरका शिखर	...	भूमिका पृ० १
बुग का प्रवेश द्वार	...	भूमिका पृ० ६
शिल्पकला का नमूना	...	भूमिका पृ० ३३
श्रीपार्श्वनाथ मन्दिर का तोरण	...	१
श्रीशांतिनाथजी के मंदिर के समूर्ति दो पाषाण हस्तो	...	४२
श्रीचन्द्रप्रभजी और ऋषभदेवजी के मन्दिर	...	५८
गढ़ीसर	...	१२१


#### अमरसागर

हिम्मतारामजी का मन्दिर	...	१३६
" " " जाली का फारु कार्य	...	१४३

#### खोडवा

श्रीपार्श्वनाथ मन्दिर का सन्मुख भाग	...	भूमिका पृ० २१
" " पश्चात् भाग	...	भूमिका पृ० ४८

लाट्या पट्टावली पट्टक ( नं० २५५४ )



INSURBERS OF PATAVALLI TOPRAK

## Foreword.

It is with considerable satisfaction and relief on account of my continued ill health that I present my third volume of Jain Inscriptions in the hands of those who feel especially interested in the history and antiquity of the Jains. The inscriptions collected in this volume are all from Jaisalmer, a place of unique importance as a great store-house of the activities of the Svetambara Jains.

For a considerable time I had been planning to pay a visit to this important place. My imagination was naturally stimulated by various writers and the glowing references to the richness of the materials stored there. Dr. Buhler was the first to bring to light before the general body of scholars that the great Jain Bhandar, deposited in the Jain temple within the fort of Jaisalmer, contains a large number of ancient and important palm-leaf manuscripts which would require years of hard work even in merely cataloguing them. Dr. Hermann Jacobi, the great German scholar, also visited the place in his company. It was late Prof. S. R. Bhandarkar, who had been there in his official capacity, and who gave us a more detailed account and list of manuscripts of the several Bhandars both in the city and within the fort. Extracts from Dr. Buhler's letter ( 1874 ) and from Prof. S. R. Bhandarkar's Report ( 1909 ) will be found in Appendix A and B, and I draw attention of my readers to the same.

Professor Bhandarkar in his Report for 1904-05 and 1905-06 published in his appendix I, portions of only 6 Jain inscriptions, which he collected there. Lately, Mr. Chimanlal Dahya Bhai Dalal, M. A. Sanskrit Librarian, Baroda Central Library visited the place with the object of cataloguing the manuscripts of the Bhandars and collected several inscriptions of the various temples both at Jaisalmer and at Lodarva. Unfortunately he died before he could publish his work. Pundit Lalchandra Bhagwandas Gandhi, Jain Pundit, Central Library, Baroda, published the posthumous work, and 22 inscriptions

have found place in the appendix of the same. Of these 22 inscriptions one is from a Hindu temple of Sri Lakshmikantji in the fort and Nos. 20 and 21 are two portions of the same inscription and actually therefore there are only 20 Jain inscriptions in the work. I have seen one more vernacular inscription from Amarsagar published in "Jain Sahitya Samsodhaka," a quarterly from Poona. Altogether there are, therefore, only 21 published inscriptions from Jaisalmer. The total number published in this volume is 479 and so the reader will get here 458 new inscriptions.

Towards the end of 1925 I visited Jaisalmer via Barmer route. The first sight of the temples with large number of images within them convinced me that a fortnight's stay, the utmost I could spare at the time, will hardly suffice in taking rubbings of all the various interesting Prasastis and inscriptions on the pedestals of images preserved there. However, my stay in the city was for about 10 days, after which I visited Lodarva, Amarsagar, Devikote and other places. The present volume is the result of my journey. I need hardly say that many of these inscriptions will be found useful, but I think it my duty to draw the attention of scholars to at least a few of the most interesting and unique among them. The first one which deserves attention is Tapapattika inscription (No. 2144).

Tapapattika:— A glance at the plate will show that austerities and penances laid down in Jain Agamas, looked upon with great veneration, are inscribed on the stone along with the five Kalyanak Tithis of the 24 Tirthankars or the great Teachers of the present cycle of years. The five important events in a Tirthankar's life namely conception, birth, initiation, attainment of omniscience and final emancipation are known as Kalyanaks and the dates of such events are held sacred by the Jains.

I have come across only one inscribed tablet in Dilwara temples on Mt. Abu containing these Panch Kalyanak Tithis. No plate has yet been published of this Mt. Abu inscription and with a view to satisfy the curiosity of the general reader and as a material for the student of Jain Antiquity, I publish the same on a separate plate and hope it will be found useful.

### III.

The next unique inscription of this collection is the Prasasti or dedicatory stone of the Parshwanath temple at Lodarva, the old ruined capital town. This temple was built in the 17th century on the site of the old temple. This is the first and the only specimen I have come across of a Prasasti written in verse within Satadala Padma Yantra, that is, hundred petalled lotus ( page 160 ). It is also very interesting to note that the letter in the centre, which is generally the beginning letter of every foot of the verse, is the last letter of each line in the inscription. This shows high technical achievement of the author and perfect mastery over the lexicography of classical sanskrit. The whole thing is in eulogy of Parshwanath, the 23rd Tirthankar to whom the temple is dedicated. Other details on top, sides and bottom, are in prose.

The last and not the least important, is the inscription of Pattawali ( page 177 ) deposited in one of the corner temples at Lodarva which deserves special notice. It enumerates the long series of teachers from Lord Mahavira, the last Tirthankar of the Jains up to the Devardhi Gani Kshamashramana under whose supervision the whole of the then existing Jain canons were reduced to writing at the council at Vallabhi in Guzrat.

As a lay observer I can hardly do justice to the architectural excellence of these ancient monuments at Jaisalmer but even a layman can appreciate the beautiful carvings over the porch of the Parshwanath temple and the magnificent dome of Santinath temple. The whole thing is in such a nice proportion that the view is really very pleasing. There is no clumsiness inspite of the numerous carved figures and the appearance is not heavy. The Architecture reminds us of the similar works of art found at Boro Bodur in Java. I also take this opportunity to present to my readers some specimens of the type of sculpture found in the Jain temples on a separate plate.

A short note on the State, its rulers, and the places from where the inscriptions were collected are given in the introduction. The reader will also find some more useful informations regarding the important temples, their consecrators and a brief

#### IV

account of the leading Oswal families, who have left behind some lasting monuments to posterity.

A bibliography on Jaisalmer has also been prepared and will be found after appendix B. I have received much help from the Bibliography on Jaisalmer published in Rajputana Gazetteer Vol. III A. Page 39 ( 1909 ) and from the general Bibliographical list on Rajputana in the revised edition of Col. Tod's "The Annals and Antiquities of Rajputana" by William Crooke ( 1920 ).

The volume contains five appendices after the text showing :—

- ( 1 ) the different dates,
- ( 2 ) names of sovereigns and ruling princes,
- ( 3 ) list of clans and gotras,
- ( 4 ) names of gachhas with list of Acharyas,
- ( 5 ) places of consecration &c., found in the inscriptions.

These appendices will be found very useful for reference. The plates of the important inscriptions and other interesting views have been prepared and inserted in their proper places in the text. I do sincerely hope that the collection will be welcomed both here in India and outside.

48, INDIAN MIRROR STREET,  
Calcutta, February 1929.

}

P. C. NAHAR.



## Appendix A.

Extract from Mr. S. P. Pandit, M. A.'s translation of Dr. Buhler's letter on Jaisalmer Bhandar, published in the transaction of the Berlin Academy, March, 1874.

(From Indian Antiquary, Vol. IV. Pages 81—83.)

"In Jessalmir, which was founded about the middle of the twelfth century, after the destruction of Lodorva, the old capital of the Bhatti Rajputs, there is a large colony of Jains. According to tradition the forefathers of these people came from Lodorva along with the Rajputs, and from thence brought with them to Jessalmir a most holy image of Parasnath (*Parsvanatha*). For this image a temple was built in the fifteenth century under the pontificate of Jina Bhadrasuri, to which were gradually added six other temples dedicated to different Tirthankaras. Through this temple and the wealth of the Jain community, which has spread its trade and banking business over the whole of Rajputana, Malva, and Central India, Jessalmir has obtained a high fame as one of the principal seats of the Jain faith. Especially, however, is the renown of the Bhandar or Library everywhere celebrated, which, according to the statements of the Gujaratis, surpasses all similar Bhandars in the world. It was therefore one of the chief objects of my journey to obtain admittance to this Bhandar, and to make its contents accessible to science. After some trouble I succeeded in solving the mystery, and it turns out that the magnitude of the Bhandar has been very much exaggerated, but its contents are nevertheless of great value."

## Appendix B.

Extract from Appendix I of the Report of a second tour in search of Sanskrit Manuscripts made in Rajputana and Central India in 1904-05 & 1905-06 by S. R. Bhandarkar M. A.,  
Professor of Sanskrit, Elphinstone College, Bombay, 1907.

### Inscriptions at Jaisalmer.

No. I.

From the Chintamani-Parsvanatha Temple. \*

The inscription is intended to be a prasasti of the festivities in connection with the consecration, etc., of the temple. Most of it is in prose. A long genealogy is given of the Sreshthins (merchants) who built the temple, who were of Ukesa vamsa and Rankanvaya. The notable pilgrimages of some of their ancestors are mentioned with their dates. Then a Kharatara pattavali is given from Jinakusala to Jinaraja and Jinavardhana is mentioned as being on the Patta at that time. It was Jinavardhana, who had the pratishtha (consecration) of the temple built by the Sreshthins performed and also that of the idols therein in Samvat 1473 during the reign of Lakshmanaraja. The prasasti was composed by Jayasagararani.

No. II.

From the same. §

This is wholly in verse. The first two stanzas are devoted to the praise of Parsvanatha and the third one to that of Jaisalmer. Then a genealogy is given of king Lakshmana. The kings of the dynasty are mentioned as belonging to the

---

\* See Inscription No. 2113, pages 5-7

§ See Inscription No. 2112, pages 1-5

## VII

Yadukula. The genealogy given begins with Jaitrasimha. Jaitrasimha's sons were Muladeva (or Mularaja) and Ratnasimha, who righteously protected the earth as Lakshmana and Rama did of old. Ratnasimha's son was Ghatasimha who like a lion tearing up the elephants in the shape of the Mlechchhas forcibly wrested their Vapradari from them. Mularaja's son was Devaraja; Devaraja's son was Kehari and the latter's son was Lakshmana. The last one receives general praise in six stanzas in which it is stated that he worshipped the feet of Surisvara, Sagarachandra. Then a pattavali of the Chandra Kula from Jinakusala to Jinaraja is given. By the advice of Jinaraja the building of the temple was commenced by the Kharatara Samgha during the reign of Lakshmana and by his orders Sagarachandra in Samvat 1459 (*Naveshuvardhindu*) placed the idol in the innermost sanctuary (garbhagriha). Under the direction of Jinavardhana the temple was completed in Samvat 1473. Then the city which has got such a temple, the king in whose reign it was built, the Samgha who built it and those who would see it in future ages are all congratulated on their good fortune. The Jina temple is called Lakshmana-vihara. The Prasasti was composed by Sadhu Kirtiraya.

### No. III.

From the same. ‡

This refers to the setting up of an idol of Parsvanatha in the temple in Samvat 1493 during the reign of Vayarasimha.

### No. V.

From the Sambhavanatha Temple. †

(The temple underneath which is the big Bhandar).

Jaisalmer is herein praised as being acknowledged even by powerful Mlechchha kings to be difficult to capture even for thousands of enemies. Then is praised

---

‡ See inscription No. 2114, page 8

† See inscription No. 2139, pages 15—20

## VIII

the family of the Yadu kings. A genealogy of the vamsa (dynasty) in prose follows, beginning with Raula Sri Jaitasimha, with Raula Sri Duda interposed between Ratnasimha and Ghatasimha. Kehari is here called Kesari. The genealogy ends with Vairasimha. A pattavali of the Kharatara Vidhipaksha of the Chandra kula (a sect of the Jainas) follows, beginning with Vardhamana. It mentions a few facts, literary and others, in connection with many of the names, most of which facts are well-known. The following may be noted :—

That Jinadatta (the successor of Jinavallabha) had the title Yugapradhana given him by Ambikadevi. This is referred to in Jayasagara's commentary on Jinadatta's Samdehadolavali.

The pattavali ends with Jinabhadra. Jinavardhana has been omitted, naturally for the reason given in Klatt's Onomasticon (page 34). Jinabhadra's character, learning and teaching are praised. By his advice Viharas (temples) were built and idols put up in various places and in places like Anahillapataka, the Vidhipaksha Sraddhasamgha formed treasures of pearls of knowledge (libraries). His feet, the inscription says, are worshipped by the kings Vairisimha, Tryambakadasa and Kshitindra.

A genealogy is then given of the builders who were of the Chopada gotra, Ukesa vamsa. In Samvat 1487 they performed a pilgrimage to Satrumjaya and Raivata and made the Panchamyuddyapana in 1490. By the advice of Jinabhadra they built this temple in 1494 during the reign of Vairisimha. The festivities in connection with the pratishtha took place in Samvat 1497, when Jinabhadra put up 300 idols of Sambhavanatha and others, Sambhavanatha being the Mulanayaka among them. Vairisimha took part in the festivities. Then a wish is expressed for the victory, throughout the three worlds, of some Jinakusala Munindra of the Kharatara Vidhipaksha. The Prasasti was composed by Vachanacharya Somakunjara, pupil of Vachaka Jayasagara.

## IX

### No. VI.

From the same. •

This contains the Kharatara pattavali referred to, in my report on the Svetambara Jaina Mss purchased for Government in 1883-84, as mentioned in Dharmasagara's Pravachanapariksha (Dr. Bhandarkar's Report for 1883-84, page 152). It goes down to Jinabhadra, omitting Jinavardhana. The inscription states that a *tupakpattika* was put up by the advice of Vachanacharya Ratnamurtigani in Samvat 1595, while Jinabhadra was on the *patta* and Chachigadeva on the throne.

### No. VII.

From The Santinatha temple. §

This is an inscription mostly in Gujarati prose. Towards the end there is one sentence in Sanskrit prose and two Sanskrit verses. In the beginning also there is one Sanskrit verse. The performance of pilgrimages and building of temples are recorded in the inscription. It contains the following genealogy:— Raula Chachigadeva, Raula Devakarna, Raula Jayatasimha. The last is mentioned as being on the throne in Samvat 1583 and Lunakarna as being heir-apparent. Devakarna is mentioned as ruling in Samvat 1536, in which year it seems the pratishtha of this temple was made. Jayantasimha is referred to as being on the throne in Samvat 1581 also.



---

• See inscription No. 2144. pages 22-32

§ See inscription No. 2154. pages 35-40



## BIBLIOGRAPHY

- Ain-i-Akbari. Vol. I. Trans. by H. Blochmann. Calcutta, 1873. pp. 143, 286, 477.  
Vol. II. " H. S. Jarrett. " 1891. pp. 267, 271, 277, 326.  
Vol. III. " " " 1894. pp. 421 n. 1.
- Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol. II. by J. Tod. London, 1832.  
Do (Revised ed.) by W. Crooke. Oxford, 1920. pp. 1169-1256.
- Archæological Survey of India. Vol. II. by A. Cunningham. Simla, 1871. pp. 21-22.
- Archæological Survey of India. Annual Report 1905-06. by J. Marshall. Cal, 1909. p. 5.
- Bibliography of Indian Geology and Physical Geography, A. Vol. II.  
Compiled by T. H. D. LaTouche. Calcutta, 1918. p. 111.
- Bombay Presidency, The United Provinces, The Punjab, Etc, The.  
Compiled by S. Playne. London, 1917-20. pp. 879-80.
- Chiefs and Leading Families in Rajputana. Calcutta, 1894. pp. 2, 67-69.
- Chronology of India, The. by C. M. Duff. Westminster, 1899. pp. 256, 290-91.
- Chronology of Modern India, The. by J. Burgess. Edinburgh, 1913. pp. 311, 333.
- Collection of Treaties, Engagements, & Sunnuds, A. Vol. IV. Compiled by  
C. U. Aitchinson. Calcutta, 1864. pp. 14, 154-55.
- Currencies of the Hindu States of Rajputana, The. by W. W. Webb.  
Westminster, 1893. pp. 101-106.
- Encyclopædia Britannica, The. Vol. XV. 11th edition. Cambridge, 1911. p. 129.
- Epigraphia Indica. Vol. II. Ed. by J. Burgess. Calcutta, 1902. pp. 42, 81.
- Epitome of Jainism, An. by Nahar & Ghosh. Calcutta, 1917. p. 696.
- Essai De Bibliographie Jaina. by A. Guerinot. Paris, 1906. p. 46.
- Essays on Indian Antiquities. by J. Prinsep. ed. by E. Thomas.  
Vol. II. London, 1858. Useful Tables. p. 260.
- Gazetteer of the Bombay Presidency. Vol. IX. Pt. I. Bombay, 1901. p. 446 n. 4.

- Gazetteer of the Territories under the Government of East-India Company.  
by E. Thornton. in 4 Vols. Vol. II. pp. 272-233.
- Do (New ed.) in one volume. London, 1862. pp. 440-443.
- Gazetteers of Jaisalmer. by C. K. M. Waltor. Calcutta, 1877.
- Golden Book of India. by R. Lethbridge. London, 1893. p. 204.
- Great Trigonometrical Survey of India. Vol. VII A. Dehradun, 1887.
- Historical Records of the Imperial visit to India 1911, The. pp. 78, 124, 126, 135.
- History of British India, The. Vol. II. by H. H. Wilson. London, 1848. pp. 436-37.
- Vol. III. " " p. 471.
- History of Hindustan, The. Vol. II. by A. Dow. London, 1803. p. 237.
- History of India. by M. Elphinstone. London, 1911. p. 470.
- History of India. Vol. I. by H. M. Elliot. London, 1867. pp. 293, 296, 489.
- Vol. V. " " 1873. p. 211.
- Vol. VI. " " 1875. p. 397.
- History of India. Vol. II. by W. Erskine. London, 1854. p. 246.
- History of the Imperial Assemblage at Delhi. by J. T. Wheeler. London, 1877. p. 134.
- History of the State of Jaisalmer &c. p. 135.
- Humayun-Nama. Trans. by A. S. Beveridge. London, 1902. p. 153.
- Imperial Gazetteer of India. Vol. XIV. Oxford, 1908. pp. 1-10.
- Indian Antiquary. Vol. III. 1874. pp. 44, 88-90.
- Vol. IV. 1875. pp. 81-83 &c.
- Vol. V. 1876. pp. 82.
- Vol. VI. 1877. p. 9.
- Vol. VIII. 1879. p. 158.
- Vol. XI. 1882. p. 249.
- Vol. XIX. 1890. pp. 39 & 240.
- Vol. XXXIII. 1904. App. p. 95.
- Indian Directory (Thacker's) — Jaisalmer.
- Indian Empire, The. Vol. I. by R. M. Martin. p. 106.



- Jaisalmer State Administration Reports, annually from 1901.
- Jats, Gujars, & Ahirs. Compiled by A. H. Bingley. Calcutta, 1904. pp. 33, App. vi.
- Journal of the Asiatic Society of Bengal. (old series) Vol. VI. 1837. p. 240.  
Vol. XXXVIII. Pt. I. 1869. p. 90.
- Journal of Indian Art & Industry, The. Vol. IX. 1901. —  
Salt industry of Rajputana. by F. Ashton.
- Linguistic Survey of India. Vol. IX. Pt. II. Ed. by G. A. Grierson. Cal. 1908. p. 109.
- Manual of the Geology of India. by R. D. Oldham. Calcutta, 1893.
- Memorandum on the prospects of finding Coal in Western Rajputana.  
Rec. G. S. I. XIX. by R. D. Oldham. 1886. pp. 122-27.
- Memorandum on the results of an Exploration of Jessalmer with a view to the discovery  
of Coal. Rec. G. S. I. XXI. by R. D. Oldham. 1888. pp. 30-33.
- Memoir of a map of Hindoosthan. by James Rennell. London, 1792. pp. 320, 328, &c.
- Memoirs of Humayun. Trans. by C. Stewart. London, 1832. p. 40.
- Memoirs on the Races of the North Western Provinces of India. Vol. I.  
by H. M. Elliot. London, 1869. p. 39.
- Muntakhabu'T-Tawarikh. Vol. I. Ed. by G. S. A. Ranking. Calcutta, 1898.  
pp. 298 n.7, 456, 562-63, 567 n.1.  
Vol. II. Trans. by W. H. Lowc. Calcutta, 1924.  
pp. 138, 355, 392.
- Native States of India, The. by G. B. Malleson. London, 1875.
- Notices of Sanskrit Mss. Vol. VIII. by R. Mitra. pp. 320-21.
- Our Indian Empire. Vol. I. by R. M. Martin. p. 106.
- Personal Narrative of a tour through the Western States of Rajwara in 1835,  
comprising Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur.  
by Lt. A. H. E. Boileau. Calcutta, 1837.
- Progress Report of the A. S. of India. (Western Circle) for the year ending 31st March  
1910. p. 22. 1911. p. 14. & subsequent years.
- Rajputana Agency Administration reports, annually from 1865-66. by J. Prinsep.

- Rajputana Census Reports 1881, 1891, 1901, 1911 and 1921.
- Rajputana Gazetteer Vol. III A. Compiled by K. D. Erskine. Allahabad, 1909. pp. 1-40.  
Vol. II. Calcutta, 1879.
- Repertoire D' Epigraphie Jaina. by A. Guerinot. Paris, 1908. pp. 248, 279-80.
- Report of a second tour in search of Sanskrit Mss. made in Rajputana & Central India in  
1904-05 & 1905-06. by S. R. Bhandarkar. Bombay, 1907.
- Report of the Curator of Ancient Monuments in India, for the year 1882-83.  
by H. Cole. Calcutta, 1883. p. clii.
- Report on the famine in Rajputana in 1899-1900. by C. M. Duff. Ajmer, 1901.
- Report on the relief operations undertaken in the Native States of Marwar,  
Jaisalmer etc., in 1891-92. Bombay, 1892.
- Report on the relief operations in the Western Rajputana States during 1896-97.  
by W. W. Webb. Jodhpur, 1897.
- Report on a Search for Sanskrit Mss. in Bombay Presidency during the year 1883-84.  
by Dr. R. G. Bhandarkar. Bombay, 1887.
- Report on the Search for Sanskrit Mss. (1880-81) by F. Kielhorn. Bombay, 1881.
- Reports on sanitation, dispensaries, jails and vaccination in Rajputana,  
annually from 1872-73. by H. M. Elliot.
- Sketches of the relations subsisting between the British Government and the  
different Native States. by J. Sutherland. Calcutta, 1837.
- Some account of the general and medical topography of Ajmer, Calcutta.  
by R. H. Irvine. Undated but published about 1840.
- Travels in Western India. by Col. Tod.
- Tribes & Castes of the North-Western Provinces and Oudh. in 4 Vols.  
by W. Crooke. Vol. II. Calcutta, 1896. p. 43.
- Vienna Oriental Journal. Vol. III. (1889) p. 2.
- Western Rajputana States, The. by A. Adams. London, 1899.

## संस्कृत और हिन्दी ग्रंथों की सूची

- अभिधान राजेंद्र, चतुर्थ भाग—विजयराजेंद्र सूरि कृत (रतलाम, सं० १६७४) पृ० १५८६
- आन्वार खानकर, प्रथम प्रकाश—पं० मोहनलालजी कृत (बम्बई, सं० १६४६) पृ० १२२ इत्यादि
- जैसलमेर भाण्डागारीय ग्रंथानां सूची, G. O. S. No. XXI—(बरोदा, ई० १६२३)
- जैन ग्रंथावली—प्रसिद्धकर्ता, श्रीजैन भ्जेताम्बर काम्फरेंस (बम्बई, सं० १६६५)
- जैनतरवादर्श—कर्ता, आत्मारामजी (बम्बई, ई० १८८४) पृ० ५८४ इत्यादि
- जैन (भ्जेताम्बर) तीर्थ प्रकाश—यति मोहनलालजी कृत, पृ० २६
- जैन तीर्थावली प्रकाश—लक्ष्मणसि नेणसि सवाणि कृत (बम्बई, सं० १६०२) पृ० ३३
- जैन भ्जेताम्बर काम्फरेंस हेरल्ड, खंड १३—(बम्बई, ई० १६१७) पृ० ४३
- जैन साहित्य सम्मेलन, १२ भाग—प्र०, अमयचंद भगवानदास गांधी (भावनगर, ई० १६१६) पृ० ३६, ३८
- जैन साहित्य संशोधक, प्रथम खंड—मुनि जिनविजयजी सम्पादित (पूना, सं० १६७७) पृ० १००-११२
- जैसलमेर का इतिहास—पं० हरिदत्त गोविन्दजी व्यास कृत (बीकानेर, ई० १६२०)
- टाड राजस्थान, दूसरा खंड—अनु०, सवाईलाल छोटमलाल खोरा (भावनगर, ई० १६११) पृ० ७८१-७८८
- तीर्थमाला अमोलकरत्न शीतल प्रसाद छाजड़ (कलकत्ता, सं० १८६३) पृ० १५
- प्राचीन जैन लेख संग्रह, द्वितीय भाग—संपादक, मुनि जिनविजयजी (भावनगर, ई० १६२१) लेखांक २६, ४७७
- प्राचीन जैन स्मारक (मध्य प्रान्त-राजपुताना)—सं०, ब्र० शीतल प्रसादजी (सुरत, सं० १६८२) पृ० १६८
- प्राचीन तीर्थमाला संग्रह, प्रथम भाग—संशोधक, विजयधर्म सूरि (भावनगर, सं० १६७८) पृ० १४६ इत्यादि
- भारत के प्राचीन राजवंश, तृतीय भाग—ले०, पं० विश्वेश्वरनाथ रेड (बम्बई, ई० १६२५) पृ० २६८ इत्यादि
- भारतीय नरेश—जगदीश सिंह गहलोत कृत (जोधपुर, सं० १६८०) पृ० ४३ नं० १००
- भारवाड़ के मर्दुमसुमारी का रिपोर्ट—भाग १-३ (जोधपुर, ई० १८६४) पृ० ६
- मुद्रित जैन भ्जेताम्बरादि ग्रंथ नामावलि—बुद्धिसागर सूरि (पावरा, ई० १६२६) पृ० ६६, २७०, ३०१
- यात्रादर्पण (विगम्बर)—ठाकुरदास भगवानदास कृत (बम्बई, ई० १६१३) पृ० १४१
- विश्वकोष (हिन्दी) भा० ८—संपादक, नगेन्द्रनाथ खलु (कलकत्ता, ई० १६२४) पृ० ६६-७४
- विज्ञप्ति त्रिषेणी—मुनि जिनविजयजी कृत (भावनगर, ई० १६१३) पृ० ५८ इत्यादि
- सरस्वती (मासिक) भा० २६, खंड १, सं० ५—ले० नेपालचंद्र दत्त (प्रयाग, ई० १६२८) पृ० ५१३-२८



## BIBLIOGRAPHY

( Cont )


- Annual Address of the A. S. of Bengal. by H. P. Shastri. Calcutta, 1920. p. 10.
- Cambridge History of India. Vol. III. ed. by W. Haig. Cambridge, 1928.  
pp. 502, 520-22, 531 ff.
- Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in Calcutta Sanskrit College. Vol. X.  
by H. Shastri. & N. Chakravarty. Calcutta, 1909.  
pp. 76, 141, 149, 237, 256.
- From the Land of Princes. by G. Festing. London, 1904 pp. 344-375.
- Handbook for travellers in India, Burma & Ceylon. London, 1926. p. 190.
- History of the Rise of Mahomedan Power in India. by J. Briggs. London, 1829.  
Vol. II. p. 92.  
Vol. IV. p. 623.
- Modern Review, The. February, 1929. ed. by R. Chatterjee. Calcutta. pp. 194-203.

## हिन्दी ग्रंथों की सूची

- अमयरत्नसार — सं० काशीनाथजी जैन ( बीकानेर, ई० १६२७ ) पृ० २६८, ४२२
- आनन्द काव्य महोद्धि, सप्तम भाग — सं० मुनिसंपतबिजय ( बम्बई, सं० १६८२ )  
 भूमिका पृ० २०—२२, २४, २६, ३४—३५ ;  
 “कविवर समयसुन्दरजी” पृ० २४—२८, ३६, ७७, ६५, ६६ इत्यादि
- चारे दिशाना तीर्थों की तीर्थमाला — प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा ( भावनगर, सं० १६८२ ) पृ० २३—२४
- जैन सम्प्रदाय शिक्षा — यति श्रीपालचन्द्रजी कृत ( बम्बई, सं० १६६७ ) पृ० ६३०, ६३२
- दयारोख जैसलमेर \* — लक्ष्मीचन्द्रजी कृत ( अजमेर, सं० १६४८ ) लिथो
- भक्तिपद संग्रह — सं० यति श्रीवृद्धिचन्द्रजी ( जैसलमेर, सं० १६८५ ) पृ० ३, ६, ११ इत्यादि
- महाजन वंश मुक्तावली — उ० रामलाल गणि विरचित ( बम्बई, सं० १६६७ ) पृ० २८—३०
- रत्नसागर — मुक्तिकमल मुनि संगृहीत ( कलकत्ता, सं० १६३६ ) पृ० १७८
- वृद्धिचक्रमाला — कर्ता वृद्धिचक्र मुनि ( रतलाम, सं० १६७१ )

\* यह पुस्तक बहुत खोज करने पर भी नहीं मिली थी, भूमिका छप जाने पर प्राप्त हुई । इसमें कई विकृतियों का अच्छा संग्रह है, इतिहास के मो पाठकों के पढ़ने योग्य है ।

जैसलमेर - श्री शांतिनाथ मंदिर के शिखर का दृश्य ।



UPPER VIEW OF SHRI SHANTINATH TEMPLE - JAISALMER.



परम पूज्य परमात्मा की कृपा से जैन और जैनेतर इतिहास प्रेमी सज्जनों के सन्मुख जैसलमेर और उसके निकटवर्ती स्थानों के जैन लेखों का संग्रह उपलब्ध करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैन लेख संग्रह द्वितीय खंड की भूमिका में मैंने सूचित किया था कि जैसलमेर के लेखों को शीघ्र ही प्रकाशित करूंगा, परंतु ऐसी आशा नहीं थी कि इतने अल्प समय में यह छप कर तैयार हो सकेगा। कुछ दिनों से मेरे नेत्रों में पीड़ा और स्वास्थ्य भंग होने के कारण इस संग्रह को यथाशक्ति शीघ्रता के साथ प्रकाशित करने की प्रबल आकांक्षा हुई। यही कारण है कि दो वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही आज यह खंड तैयार हुआ है। यदि अन्यान्य साधन अनुकूल रहा तो आगामी खंड में 'मथुरा' आदि के प्राचीन जैन लेखों का संग्रह भी सदृश्य पाठकों के करकमलों में अर्पित करने की इच्छा है।

मैं बाल्यावधि से जैसलमेर के नाम से परिचित था। जैन प्रतिमाओं की संख्या की अधिकता के कारण जैसलमेर का नाम तोर्य स्थानों की गणना में है। ताड़पत्र के प्राचीन जैन ग्रन्थों के संग्रह के कारण भी वहां का भंडार विशेष उल्लेखयोग्य है। जैसलमेर से पश्चिम दस मील पर 'लोदपुर' नामका एक प्राचीन विशाल पत्तन था और वहां के श्रीपादनाथस्वामी का जिनालय भी बहुत काल से प्रसिद्ध था। विक्रम त्रयोदश शताब्दि में लोदपुर विध्वंस होने के समय वह मंदिर नष्ट हो गया होगा और संभव है कि उसी स्थान पर विक्रम सप्तदश शताब्दि में सेठ थाहरू साहू भणशाली ने वर्तमान मंदिर बनवाया है।

जैसलमेर के ताड़पत्रों के जैन-ग्रन्थों के संग्रह की विशेष प्रसिद्धि के कारण ई० १८७३ में पाश्चात्य विद्वानों में से डाक्टर बुलर साहेब उक्त भंडार निरीक्षण करने के लिए वहां प्रयत्न गये थे और आपके साथ डाक्टर हारमन जैकोबो भी थे। इस दौरे का हाल 'इंडियन एन्टिक्विरी' नामक पत्र में जो प्रकाशित हुआ था उसका कुछ अंश अन्यत्र प्रकाशित किया गया है। पश्चात् लगभग ३० वर्ष बाद डाक्टर आर० जी० भण्डारकर साहेब के सुपुत्र स्वर्गीय एल० आर० भण्डारकर, एम० ए०, वहां पधारे थे। आप ई० १९०४-०५, १९०५-०६ के अपने रिपोर्ट में वहां के भंडार की सूची और संक्षिप्त विवरण के साथ जैन मंदिरों के कई लेखों के कुछ आश्चर्यकीय अंश प्रकाशित किये। उस पर आपके ऐतिहासिक विवेचन जो उक्त रिपोर्ट में छपे हैं



वह भी पाठकों को अंगरेजी परिशिष्ट में मिलेंगे । जैसलमेर के किले पर के आठ मंदिरों में से केवल तीन मंदिरों के छः शिलालेखों के कुछ अंश उक्त रिपोर्ट में हैं । पुनः विद्वोत्साही श्रीमान् गायकबाड़ नरेश की आज्ञा से बरौदा सेन्द्रल लाहरो के संस्कृत पुस्तकाध्यक्ष जैनी विद्वान् स्वर्गीय साह विमललाल डाह्या माई दलाल, एम०, ए०, ई० १९१६ में जैसलमेर मंडार के जैनग्रन्थों की विशुद्धरूप से सूची तैयार करने के लिये गये और वहाँ कई मास ठहर कर लोद्ववा आदि स्थान के जिन-बैत्यालयों को भी अवलोकन किये थे । आपने बड़ी धोम्यता के साथ वहाँ के मंडारों के पुस्तकों का विवरण लिखा था तथा जैन लेखों का संग्रह भी किया था । परंतु बुद्ध के साथ लिखना पड़ता है कि यह पश्चिम पुस्तकरूप में प्रकाशित होने के पूर्व ही आप का स्वर्गवास हो गया । पश्चात् उक्त पुस्तकालय के जैन पंडित लालचंद्रजी भगवानदासजी गांधी द्वारा गायकबाड़ ओरिपन्डल सिरोज नं० २१ की 'जैसलमेर भाण्डागारीय ग्रंथानां सूची' नामक पुस्तक ई० १९२३ में प्रकाशित हुई जिसके परिशिष्ट में जैसलमेर के किले, सहर और लोद्वपुर के सब मिलाकर कुल २१ लेख छपे, परंतु नं० २० और २१ एक ही लेख के दो अंश हैं । जैसलमेर के निकटवर्ती अमरसागर नामक स्थान के पट्टुओं के मंदिर का एक लेख 'जैन साहित्य संशोधक' ( त्रैमासिक पत्रिका ) प्रथमखंड सं० १९००, पृ० १०८ में प्रकाशित हुआ है । इस के सिवाय और किसी जगह जैसलमेर के कोई लेख मेरे देखने में नहीं आये । जैसलमेर सहर के मंदिर, घर देरासर आदि स्थानों की मूर्त्तियों के लेखों के अतिरिक्त किलेपर के आठ मंदिरों में हजारों लेख सहित बिंब वर्त्तमान हैं । समयमात्र से मैं वहाँ की बहुत थोड़ी ही मूर्त्तियों के लेखों का संग्रह कर सका था, इस कारण इस खंड में कुल ४८१ लेख आये हैं । जिन में अत्र से दो लेख उबारा छप गये हैं अर्थात् ४७९ लेख हैं । वे इस प्रकार हैं :—

किले पर आठ मंदिरों के २८६,

सहरके मंदिर और देरासरों के ९५,

अमरसागर के २४,

लोद्वपुर के ३२,

देवोकोट के ६,

ब्रह्मसर के ६,

गजरूपसागर के २ तथा

पार्श्ववर्ती दादास्थान, श्मशानभूमि, देदानसर आदि अन्याय्य स्थानों के २५

आशा है कि इतिहास प्रेमी पाठकगण मेरी जो कुछ त्रुटियां रह गईं हों उसे सुधारेंगे और भविष्य में जैसलमेर के अप्रकाशित जो हजारों मूर्त्तियों के लेख विद्यमान हैं उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित करने का उद्यम करेंगे ।

मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर की तरह राजपुताने का जैसलमेर भी एक विख्यात राज्य है । इस राज्य का वर्त्तमान विस्तार १६०६२ वर्गमाइल है । इसके उत्तर सीमान्त में पञ्जाब का भाबलपुर स्टेट, पश्चिम में सिंध प्रदेश, दक्षिण तथा पूर्व में मारवाड़ राज्य और उत्तर पूर्व में बीकानेर का राज्य है । सुविस्तृत होने पर भी ज्यादा अंश

शुष्क मरुभूमि होने के कारण इस राज्य की जनसंख्या और आय अधिक नहीं है। पाठकों को आश्चर्य होगा कि ऐसे शांति के समय में भी राज्य की जनसंख्या जो ई० १८६१ में ११५००१ थी वह घट कर ई० १९११ की जनसंख्या में ८८३११ रही। पुनः गत ई० १९२१ की जनसंख्या में केवल ७३३३० हुई है। राज्य में रेलवे, तार बगैरह के अभाव के कारण न तो कोई व्यापार है और न वहाँ किसी तरह की उन्नति दिखाई पड़ती है। प्रसिद्ध जैन मंदार, मंदिर और कईएक प्राचीन कीर्तियों के सिवाय यह राजधानी और विशाल राज्य ऊँझ सा दिखाई देता है। यहाँ और भी एक नई बात यह देखने में आई कि और २ देशी राज्यों की तरह चुंगी (Octroi) कर तो लगता ही है, एक मंडकर ( per capita ) भी देना पड़ता है। अर्थात् बाहर से जो मनुष्य जैसलमेर आते हैं, लौटते समय हरएक को सरकार में आठ आने के हिसाब से कर चुकाना पड़ता है केवल ब्राह्मण, सन्यासी, यति, साधु बगैरह से नहीं लिये जाते हैं। जैसलमेर नरेश की विशेष कृपा के कारण दरबार के हुकम से मुझे तथा मेरे साथ के लोगों को कर मुक्त किया गया था। यह एक राजकीय सम्मान समझा जाता है।

चारण भाटों के दफ्तरों में और मुता नैनसी की ख्यात आदि राजपुताने के ख्यातों में जो कुछ राजस्थान के विवरण मिलते हैं इन के सिवाय कोई भी प्राचीन शृंखलाबद्ध इतिहास, कर्नल टाड साहेब के प्रसिद्ध राजपुताना के इतिहास के अतिरिक्त देखने में नहीं आता है। और २ देशी राज्यों की अपेक्षा जैसलमेर का इतिहास कम मिलता है। टाड साहेब के मेमोयर्स (Memoirs) से मुझे जहाँ तक उपलब्ध है वे स्वयं भी जैसलमेर नहीं गये थे। ई० १९२० में श्रीमान् पं० हरिदत्त गोविंद व्यासजी ने 'जैसलमेर का इतिहास' नामक पुस्तक प्रकाशित किया है और वहाँ मेरी अवस्थिति के समय आपने मुझे उक्त पुस्तक की एक प्रति देने की कृपा की थी। पंडितजी ने ऐतिहासिक सामग्री संग्रह कर के पुस्तक तैयार करने में जो परिश्रम उठाया है इस कष्ट के लिये पाठकगण अवश्य कृतज्ञ रहेंगे। परन्तु मुझे खेद के साथ लिखना पड़ता है कि ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ में आप ने न तो कोई सूची और न कोई अध्याय अथवा विषय विभाग ही दी है। मैं यहाँ पुस्तक की समालोचना की दृष्टि से लिखना नहीं चाहता। परन्तु इतना सूचित करना कर्त्तव्य समझता हूँ कि पण्डितजी ने पुस्तक में कई बातें विशेष खोज किये बिना ही लिखी हैं। आप उक्त पुस्तक के पृ० १४७ में लिखते हैं:—

“सम्बत् १८८८ में कर्नल लाफेट साहेब जैसलमेर पधारे। येही प्रथम यूरोपियन है जिन्होंने भाटी राजधानी को अवलोकन करने का प्रथमावसर प्राप्त किया था।”

परन्तु यह उक्ति भ्रमपूर्ण है। मुझे जहाँतक ज्ञात है ई० १८३५ में सरकारी कार्य के उपलक्ष में ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की ओर से लेफ्टिनेन्ट बोइलो, ट्रिबेलियन और मकेसन आदि कई अंगरेज जैसलमेर गये थे और वहाँ कई दिनोंतक ठहरे थे, इसका हाल उन लोगों के पुस्तकों में मिलते हैं। उसी ई० १८३५ में महापावल गजसिंहजी ने स्वयं अंगरेजीका अभ्यास करने के लिये क्लिंवर साहेब नामक एक यूरोपियन शिक्षक को नियुक्त करके उनको बलकसे से जैसलमेर बुलवाया था। इसके सिवाय मैं पूर्व में ही लिख चुका हूँ कि ई० १८७४ में डा० बुकर और मैकोपी दोनों प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् जैसलमेर के जैन मंदार देखने पधारे थे।

सभी और पक्की इतिहास सामग्रियाँ इतनी दुष्प्राप्य हैं कि प्राचीन काल की सिलसिलेवार इतिहास रचना केवल लेखक महाशय की कल्पना मात्र प्रतीत होती है। वर्तमान में जो कुछ साधन मिलते हैं उस से यह ज्ञात होता है कि जैसलमेर राज्य में लोद्वपुर (लोद्ववा) नामक स्थान ही उस प्रान्त की प्राचीन राजधानी थी और वहाँ पर "लोद्व" जाति के राजपूत बसते और शासन करते थे। पश्चात् कालकवक से विक्रम एकादश शताब्दि में भाटी राजपूतों के नेता देवराज लोद्ववा पर आक्रमण कर के वहाँ के राजा नृपमानु को जिनका नाम पं० हरिवंश व्यासजी के इतिहास में "जसमान" लिखा है, परास्त कर के "लोद्वपुर" को अपने अधिकार में कर लिया। पश्चात् सं० १२१२ तक भाटी राजपूतों की बराबर लोद्ववा में राजधानी रही। इसी देवराज से भाटी नरेशों की महाराज्यल पद्धती आरम्भ हुई है। भाटियों की उत्पत्ति के विषय में मारवाड़ दरबार के महकुमा तदारिफ के सुपरिन्टेंडेंट प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् स्वर्गीय मुन्सी देवो प्रसादजी मुनसिफ कृत "मारवाड़ की कौमा का हाल" नामक पुस्तक के पृ० ६ में भाटीवंश की उत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है:—

"भाटी अपनी परम्परा बाँद से उसो तरह मिलते हैं जिस तरह से कि शहोड़ सीसोदिये और बछवाहे सूरज से चन्द्रश्रियों की पुरानी शाखायें कौरव पांडव और यादव थीं महाभारत की मशहूर लड़ाई इसी खानदान में आपस की ईर्ष्या से हुई थी जिसमें कौरव और पाण्डवों का खानदान कौरव तमाम के हो गया था कौरव यादव जिसके अघिष्ठाता भो कृष्णजी ये महाभारत के पीछे आपस में लड़कर कट मरी। और थोड़े से बादमी जो जीते बचे वे शारिका से काबुल, गज्जतो और बलखबुखारा की तरफ बले गये वहाँ बहुत मुहर्तों तक उनका राज रहा। फिर तुर्की ने ज़ोर पकड़ कर उनको पंजाब की तरफ हटा दिया यहाँ भी बहुत मुहर्त तक रहे बल्कि यह शाख भाटियों की पंजाब में ही भटनेर में रहने से पैदा हुई है। भटनेर से तमोट तमोट से देरावर और देरावर से जैसलमेर आये जहाँ अब उनको राजधानी है।"

परन्तु इतिहास से स्पष्ट है कि भाटी देवराज विजयी होने के पश्चात् देरावल से लोद्ववा राजधानी ले गये और जैसलमेर दुर्ग और नगर स्थापित होने के पूर्व सं० १२१२ तक लोद्ववा ही भाटी राजपूतों की राजधानी रही।

जैसलमेर की उत्पत्ति के विषय में यह विवरण मिलता है कि सं० १२१२ में रावल दूसाजी के उद्येष्ठ पुत्र जैसल ने अपने भ्रातृपुत्र महारावल भोजदेव को मुसलमान शाहबुहान घोरो की सहायता से मार कर लोद्ववा के राजा हुए। परन्तु उस स्थान को निरापद न समझ कर वहाँ से ५ कोस दूर एक छोटी डुंगरी पर नवीन जैसलमेर नाम से दुर्ग और उसी नाम का नगर उसी समय बनवाया था।

महारावल देवराज से लेकर जैसलमेर के वर्तमान नरेश तक इतिहास और लेखों से इस प्रकार महारावल राजाओं के बाँस पाये जाते हैं:—

१. देवराज ( महाराज )—माटी विजैराव के पुत्र थे । जन्म सं० ८६२ ( ई० ८३६ ) । अपने राज्य में बहुत से तालाब खुदवाये और देरावर ( देवगढ़ ) का किला भी सं० १०६६ में अपने नाम से बनवाये थे । १३० वर्ष की अवस्था में बलूचों द्वारा सं० १०२२ ( ई० १६६ ) में मारे गये । इन के बाल्य-जीवन की घटनायें विस्मयपूर्ण हैं ।
२. मंधजी ( मण्ड, चामुण्ड )—देवराज के पुत्र थे । सं० १०२२—१०६५ ( ई० १६६—१००६ ) ।
३. बाछूजी ( बछेर )—मंधजी के पुत्र थे । भारत पर महम्मद गज़नी के आक्रमण के समय आपने इनका सामना किया था । राज्यकाल सं० १०६५—११०० ( ई० १००६—१०४४ ) ।
४. दूसाजी ( दूसाज )—बछेर के ज्येष्ठ पुत्र थे । सं० ११०० ( ई० १०४४ ) में राज्याधिकारी हुए थे ।
५. विजैराव ( लंज )—दूसाजी के ३ य पुत्र मेवाड़ के सोलंकी रानी के गर्भजात थे । अणहिलपुर पाटन के सोलंकी धरलराज की कन्या से विवाह किया । राज्यकाल का संज्ञात् मिला नहीं ।
६. भोजदेव—विजैराव के पुत्र थे । राज्यप्राप्ति के स्वल्पकाल के पश्चात् ही सं० १२१२ ( ई० ११५६ ) में अपने पितृव्य जैसल से मारे गये ।
७. जैसल ( जयशाल )—सं० १२१२ ( ई० ११५६ ) में अपने नाम से जैसलमेर नामक दुर्ग बनाया और नगर बसाया । मृत्यु सं० १२२४ ( ई० ११६८ ) ।
८. शालिवाहन ( १ म )—जैसल के २ य पुत्र थे । सं० १२२४ ( ई० ११६८ ) में राज्य मिला ।
९. बीजलदेव—शालिवाहन के ज्येष्ठ पुत्र थे । पिता के जीवितकाल में गद्दी पर बैठे परंतु थोड़े ही काल में मारे गये । राज्यप्राप्ति और इनके पिता के मृत्यु का संज्ञात् मिला नहीं । मृत्यु सं० १२५६ ( ई० १२०० ) ।
१०. केलणजी—जैसल के प्रथम पुत्र थे । सं० १२५६—१२७५ ( ई० १२००—१२१६ ) तक राज्य किये थे ।


\* जैसलमेर के इतिहास में व्यासजी इनका संज्ञात् १०३५ लिखते हैं । कर्नेल टाड साहेब इस संज्ञात् को भ्रमात्मक और सं० १०५५ या १०६५ होना संभव लिखते हैं । व्यासजी फिर किस आधार पर सं० १०३५ लिखे हैं, स्पष्ट नहीं है । टाड के पश्चात् भी और २ पाश्चात्य विद्वानों के पुस्तकों में इनका ई० १००६ ( सं० १०६५ ) मिलता है ।

† व्यासजी इनकी राज्यप्राप्ति सं० १२४७ और राज्यकाल २६ वर्ष लिखते हैं, परन्तु और २ इतिहासों में राज्यप्राप्ति सं० १२५६ ( ई० १२०० ) और राज्यकाल १६ वर्ष मिलते हैं ।

- ११ बाबकदेव ( १ म )—कैलमन्जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं० १२७५—१३०६ ( ई० १२१६—१२५० ) तक लगभग ३२ वर्ष राज्य किये थे।
- १२ करण सिंह ( १ म )—बाबकदेव के कनिष्ठ पुत्र थे। सं० १३०६—१३२७ ( ई० १२५०—१२७१ )।
- १३ दकनसेन—करण सिंह के पुत्र थे। सं० १३२७—१३३१ ( ई० १२७१—१२७५ ) तक राज्य किये।
- १४ पुष्यपाल—दकनसेन के ज्येष्ठ पुत्र थे। अल्पकाल राज्य भोग के पश्चात् आपका स्वर्गवास हुआ। सं० १३३१—१३३२ ( ई० १२७५—१२७६ )।
- १५ जेतसी ( जैत्र, जयतसिंह ) ( १ म )—करण सिंह के ज्येष्ठ भाई थे। इनके राजत्वकाल में खिलजी यवनों द्वारा वर्षों आक्रमण चलता रहा। ये बड़े योद्धा थे और आठ वर्ष युद्ध के पश्चात् दुर्ग में ही मरे। मंदिरों के कई शिलालेखों में इनका नाम मिलता है। सं० १३३२—१३५० ( ई० १२७६—१२९४ )।
- १६ मूलराज ( १ म )—जैतसी के ज्येष्ठ पुत्र थे। यवनों के आक्रमण के समय में इन्हें सिंहासन मिला। थोड़े काल में ही युद्धक्षेत्र में प्राण विसर्जन किये। लेखों में इनका नाम भी मिलता है। सं० १३५०—१३५१ ( ई० १२९४—१२९५ )।
- १७ दूदाजी ( दुर्जनमाल )—भाटी उसोड के पुत्र थे। मूलराज की मृत्यु के पश्चात् जैसलमेर यवनों के अधिकार में हुआ। राठौड़ जगमाल के राज्य पर आक्रमण की तैयारी करने के कारण भाटियों ने दूदाजी को गद्दी पर बैठाया। फिर कई वर्ष तक युद्ध होता रहा पश्चात् ये भी प्राण त्याग किये। लेख में भी इन का उल्लेख है। सं० १३५१—१३६२ ( ई० १२९५—१३०६ )।
- १८ चड्डी ( चटसिंह )—मूलराज के भाई रतनसी के पुत्र थे। ये भी बड़े वीर थे। दूदाजी के मृत्यु के बाद भी राज्य पर यवनों का अत्याचार चलता रहा और दिल्ली के सिंहासन पर इसी समय मुगलों का भी आक्रमण हुआ था। दिल्ली सम्राट् से अपने राज्य उद्धार की व्यवस्था करके जैसलमेर अधिकार किये थे। लेखों में भी इनका नाम मिलता है और इनके नाम का तात्पर्य भी अब तक विद्यमान है। ये विभासघातकों के द्वारा सं० १३६१ ( ई० १३३५ ) में मारे गये।
- १९ केहर—सूरजराज के पुत्र थे। लेखों में इनके पिता देवराज का भी नाम मिलता है। इनका राज्यकाल लगभग १० वर्ष है। इन को मंडौर से बुलवा कर राज्यतिलक दिया गया था। लेखों में भी इनके नाम हैं।

\* व्यासजी इनकी राज्यप्राप्ति सं० १२७५ और राज्यकाल ३२ वर्ष लिखते हैं और इनकी मृत्यु सं० १२९६ बताते हैं। इस गणना से कुल २४ वर्ष होता है।

जैसलमेर दुर्ग-प्रवेश द्वार ।



FORT GATE - JAISALMER.



- २० लक्ष्मणजी—कैहरजी के पुत्र थे और सं० १४५१ में गुर्गो पर बैठे। इनके शासनकाल में राज्य को उन्नति होती रही। गुर्गो के श्री चिंतामणि पाशंभनाथजी का मंदिर इन्हीं के समय में बना था। प्रशस्तियों में सबिशंख उल्लेख है। मृत्यु सं० १४६३ (ई० १४३६)।
- २१ बेरसी (बयर सिंह)—लक्ष्मणजी के पुत्र थे। इनके समय में बहुत से मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई थी। बाहर चढ़े राज्य भोग करने के पश्चात् इनका स्वर्गवास हुआ। सं० १४६३—१५०५ (ई० १४३६—१४४८)।
- २२ चाचकदेव (चाचिगदेव, चाचोजी) (२ य)—बेरसीजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं० १५०५ (ई० १४४८) में सिंहासन पर बैठे और लेख नं० २१४४ से भी यह संवत् मिलता है। किले पर के श्रीसंभवनाथजी के मंदिर को 'तपपट्टिका' की प्रतिष्ठा इन्हीं के समय में हुई थी। ये सोढाजाति के राजपूतों द्वारा षड्यंत्र से मारे गये थे। लेखों से इनका सं० १५१८ (ई० १४६१) तक राज्यकाल मिलता है।
- २३ देवोदास (देवकरण)—चाचकदेव के पुत्र थे। इनके राजत्वकाल में नाना प्रकार आभ्यंतरिक विप्लव रहने के कारण उस समय का इतिहास ठीक नहीं मिलता है। व्यासजी संवत् १५१३ में इनका राज्य-तिलक लिखते हैं, लेकिन लेखों से संवत् १५१८ तक चाचिगदेव का शासनकाल मिलता है। इनके संवत् १५३६ के कई लेख मिले हैं। इनका स्वर्गवास सं० १५५३ (ई० १४९६) में हुआ था ऐसा व्यासजी के इतिहास में है।
- २४ जैत सिंह (जयत सिंह) (२ य)—देवकरण के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके समय में राज्य पर बीकानेर राज्य का आक्रमण हुआ था। गुर्गो पर के श्रीशांतिनाथजी और श्रीअष्टापदजी के प्रशस्ति से इनका सं० १५८१ और १५८३ स्पष्ट है। इनके स्वर्गवास का संवत् देखने में नहीं आया। संभव है कि सं० १५८३ और १५८५ के बीच में इनका देहान्त हुआ होगा।

● व्यासजी सं० १४९६ में इनका राज्याभिषेक लिखते हैं। शिलालेख (नं० २११४) से इनके राज्यप्राप्ति का संवत् '१४९३' मिलता है और श्रीसंभवनाथजी के मंदिर की प्रशस्ति (नं० २१३६) से तथा गुर्गो के कुओं पर के स्तंभ के लेख नं० २५१० से संवत् १४९४ में इनका राज्यकाल स्पष्ट है। इन सबों के अतिरिक्त जुगोखित श्रीलक्ष्मीकान्तजी के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा भी सं० १४९४ में महारजल बेरसीजी ने करवाई थी, यह उक्त मंदिर की प्रशस्ति में लिखा है। यहाँ भी आगे सं० १४९४ में लक्ष्मणजी द्वारा श्रीलक्ष्मीकान्तजी के मंदिर की प्रतिष्ठा होना किस कारण लिखा, समझ में नहीं आया।



- २५ लूणकरण ( लूनकरण )—जयत सिंह के पुत्र थे। संवत् १५८५\* के माघ महीने के पहले ही राज्याधिकारी हुये थे, यह लेख नं० २१५५ से सिद्ध है। ई० १५४१ ( सं० १५६८ ) में इन्होंने सम्राट् हुमायूँ का सामना किया था। परन्तु इतिहास में इनके राज्यकाल का और कोई संवत् मिला नहीं। व्यासजी ने इनका सं० १५८६—१६०७ ( ई० १५२६—१५५० ) लिखा है।
- २६ मालदेव—लूणकरण के ज्येष्ठ पुत्र थे। टाड साहेब अपने इतिहास में इनका राज्य करना नहीं लिखे हैं। लेखों में भी नाम नहीं मिला। राज्यकाल सं० १६०७—१६१८ ( ई० १५५०—१५६१ )।
- २७ हरराज—मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। टाड इनको लूणकरणजी के प्रथम पुत्र लिखते हैं परन्तु इनका राज्य करना नहीं लिखे हैं\*। लेखों में भी इनका नाम नहीं मिला। सं० १६१८—१६३४ ( ई० १५६१—१५७७ ) तक सिंहासन पर थे।
- २८ भीमजी ( भीमसेन )—हरराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं० १६३४ ( ई० १५७७ ) में सिंहासन पर बैठे। लेख नं० २४६४ और २५०५ से इनका संवत् १६५० और १६६३ में राज्य करना स्पष्ट है। सम्राट् अकबर के 'आइन अकबरी' में इनका हाल मिलता है।

● व्यासजी के इतिहास में है कि महाबाबल जैत सिंह के स्वर्गावास के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्मसो पिता की गद्दी पर बैठे, परन्तु एक पक्ष राज्य करने के बाद ही उनके लघुपुत्रा लूणकरण यवनों का सहायता से उनको सिंहासन च्युत करके संवत् १५८६ में राज्य पर अपना अधिकार किया। प्रशासक का शिलालेख ( नं० २१५४ ) में वर्णन है कि संवत् १५८१ में जैतसिंह के समय लूणकरण ( कुमर ) और संवत् १५८३ में लूणकरण ( युवराज ) विद्यमान थे। जैतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कर्मसो ( करणसो ) का लेखों में कोई उल्लेख पाया नहीं जाता है।

\* इस समय के इतिहास के खोज की आवश्यकता है। टाड साहेब अपने इतिहास में लिखते हैं कि लूणकरणजी के हरराज ( १ ), मालदेव ( २ ) और कल्याण दास ( ३ ) नामक तीन पुत्र थे। हरराज के पुत्र भीम थे जिनको लूणकरण के बाद राज्य करना लिखते हैं और लूणकरण के तीनों पुत्रों में किसा को राज्याधिकारी होना नहीं लिखे हैं। आप भीमजी के बाद, कल्याणदासजी के पुत्र मनोहरदासजी का राज्य करना लिखते हैं। व्यासजी अपने इतिहास में लूणकरण के पुत्र मालदेव का ११ वर्ष राज्य करना और मालदेव के पुत्र हरराज का १६ वर्ष राज्य करना लिखते हैं और हरराज के भीमजी और कल्याणजी आदि चार पुत्र लिखते हैं। इनमें से हरराज के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र भीमजी का संवत् १६३४ में गद्दी पर बैठना और ४६ वर्ष राज्य के पश्चात् संवत् १६८० में इनके देहान्त के बाद इनके भ्राता कल्याणजी का उसी संवत् में गद्दी पर बैठना लिखते हैं। लेखों में कल्याणदासजी का महाबाबल होना और राज्य करना स्पष्ट वर्णित है। टाड साहेब को इस समय का सही इतिहास नहीं प्राप्त हुआ होगा। 'राजपुताना गजैटियर' में भी भीमजी के बाद कल्याणदासजी का राज्य करना लिखा है।

- २६ कल्याणदास (कल्याण सिंह)—भीमजी के कनिष्ठ भ्राता थे। भीमजी के सान वय के कुंभर को विच प्रयोग से मरवा कर स्वयं राजसिंहासन पर बैठे। व्यासजी सं० १६८० में इनका गद्दी पर बैठना लिखते हैं परन्तु लेख नं० २५६७ से इनका सं० १६७२ में शासनकाल सिद्ध है। सं० १६७५ में इनके समय में लोद्ववा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था परन्तु प्रशस्ति में तथा वहाँ के मूर्तियों के लेखों में इनका उल्लेख नहीं है। संभव है कि उस समय इनके कुटुम्ब के कारण इनकी प्रजा इन पर असंतुष्ट होगी। लेख नं० २५१५ से सं० १६८३ में इनका राज्यकाल मिलता है।
- २७ मनोहरदास—कल्याणदास के पुत्र थे। लगभग सं० १६८३ में गद्दी पर बैठे होंगे। लेख से सं० १६८५ में इनका राज्यकाल मिलता है। इनके स्वर्गवास का समय मिला नहीं।
- २८ रामचन्द्र—मनोहरदास के पुत्र थे। उद्धन स्वभाव होने के कारण सं० १७०७ (ई० १६५१) में राज्य-च्युत हुए थे। लेख में इनका उल्लेख नहीं मिला।
- २९ सबल सिंह—मालदेव के प्रपौत्र थे। रामचन्द्र के स्थान पर इनको राज्याधिकार मिला। इनके समय से जसलमेर का पौकरण परगना राज्य से अलग हुआ। दिल्ली की बादशाही दरवार में जैसलमेर के आप प्रथम सामंत हुए थे। राज्यकाल सं० १७०७—१७१७ (ई० १६५१—१६६१)।
- ३० अमर सिंह—सबल सिंह के २५ पुत्र थे। इनके समय में राज्य का विस्तार हुआ था। अमरसागर नामक प्रसिद्ध तालाव और पार्श्वस्थित सुरम्य उद्यान इनकी कीर्ति अद्यावधि वर्तमान है। शिलालेखों में इनका नाम नहीं है। राज्यकाल सं० १७१७—१७५८ (ई० १६६१—१७०२)।
- ३१ जसवंत सिंह—अमर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। राज्यकाल सं० १७५६—१७६४ (ई० १७०३—१७०८)।
- ३२ बुध सिंह—जसवंत सिंह के पौत्र थे\*। इनके पिता के राज्यपद में बैठने के पहले ही देहान्त होने के कारण अल्प वयस में ही इनको गद्दी मिली थी। इनके राज्यकाल का सं० १७६६ शिलालेख नं० २५०१ में मिला है। राज्यकाल सं० १७६४—१७६६ (ई० १७०८—१७१३)।
- ३३ तेज सिंह—जसवंत सिंह के पुत्र थे। ये अन्याय से सिंहासन पर बैठे और बराबर घोर अशांति चलाती रही। थोड़े ही काल पश्चात् इनकी मृत्यु हुई।
- ३४ सबार सिंह—तेज सिंह के पुत्र थे। पिता की तरह ये भी गद्दी पर बैठने के अल्प समय के पश्चात् राज्यभ्रष्ट हुये। इनके पिता के तथा इनके समय के संवत् मिले नहीं।

\* टाड साहेब अपने इतिहास में इनको जगत सिंह के द्वितीय पुत्र लिखे हैं परन्तु प्रथम पुत्र होना संभव है और इनकी बसंत रोग से मृत्यु होने के पश्चात् इनके पितृव्य तेज सिंह का गद्दी पर बैठना लिखते हैं। व्यासजी लिखते हैं कि ये तेज सिंह द्वारा विच प्रयोग से मारे गये थे।

३८ अखै सिंह—जसवंत सिंह के पौत्र थे † । इनके समय में देरावर आदि कुछ प्रदेश राज्य से निवृत्त गये थे । इनके समय में जैसलमेर में टकसाल स्थापित हुई थी और वह मुद्रा 'अखैशाही' नाम से अभी तक प्रसिद्ध है । राज्यकाल सं० १७७८—१८१८ ( ई० १७२२—१७६२ ) ।

३९ मूलराज ( २ य )—अखै सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे । सं० १८१८ ( ई० १७६२ ) में गद्दी पर बैठे और द्वात्रिंशत् काल तक ५८ वर्ष राज्य किये । इनके समय की विशेष उल्लेखयोग्य घटना यह है कि सं० १८१४ में इनके पिता के समय पलासी युद्ध के पश्चात् अंगरेज राज्याधिकार और शासन बढ़ना रहा और वे लोग दिल्ली सिंहासन पर पूर्ण अधिकार जमा कर ईष्ट इंडिया कम्पनी की ओर से देशी राजाओं से मैत्री स्थापन करते हुए राज्य विस्तार करना आरम्भ किया । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के राजाओं से सन्धि होने के पश्चात् सं० १८७४ ( ई० १८१८ ) में इनके समय में जैसलमेर का सन्धिपत्र लिखा गया और दो वर्ष के बाद ही सं० १८७६ ( ई० १८२० ) में इनका स्वर्गवास हुआ ।

इनके समय में ओसवाल न्याय की पंचायती के कायदे बने थे जो अभी तक प्रचलित हैं । ये विद्वान् और साहित्य प्रेमी थे और स्वयं भी ज्योतिष आदि के कई ग्रन्थ रचना किये थे । विद्वान् होने पर भी राजनीति कुशल नहीं थे । गद्दी पर बैठने के पश्चात् प्रथम इनके अमात्य मेहता स्वरूप सिंह के पूर्ण अधीनता में रहे और प्रकाश्य दरबार में उनके मारे जाने के बाद उनके पुत्र मेहता शालिम सिंह के वंश में उसी प्रकार रह कर राज्य किये । मेहता शालिम सिंह बहुत जुल्मी थे । इनके अत्याचार से समस्त राज्य की प्रजा दुखी रहती थी । युवराज से लेकर समस्त राज्य के प्रधान २ सामंतों के साथ इन्होंने किस प्रकार नशंसं व्यवहार और स्वार्थ सिद्धि के लिये

‡ व्यासजी अपने इतिहास में इनको जगत सिंह के द्वितीय पुत्र लिखे हैं । टाड साहेब इनको प्रथम पुत्र लिखते हैं परन्तु यह संभव नहीं है कारण ये प्रथम पुत्र होते तो बुध सिंह के पहले ही राज्याधिकारी होते । व्यासजी इनकी राज्य प्राप्ति सवाई सिंह के स्थान पर सं० १७७० में बिना किसी प्रकार के उपद्रव के लिखते हैं परन्तु टाड साहेब के इतिहास में लिखा है कि तेज सिंह के पश्चात् इनके तीन वर्ष के लड़के सवाई सिंह के गद्दी बैठने पर अखै सिंह इनको मार कर स्वयं सिंहासन पर बैठे और यही घटना अधिक संभव मालूम पड़ती है । अखै सिंह का राज्यकाल व्यासजी सं० १८१८ तक लिखकर ३६ वर्ष बताते हैं । इतिहास के ग्रन्थ में गणना का इस प्रकार भ्रम नहीं होना चाहिये । सं० १७७० से १८१८ तक ४८ वर्ष होते हैं । सं० १७६६ का बुध सिंह के राज्य का शिलालेख ( नं० २५०१ ) स्पष्ट है । पश्चात् तेज सिंह और इनके पुत्र सवाई सिंह के समय में वर्षों तक राज्य में नाना प्रकार अशांति रही, वह भी इतिहास से प्रकट है । अतः अखै सिंह का सं० १७७० में गद्दी बैठना संभव नहीं । संवत् १७८१ के पूर्व का इनके समय का कोई लेख मिला नहीं । पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों में इनका राज्यकाल ई० १७२२—१७६२ तक ४० वर्ष लिखा है ।

कहाँ तक कूट नीति का प्रयोग किया था उसका वर्णन पाठकों को जेसलमेर के हरक इतिहास में मिलेंगे ।

शहर के तपगच्छोय श्रीगुरु पनायजी के मंदिर \* को प्रतिष्ठा इनके राजत्वकाल में सं० १८६६ में हुई थी और देवोकाट का मंदिर भी सं० १८६० में इनके समय में बना था ।

४० गज सिंह—मूलराज के पौत्र थे । इनके समय में भाटो सामंतों द्वारा लूट बसोट के कारण सोमास्त के राजाओं से विवाद हुआ था, लेकिन ब्रिटिश राज्य की मध्यस्थता में शांतिपूर्वक मिट गया था । इनके राजत्वकाल में गजरूपसागर नामक तालाब और गजविलास प्रासाद बने थे । इनके राज्यकाल में सेठों ने शत्रुंजय तोथे का प्रसिद्ध संघ निकाला था जिसका विशेष वर्णन लेख नं० २५३० में है ।

प्रथम काबुल की चढ़ाई में ब्रिटिश सरकार को इनने विशेष सहायता दी थी । ये प्रजाप्रिय शासक थे और राज्योन्नति में तत्पर रह कर २६ वर्ष राज्य किये थे । राज्यकाल सं० १८७६—१९०२ ( ई० १८२०—१८४६ ) ।

४१ रणजीत सिंह—गज सिंह के भ्रातृपुत्र थे । गज सिंह के पुत्र नहीं रहने के कारण इनके लघुभ्राता के तीन वर्ष के पुत्र रणजीत सिंह को गद्दी मिली और १८ वर्ष राज्य के पश्चात् इनका भी निपुत्रक अवस्था में स्वर्गवास हुआ । इनके शासन काल में ई० १८५७ ( सं० १६१४ ) में भारत का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ था । अमरसागर के पंचायती मंदिर की प्रतिष्ठा इनके समय में सं० १९०३ में हुई थी । राज्यकाल सं० १९०२—१९२० ( ई० १८४६—१८६४ ) ।

४२ बेरीशालजी—रणजीत सिंह के भ्रातृपुत्र थे । इन्हीं के समय में ईष्ट इंडिया कम्पनी से महाराणा विकटारिया ने भारत सम्राज्य का शासन अपने हाथ में लिया था और इस उत्सव पर दिल्ली में सं० १९३३ ( ई० १८७७ ) में प्रथम दरबार हुआ था । अमरसागर स्थित पट्टों के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा सं० १९२८ में इनके राज्यकाल में हुई थी । गजरूपसागर के दादाजी के चरण की प्रतिष्ठा सं० १९२१ में और ब्रह्मसर के मंदिर की प्रतिष्ठा सं० १९४४ में इनके समय में हुई थी । राज्यकाल सं० १९२१—१९४८ ( ई० १८६४—१८९१ ) ।

\* इस मंदिर का प्रशस्ति ( लेख नं० २१७५ ) में स्वर्ण सिंह और इनके पुत्र शालिम सिंह का वर्णन है । टाड साहेब अपने इतिहास में इनको जैन बताये हैं, यह सर्वथा भ्रम है । ये माहेभरी जाति के वैष्णव घरमा-बलम्बी थे । राजपुताना में ही ओसवाल वंश की सृष्टि हुई थी और वे लोग जैनी थे । मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर आदि समस्त प्रधान २ राज्य में यही ओसवाल वंशज जैनी लोग अमत्य मेहता होते थे । इसी भ्रम से शायद टाड साहेब इनको जैनी लिख दिये हैं ।

४३ शालिवाहन—देरीशालजी के कोई पुत्र नहीं रहने के कारण ये केवल चार वर्ष की अवस्था में इत्तक रूप ले लिये गये और सं० १६५८ में पूर्ण अधिकार प्राप्त करके अपना नाम साम सिंह से शालिवाहन प्रसिद्ध किये थे । राज्यकाल सं० १६४८—१६७१ ( ई० १८६१—१६१४ ) ।

४४ जवाहिर सिंह—शालिवाहन के कोई पुत्र नहीं रहने से ब्रिटिश सरकार की ओर से आप राज्याधिकारी मनोनित होकर सं० १६७१ ( ई० १६१४ ) में गद्दी पर बैठे और वर्तमान राज्याधीश हैं ।

उपरोक्त जैसलमेर नरेशों की नामावली और संक्षिप्त विवरण से मली भांति ज्ञान हुआ होगा कि अद्यावधि इस रेवासत का इतिहास अपूर्ण है । ऐतिहासिक दृष्टि से इन जैन लेखों को उपयोगिता भी पाठक अच्छी तरह उपलब्ध किये होंगे । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे संग्रहीत लेखों के अतिरिक्त वहाँ सैकड़ों लेख वर्तमान हैं । आशा है कि वे सब प्रकाशित होने से वहाँ के इतिहास में और भी प्रकाश पड़ेंगे ।

वर्तमान जैसलमेर नरेश महाराजाधिराज महारावल सर जवाहिर सिंह जी साहेब बहादुर के० सी० एस० आई० का जन्म सं० १६३६ गोपाष्टमी के दिन हुआ था । बाल्यावस्था में आप ने मैया कालेज, अजमेर में अध्ययन किया था । पश्चात् देहरादून के काउंटे कोर में कईएक वर्ष तक रहकर वहाँ को शिक्षा प्राप्त की थी । सं० १६७१ में गद्दी पर बैठने के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने आपको सर्व प्रकार से योग्य समझ कर राज्य का पूर्ण अधिकार दिया है और अद्यावधि आप प्रशंसनीय राज्यशासन कर रहे हैं । आप का साहित्य, शिल्प में भी अच्छा प्रेम है । मुझे भी आप के दर्शनों का और दरबार में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा आप मुझे इस कार्य में प्रोत्साहित किये थे । ऐसे प्रजाप्रिय धार्मिक दयालु राजाओं की संख्या अधिक देखने में नहीं आती है । आप के दो पुत्र हैं । प्रथम महाराज कुमार युवराज गिरधरसिंहजी साहेब, दूसरे महाराज कुमार हुकुमसिंहजी साहेब । स्टेट के दीवान साहेब भी अच्छे विद्वान हैं । इन से भी मिल कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी । स्टेट इंजिनियर बाबू नेपालखन्डजी दस भी बड़े सुयोग्य अफसर हैं । आपने हाल में ही "सरस्वती" ( मई, १६२८ ) नामक सुप्रसिद्ध पत्रिका में 'स्थापत्य शिल्प' शोकेक, और "मंडार्न रिवीउ" प्रसिद्ध अंगरेजी पत्रिका ( फरवरी, १६२६ ) में जैसलमेर और वहाँ की प्राचीन और नई इमारतों के विषय में विद्वानापूर्ण चित्रमय प्रबंध प्रकाशित किये हैं । यहाँ लिखते हर्ष होता है कि जैसलमेर आदि स्थानों के चित्र संग्रह करने के विषय में आपने मुझे बड़े ही प्रेम के साथ सहायता की है और इस के लिये मैं आप का कृतज्ञ हूँ ।

लिखना बाहुल्य है कि जैसलमेर में प्राचीन काल से श्वेताम्बर जैनियों का और आस करके ओसवाल धर्मियों का विशेष प्रभाव विद्यमान था । उन लोगों के धर्मगुरु जैनाचार्यों का भी वह केन्द्रस्थान था । इस नगरी में करतरगच्छ के विद्वान और प्रभावशाली जैन साधु मंडली तथा आचार्यगणों का बराबर समावेश होता था । इन लोगों के सदुपदेश से ही वहाँ बड़े २ मंदिर बने थे और भव्य मूर्तियों की समग्र २ पर बहु संख्या में प्रतिष्ठा हुई की । विधर्मी लोगों के अत्याचार से बचाने के लिये मंदिरों के साथ ही भंडारों में प्राचीन ताड़पत्रादि के असूक्ष्म जैन ग्रन्थ सुरक्षित किये गये थे ।

इन मंदारों के कुछ संग्रहों का विवरण 'जैसलमेर भाण्डागारोय ग्रन्थानां सूची' में प्रकाशित हुए हैं। इनमें से कई एक मंदारों के निरोक्षण करने का मुझे अवसर मिला था। बड़े मंदार में बड़े २ ताड़पत्र के ग्रन्थ पत्थर के बने हुए कोठों में सुरक्षित हैं, तथा कुछ गट्ट भी हो गये हैं। अग्रावधि वहाँ निम्नलिखित मंदार मौजूब हैं:—

- ( १ ) बृहत् मण्डार—किले पर श्रीसंभवनाथजी के मंदिर के तल भूमि में है।
- ( २ ) तपगच्छाय मण्डार—सहर के तप गच्छ के उपासरे में है।
- ( ३ ) भाचार्यगच्छाय मण्डार—सहर के भाचार्य गच्छ के उपासरे में है।
- ( ४ ) बृहत् क्षरतरगच्छाय मण्डार—सहर के क्षरतर गच्छ के पड़े उपासरे में है।
- ( ५ ) लुपकगच्छाय मण्डार—सहर के लौका गच्छ के उपासरे में है।
- ( ६ ) यति दूंगरजी का संग्रह—वह मण्डार सहर के उक्त यतिजी के उपासरे में है।
- ( ७ ) सेठ थोकसाहजी का मण्डार—सहर में थोकसाहजी की हबेली में है।

हाठ में क्षरतरगच्छाय भाचार्य महाराज कृपावन्प्रसूरीजी के उपदेश और प्रेरणा से वहाँ के मंदारों के जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ हुआ है परन्तु द्रव्याभाव के कारण यह कार्य विशेष अप्रसर नहीं हो सका है।

अब वहाँ के मंदिरों के विषय में कुछ परिचय देना भी आवश्यक है। जितने प्राचीन तीर्थमाला, स्तवन संग्रह देखने में आते हैं उन सबों में अधिकतया जैसलमेर का नाम मात्र उल्लेख मिलता है। स्वर्गीय तपगच्छाचार्य विजयधर्मसूरीजी संग्रहित 'प्राचीन तीर्थमाला—संग्रह' प्रथम कंड में प्रकाशित तीर्थमालाओं के \* बहुत से में केवल जैसलमेर का नाम मात्र है।

जैसलमेर चैत्य परिपाटी स्तवनों में केवल जैसलमेर के किले पर के आठ मंदिरों के वर्णन मिलते हैं। सं० १७७१ में क्षरतरगच्छाचार्य जिनलुक्सूरीजी कृत जैसलमेर—चैत्यपरिपाटी में आठ मंदिरों का वर्णन के साथ उन सबों के मूर्तियों की संख्या भी है और यह परिपाटी उक्त तीर्थमाला—संग्रह पृ० १४६ में छपी है। सं० १७७८ में महिमासमुद्रजी कृत जैसलमेर चैत्य परिपाटी स्तवन में भी उक्त आठ मंदिरों के उल्लेख हैं। इन्हें उपयोगो समझ कर परिशिष्ट में प्रकाशित किये गये। इन सब मंदिरों में कोई आधुनिक परिवर्तन तो देखने में नहीं आये परन्तु चाहे और किसी स्थान से आई हुई हो चाहे और कोई कारण से हो मंदिरों की मूर्ति संख्या वर्तमान में आगे से कुछ अधिक हुई है। वहाँ के कई मंदिरों में मूर्ति संख्या अधिक होने के कारण कुछ प्रतिमाथे भूमि पर भी विराजमान देखने में आये। इन में से कुछ वर्ष पहले श्रीभादिनाथजी के मंदिर की अध्वर्यु मूर्तियाँ वेदी पर विराजमान किये गये हैं जिनका विवरण लेख नं० २५६२ में पाठकों को मिलेगा।

\* ( १ ) सं० १६६३ में शक्तिकुशलजी विरचित 'गोड़ो पार्श्वनाथ स्तवन' ( पृ० १६६ ), ( २ ) सं० १७१७ में विजयसागरजी कृत 'सम्प्रेत शिवर तीर्थमाला' ( पृ० १२ ), ( ३ ) सं० १७२१ में मेघविजयजी कृत 'पार्श्वनाथ नाममाला' ( पृ० १५२ ), ( ४ ) सं० १७४६ में शीलविजयजी विरचित 'तीर्थमाला' ( पृ० १०७ ), ( ५ ) सं० १७५० में श्रीमान्धविजयजी कृत 'तीर्थमाला' ( पृ० ६७ )।

## किले के मंदिर

( १ ) भोवाभ्रनाथजी का मंदिर :—किले के मोतर यह विशाल बावन जिनालय सहित मंदिर है और मूलनाथक श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथ हैं। यहाँ प्रशस्तियों के दो शिलालेख लगे हुए हैं। इन प्रशस्तियों से ज्ञात होता है कि निर्माण के समय मंदिर का 'लक्षण विहार' नामकरण हुआ था। उस समय जैसलमेर में महारावल लक्ष्मणजी राज्य करते थे और इसी कारण उन को राजमक प्रजा अपने मंदिर का नाम उनके नाम पर रखा। प्रशस्तियों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर के तैयार होने में १४ वर्ष लग गये थे। सं० १४५२ में करतरगच्छाधोश जिनराजसूरिजी के उपदेश से सागरचन्द्रसूरिजी ने मंदिर की नींव डाली थी और सं० १४७३ में जिनचंद्रसूरिजी के समय में निर्माण कार्य समाप्त होने पर प्रतिष्ठा हुई थी। साधु कीर्तिराजजी ने प्रशस्ति की रचना की थी, बाबक जयसागरराजजी ने संशोधन किया था और कारीगर धन्ना ने प्रशस्ति जोड़ी थी। भोसवंश के रांका गोत्रीय सेठ अपसिंह नरसिंह बगैरों की यह प्रतिष्ठा कराई हुई है।

जिनसुखसूरिजी अपने जैसलमेर—दीपपरिपाटी में इस मंदिर की विंघ संख्या बावन देहों में ५४५, दोनों चौक में १४२, ऊपर के दरवाजे में १२, मूल गंभारे में ११४, तिलक तोरण में ६२, दूसरे तोरण में १२ और मंडप के समीप २३ कुल ११० लिखते हैं। वृद्धिराजजी 'वृद्धिराज-माला' में इस मंदिर की मूर्तिसंख्या १२५२ लिखे हैं।

भोचिंतामणि पार्श्वनाथजी के मंदिर के विषय में करतरगच्छाचार्य जिनमद्रसूरिजी के पाट महोत्सव पर रक्त 'म-कार' की कथा मुनि मोहनलालजी कृत 'आचार रत्नाकर' दूसरा प्रकाश पृ० १२२ में इस प्रकार लिखे हैं :—

“सं० १४६१ श्री सागर चन्द्राचार्य, श्री जिनराज सूरि पट्टे श्री जिनवर्द्धन सूरि को स्थापन कीये थे, तिके एकदा जैसलमेरगढमें श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथके पासमें रही क्षेत्रपालकी मूर्ति देवके स्वामी सेवकका बराबर बंटना भयुक है, ऐसा विचार करके क्षेत्रपालकी मूर्तिको उठायके दरवाजेके विंघे स्थापन करी तब क्रोधायमान भया धका क्षेत्रपाल जहां तहां गुरुमहाराज का वतुर्थ वतका ३ मंगपणा बिलालामें लगा, इसीतर

• करतरगच्छोय मुनि वृद्धिराजजी कृत 'वृद्धिराज माला' में इस मंदिर की प्रतिष्ठा का समय सं० १२१२ लिखा है परन्तु यह जैसलमेर नगर की स्थापना का समय है। मंदिर दो अर्धश सौ वर्ष बाद बने थे। मंदिर प्रतिष्ठा का वर्णन और संघत् प्रशस्ति में स्पष्ट है।

• जैनियों के पांच महाप्रत हैं। वतुर्थ वत प्रथम है, अर्धश ( १ ) प्राणातिपत्ता, ( २ ) सुभावा, ( ३ ) भद्रसाम्भ, और ( ५ ) परिग्रह।

एकदा गुरुमहाराज विनकुट्टके विषे गए, तहां पिण देवता तिसो तरैसैं करा, तब सबे भ्रावक वतुर्थ मतका भंग जानके यह पूज्य पदमे योग्य नहिं हे ऐसा विचार करा कमसं चर्द्धमान सूरि ज्यंतर प्रयोग करके प्रथलीभूत भए थके दिप्लक ग्राममें जाके रहे. कितनेक सिष्य पासमें रहे, तब सागर चन्द्राचार्य प्रमुख समस्त साधु वगै एकत्र होके, गच्छ की स्थिति रखणें वास्तै, नवीन आचार्य स्थापन करना, ऐसा विचार करा, तब नवीनगोरा नाम क्षेत्रपालको आराधन करके, और सर्व देशके अरतरगच्छोय संघकी अनुमति हस्ताक्षर मंगवायके सबे साधुमंडला पकड़ी करके भाणसोल ग्राम आये, तहां श्रीजिनराजसूरियें एक भणों शिष्यको वाचक शोलचन्द्रगणीकेपास पढ़नेकेवास्तै रक्खा था सो समस्त शास्त्रका पारगामी भया, भणसाली गोत्रीय, भादोमूल नाम सं । १४५१ दीक्षा ग्रहण करी, अनुक्रमें पंचवीस वर्षके भए, तब तिनको योग्य जानके श्रीसागरचन्द्राचार्य सातभकाराक्षर मिलाय के सं । १४७५ माघ सुदि पूर्णमासीकेदिन, भणशाली नाठासाहनें सबा लक्ष रुपये करब करके नंदीमहोच्छव सहित सूरि पदमें स्थापन किए ॥ सत भकार लिखे हे ॥ १ भाणसोल नगर ॥ २ भणशालिक गोत्रीय ॥ ३ भादो नाम ॥ ४ भरणी नक्षत्र ॥ ५ भद्राकरण ॥ ६ भट्टारक पद ॥ ७ जिनमद्र सूरि ॥”

( २ ) श्रीसंजवनाथजी का मंदिर :—यह मंदिर तीन वर्ष में तैयार हुआ था । इसो मंदिर

के नीचे भूमिगृह में जैसलमेर का सब से बड़ा सुपतिद्ध जैन मंडार अवस्थित है । जिनमद्रसूरिजों के उपदेश से चोपड़ा गोत्रीय सा० हेमराज पूना वगैरह ने सं० १४६४ में इस मंदिर को बनवाना आरंभ किया और बड़ी धूमधाम से प्रतिष्ठा महोत्सव सं० १४६७ \* में कराई । ३०० मूर्तियों को प्रतिष्ठा सूरिजी के हाथ से हुई थी और महारावल बेरोसालजी स्वयं उपस्थित रहकर शुभकाय सम्पन्न कराये थे । वाचनाचार्य सोमकुंजरजी ने प्रशस्ति रची, भानुप्रभगणि पत्थर पर लिखे और शिलावट शिवदेव ने सोदो थी । जिनसुखसूरिजी इस मंदिर को बिंब संख्या बाहर के चौक में २००, भीतर चौक में २८१, मंडप में ३६, गंभारे में २४ और भमतो में १२ कुल ५५३ लिखते हैं । वृद्धिराजजी मंदिर की मूर्ति संख्या ६०४ लिखे हैं ।

( ३-४ ) श्रीशांतिनाथजी और श्रीअष्टापदजी के मंदिर :—ये दोनों मन्दिर एक ही हाते में

हैं । ऊपर भूमि में श्रीशांतिनाथजी का और निम्न तल में श्रीअष्टापदजी का मंदिर बना हुआ है । निम्न तलके मंदिर में १७ वें तीर्थंकर श्रीकुंधुनाथजी की मूर्ति मूलनाथक रूप से प्रतिष्ठित हैं । इन दोनों मन्दिरों की प्रशस्ति ( लेख नं० २१५४ ) एक ही है और जेनी हिंदी में लिखी हुई है । जैसलमेर के संखवालेबा \* और चोपड़ा गोत्रीय दो घनाढ्य सेठों ने इन मन्दिरों की प्रतिष्ठा

\* वृद्धिराजमाला ( पृ० ४ ) में मन्दिर प्रतिष्ठा का समय सं० १४८७ बताते हैं परन्तु यह भ्रम है ।

\* प्रशस्ति में संखवाल नाम के ग्राम का उल्लेख है । संभव है कि इसो ज्ञान के नाम से 'संखवालेबा' गोत्र की उत्पत्ति हुई होगी ।



सं० १५३६ में कराई थी। संजशालीवा गोत्रीय देता और चोपा गोत्रीय पांवा में द्वाहिक सम्बन्ध था और इन दोनों ने मिल कर दोनों मन्दिर बनवाये थे। संभवो देता ने सकुद्रुम बड़ी घूमघाम से शकुंजय, गिरनाप, भाबू भादि तीर्थों की यात्रा कई बार की थी और भीर्सांमनाथजी के मन्दिर की प्रसिद्ध तपपट्टिका भादि की प्रतिष्ठा कराई थी। इनके पश्चात् सं० १५८१ में इनके पुत्र बीदा के समय में यह प्रशस्ति लगाई गई थी। ये सब विवरण प्रशस्ति में हैं। मन्दिर के बाहर दाहिने तरफ पाषाण के सुन्दर बने हुए दो बड़े २ हाथी बने हुए हैं। इन दोनों पर धातु की मूर्तियां हैं जिनमें एक पुरुष की और दूसरी स्त्री की है। मन्दिर प्रतिष्ठा कराने वाले सं० देता और उनको भार्या सरसती की मूर्ति उनके पुत्र संघवी बोदा ने सं० १५८० में प्रतिष्ठा कराई थी। इन में से केवल एक पर लेख (नं० २१५४) खुदा हुआ है।

उस समय जैसलमेर के गद्दी पर महारावल देवकरणजी थे। सं० १५३६ में प्रतिष्ठा के समय करारगच्छ के जिनसमुद्रसुरिजी \* उपस्थित थे। पश्चात् उनके प्रशिष्य जिनमाणिकसुरिजी के समय में देवतिलकजी उपाध्याय मन्दिर की प्रशस्ति लिखे थे और शिलावट देता ने खोदी थी।

जिनसुखसुरिजी रचित दैत्य परिपाटी स्तवन जो प्रकाशित हुआ है उस में भीर्सांतिनाथजी के मन्दिर की मूर्ति संख्या के वर्णन में एक चरण हुटक हैं। मूर्ति संख्या बाहर प्रदक्षिणा में २४० और चौक में ४०० लिखा है। वृद्धिरत्नमाला में विंश संख्या ८०४ है।

भीमहाप्यजी के मन्दिर की मूर्ति संख्या जिनसुखसुरिजी बाहर के प्रदक्षिणा में १३०, एक गंभारे में २६०, दूसरे में २८ गणघर के, कुल ४२५ लिखते हैं। वृद्धिरत्नमाला में मूर्ति संख्या ४४४ है।

( ५ ) श्रीचन्द्रप्रजस्वामी का मन्दिर :—इस मन्दिर में कोई प्रशस्ति देखने में नहीं आये। मूर्ति पर के लेख (नं० २३२८) से मिलता है कि सं० १५०६ \* में भणशाली गोत्रीय सा० बीदा ने मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई थी। दैत्य परिपाटी स्तवनों में भी भणशाली गोत्रीय द्वारा मन्दिर बनवाये जाने का वर्णन है। इसी मन्दिर के छितल के एक कोठरो में बहुत सी धातुओं की पंचतोर्यों और मूर्तियों के संग्रह हैं। इन सबों में से जितने लेखों का मैं संग्रह कर सका हूँ वे यथास्थान में मिले। यह मन्दिर तेमकिला बना हुआ है और प्रत्येक में चौमुखजी विराजमान है। जिनसुखसुरिजी के दैत्यपरिपाटी में यहां की मूर्ति संख्या प्रथम तल में १६०, दूसरे में १२६, और तीसरे में ४६३ कुल ८०६ लिखा है। वृद्धिरत्नमाला में विंश संख्या १६४५ है।

\* करारगच्छीय प्रसिद्ध शाबक समयसुन्दरजी महाराज जैसलमेर में बहुत समय तक थे। उन्होंने यहां के मन्दिरों के बहुत से स्तवनों की रचना की थी। भीर्सांतिनाथजी और भीमहाप्यजी की स्तुति में मन्दिर के प्रतिष्ठा कर्ता भादि का विवरण मिलता है। यह भी परिशिष्ट में मिलेगा।

• वृद्धिरत्नमाला में मन्दिर प्रतिष्ठा का सं० १५१५ है परन्तु यह किस आधार पर लिखा गया, बात नहीं होता।

( ६ ) श्रीशोतलनाथजी का मंदिर :—इस मंदिर में कोई प्रशस्ति नहीं है । मंत्रे यहां के मूर्त-  
नयकजी के मूर्त्त पर का लेख पढा नहीं था पश्चात् स्तवनों से मालूम हुआ कि मंदिर के  
मूलनायक श्रीशोतलनाथजी हैं । जेजलमेर चेत्य परिपाटी स्तवनों से यह मन्दिर यहां के ओसवाल  
डागा गोत्रीय सेठों का बनवाया हुआ मिलता है । यहां के पट्टिका के लेख में सं० १४७६† में  
डागा गोत्रीयों की प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख है । संभव है इसी समय मन्दिर की प्रतिष्ठा भी  
हुई होगी । जिनजुलसूरिजी के चेत्य परिपाटी में इस मन्दिर की मूर्त्त संख्या ३१४ और  
बृद्धिरत्नमाला में ४३० लिखा है ।

( ७ ) श्रीकृष्णदेवजी का मंदिर :—इस मन्दिर की भी कोई प्रशस्ति नहीं मिली । मूर्त्तियों के  
लेखों से ज्ञात होता है कि सं० १५३६ \* में जिस समय श्रीशोतलनाथजी के मंदिर की प्रतिष्ठा  
हुई थी उसी समय गगधर चौपड़ा गोत्राय सं० धन्ना ने खरतरगच्छीय आचार्यों से इस मंदिर  
की प्रतिष्ठा करवाई थी और चेत्य परिपाटी स्तवनों में भी निर्माण कर्त्त का उल्लेख है । जिन-  
जुलसूरिजी की चेत्य परिपाटी में मूर्त्त संख्या भौति में ५६५ और गंगारे में ३६ कुल ६३१ है  
बृद्धिरत्नमाला में मूर्त्त संख्या ६०७ लिखा हुआ है ।

( ८ ) श्रीमहावीरस्वामी का मंदिर :—यह मन्दिर ओर मन्दिरों से कुछ दूरी पर है । यहां के  
शिलालेख से ज्ञात होता है कि सं० १४०३ † में यह मंदिर बना था । जिनजुलसूरिजी लिखते  
हैं कि ओसवाल के चरडिया गोत्राय सा० दीपा ने इस मन्त्र मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी और  
वहां के मूर्त्तियों की संख्या पड़ती प्रदक्षिणा में १२२ और गंगारे में १२२ कुल २४४ है ।  
बृद्धिरत्नमाला में मूर्त्त संख्या २६५ लिखा है ।

इस मंदिरों के सिवाय यहां कोई जैनो रूते नहीं हैं । किंते के भीतर श्रीलक्ष्मीकांताजी का मन्दिर भी  
परमोय है । यहां भी प्रशस्ति का शिलालेख है ।

† बृद्धिरत्नमाला ( पृ० ४ ) में प्रतिष्ठा संवत् १५०८ है ।

\* बृद्धिरत्नमाला में प्रतिष्ठा संवत् १५३७ लिखा है परन्तु लेखों पर १५३६ स्पष्ट है । उक्त पुस्तक में मंदिर  
के प्रतिष्ठा करानेवाले 'धन्ना' के पिता 'सन्धा' का नाम है । लेखों से धन्ना का ही नाम पाया जाता है ।

‡ बृद्धिरत्नमाला सं० १५८१ में मंदिर प्रतिष्ठा होने का समय लिखते हैं । धारनाचार्य समयसुन्दरजी भी  
इस मंदिर के श्रीमहावीरस्वामीजी के स्तवन रचे हैं परन्तु उसमें प्रतिष्ठा संवत् का कोई उल्लेख नहीं है ।

## शहर के मंदिर

( १ ) श्रीसुपार्श्वनाथजी का मंदिर :—इस मन्दिर को प्रतिष्ठा तपगच्छीय भावकों को भोर से डेसलमेर शहर में सं० १८६६ में हुई थी । यद्यपि इस राज्य में अरतरगच्छीय भावार्थों का ही प्राधान्य था तथापि तपगच्छ के भाचार्य लोग भी यहां बिहार करते हुए आते जाते थे । तपगच्छाचार्य विजयदेवसुरिजी के प्रतिष्ठित कई मूर्तियां इस मंदिर में हैं । वर्तमान मन्दिर को प्रतिष्ठा के विषय में जहां तक प्रशस्ति से उपलब्ध है तपगच्छ के प्रसिद्ध भावायं होरविजयसुरिजी की शाखा में गुलालविजयजी के दो शिष्य क्षीपविजयजी और नगविजयजी ने प्रतिष्ठा कार्य कराया था । नगविजयजी ने प्रशस्ति भी लिखी थी । इस की रचना गद्यपद्य युक्त पांडित्यपूर्ण हिंदू संस्कृत भाषा में है ।

( २ ) श्रीत्रिमलनाथजी का मंदिर :—यह मन्दिर आचार्यगच्छ के उपालरे में है । मन्दिर प्रतिष्ठा की कोई प्रशस्ति मिली नहीं । मूलनाथजी की मूर्ति के लेख से मालूम होता है कि सं० १६६२ में तपगच्छाचार्य विजयसेनसुरिजी के हाथ से प्रतिष्ठा कार्य हुआ था ।

## शहर के देरासर

( १ ) सेठ चीरुसाहजी का देरासर :—इसके हवेली के पास ही यह देरासर है । मीबाड़ के भामासाह की तरह सेठ धाहसाह को भी यहां पर बिद्योप क्यप्रति है । यह मणसाली गोन के थे । छोड़वा का वर्तमान मंदिर जूरी का जीर्णोद्धार कराया हुआ है जिसका विवरण यथा स्थान में मिलेगा । शहर के बाजार में जहां ये व्यापार करते थे वे सब स्थान मध्यवधि इनके नाम से प्रसिद्ध है ।

( २ ) सेठ केशरीमलजी का देरासर :—बाकणा गोत्रीय इंदौर वाले सेठों की हवेली में यह देरासर है और यहां की प्रशस्ति में उल्लेख है कि इसकी प्रतिष्ठा सं० १६०० में हुई थी । यहां बादी के मूलनाथजी सं० १६०१ की प्रतिष्ठित हैं ।

- ( ३ ) सेठ चांदमल्लजी का देरासर :—बाफना गोत्रीय रतलाम बाडे सेठों की हवेली में यह देरासर है ।
- ( ४ ) अन्नयसिंहजी का देरासर :—बाफना गोत्रीय भालरापादन वाले सेठ अन्नयसिंहजी की हवेली में यह देरासर है ।
- ( ५ ) रामसिंहजी का देरासर :—नेइता रामसिंहजी बरड़िया की हवेली में यह देरासर है ।
- ( ६ ) धनराजजी का देरासर :—नेइता धनराजजी बरड़िया की हवेली में यह देरासर है । पंज के लेख से सं० १८६३ में इस देरासर की प्रतिष्ठा ज्ञात होती है ।

## शहर के उपासरा

- ( १ ) वेगड़गञ्ज उपासरा :—यह उपासरा जंणें दशा में है । शहर के दोवार पर केवल बंदिन शिलालेख विद्यमान है उससे सं० १६७३ में यह उपासरा बनवाने का समय मालूम होता है । सं० १४२२ में सरतरगञ्जोय जिनोदयसूरिजी से यह वेगड़गञ्ज शाला निकली थी ।
- ( २ ) वृहत्स्वरतरगञ्ज उपासरा :—यहां देरासर भी है जिसमें धीगौड़ीपार्श्वनाथजी मूलनाथक हैं । में जिस समय यहां गया था उस समय पूज्य यति महाराज वृद्धिचंद्रजी आदेशी थे । और उनके सुयोग्य शिष्य पं० लक्ष्मीचन्द्रजी भी उपस्थित थे । आपने मुझे लेख संग्रह के कार्य में विशेष सहायता दी थी । उपासरे में परम पूज्य गुडमहाराज श्रीजिनवत्ससूरिजी की श्राद्ध जो यहां बड़े पक्ष के साथ सुरक्षित है और जिसकी अद्यावधि पूजा होती है उसे यतिजी ने मुझे दिखाई थी । आप के यहां हस्तलिखित और मुद्रित ग्रन्थों का भी संग्रह है ।
- ( ३ ) तपगञ्ज उपासरा :—शहर में तपगञ्जोय धनाढ्य भावकों के भी बहुत से घर थे । उन लोगों के धीसुपार्श्वनाथजी के मंदिर के निर्माण के समय के लगभग ही उपासरा बना होगा । शहर में और भी बहुत से गञ्जवालों के उपासरे मौजूद हैं परन्तु वहां भावकों की संख्या हास हो जाने के कारण सब उजड़ पड़े हैं ।

## दादाजी के स्थान


सहर के बाहर कई ओर दादाजी के स्थान, पटसाल ओर श्मशान भूमि में स्तंभों पर लेख हैं। इन स्तंभों के कापे लेने का मुझे अवकाश न मिला इस कारण खररगच्छ के आदेशों यति वृद्धिचन्द्रजी महाराज के शिष्य यति लक्ष्मोचन्द्रजी और जोधपुर निवासी साहित्यरत्न पं० रामकृष्णजी जो मेरे साथ में थे ये दोनों सज्जन वहां के लेखों का संग्रह किये थे। ये सब लेख अधिरुद्रया विक्रम के १७ वीं शताब्दि के हैं। सहर के उत्तर में वैदानसर दादाजी और गामगड़ा दादाजी हैं। इन दोनों के मध्य में आड़ा एक छोटा सा पहाड़ है इस कारण दोनों स्थानों में एक माइल का अन्तर है। पश्चिम की ओर सहर के दरवाजे के बाहर श्रीजिनकुशस्वरिजी का स्तम्भ है और दक्षिण की तर्फ गंगासागर नामक एक तालाब है। वहां गोडोचेजी महाराज को पातुका है। इसी दिशा में सहर के पास गड़सोसर तालाब है। उसके अप्रमाण में गोडोचेजी को पटसाल है और श्रीजिनकुशस्वरिजी का स्तम्भ है। इसी दिशा में श्रीजिनकुशस्वरिजी का स्थान है। सहर के उत्तर की तर्फ लगभग दो माइल पर 'गजकूपसागर' नामक तालाब है। यह सरोवर प्रायः सौ वर्ष हुए महारावल गजसिंहजी अपने नाम से बनवाये थे। उक्त गजकूपसागर के समीप में भी श्रीजिनकुशस्वरिजी का स्तंभ है परन्तु यहां कोई लेख नहीं है।

## अमरसागर

यह स्थान जैसलमेर से पश्चिम पांच माइल पर और मूलसागर से एक माइल पर अवस्थित है। यहां जिन मंदिर की संख्या तीन हैं और तीनों के मूलनायक श्रीआर्वाध्वरजी हैं। इन में से एक मन्दिर जिसकी प्रतिष्ठा सं० १६०३ में हुई थी यह पंचायतो को तरफ से बना था। अवशिष्ट दो मन्दिर वहां के प्रसिद्ध बाफणा सेठों के बनवाये हुए हैं। छोटा मन्दिर बाफणा स्वार्धरामजी का सं० १८६७ में और बड़ा मन्दिर बाफणा हिम्मतारामजी का सं० १६२८ में बना था। इन दोनों मन्दिरों की प्रतिष्ठा खररगच्छाचार्य जिनमहेंद्रस्वरिजी के हाथ से हुई थी। बड़ा मन्दिर बहुत ही सुन्दर दोमकिला विशाल बना हुआ है। सन्मुख में मुख्य उद्यान है और उसको कारोगरो प्रशासनीय है। मन्दिर के दृश्य का चित्र पाठकों को पुस्तक में मिलेगी और चित्रों से यहां के मकराने के जालियाँ के शिल्पकार्य का सर्वोच्च कुछ अनुभव होगा। त्रिशाल मकभूमि में पेटा मूल्यवान् भारतीय शिल्पकला का नमूना एक दर्शनीय वस्तुओं को गणना में रखा जा सकता है। इस मन्दिर में प्रशस्ति के शिवाय पीले पाषाण में खुदा हुआ तोर्थयात्रा के संघ घर्षण का एक ६६ पंक्तियों का शिलालेख ( नं० २५१० ) है। इतने पंक्तियों का लेख मेरे देखने में नहीं आया। यह राजस्थानी हिन्दो में लिखा हुआ है।



लोद्रवा - श्री पार्श्वनाथ मंदिर के सम्मुख का दृश्य



SHRI PARSHWANATH TEMPLE - LODRAVA

## लोद्रवा

लोद्र ( लोद्र ) एक राजपूत \* की शाखा का नाम है । लोद्रपुर प्राचीन काल में इन्हीं लोद्र राजपूतों की राजधानी थी । इतिहासों में मिलता है कि भाटी देवराज जिनने प्रथम रावल को उपाधि ग्रहण की थी वे लगभग सं० ६०० ( ई० ८५३ ) के देवगढ † में प्रथम राजधानी स्थापित किये थे । पश्चात् लोद्र राजपूतों से लोद्रपुर ( लोद्रवा ) छोन कर वहाँ राजधानी ले गये । उस समय लोद्रवा एक समृद्धिशाली बड़ा शहर था । इसके बागह प्रवेशद्वार थे । इसी लोद्रवा का ध्वंसावशेष आज भी जैसलमेर शहर के उत्तर पश्चिम दस माइल पर वर्तमान है । रावल देवराज ने लोद्रों को पराजय करके इस नगर को सं० १०८२ में अपने अधिकार में किया था और रावल जैसल तब लोद्रवा भाटियों की राजधानी रहा । प्राचीन काल से ही यहाँ पर श्रीपार्श्वनाथजी का मंदिर था । भोजदेव रावल के गहो बंठने पर उनके काका जैसल ने महम्मद घोरी से सहायता लेकर लोद्रवा पर चढ़ाई की थी । वहाँ रण में भोजदेव मारे गये थे और लोद्रवा नगर भी नष्ट हुआ था । पश्चात् राज्याधिकारी होने पर जैसल लोद्रवा को निरापद नहीं समझ वहाँ से राजधानी हटा कर सं० १२१२ ( ई० ११५६ ) में जैसलमेर नाम से दुर्ग बनाया था ।

सं० १६७५ में भणसाली गोत्रोय सेठ थाहरूसाहजी ने वहाँ के श्रीपार्श्वनाथजी के उक्त मंदिर को जो लोद्रवा विध्वंस होने के समय नष्ट हो गया था, पुनरुद्धार कराकर यह वर्तमान मंदिर बनवाया था और करतरगच्छोय जिनराजसूरिजी से प्रतिष्ठा कराई थी । यहाँ एक ही कोट में मेरु पर्वत के भाव पर पाँच मंदिर बने हुए हैं । मध्य में श्रीविंतामणि पार्श्वनाथजी का बड़ा मूल मंदिर है और चारो कोने में चार छोटे मंदिर बने हुए हैं † । मूल मंदिर के सभामंडप में शतद्वलपथ यंत्र की प्रशस्ति का शिलालेख लगा हुआ है ।

**मंदिर नं० १-४ :—** मूल मंदिर के ( १ ) दक्षिण पूर्व, ( २ ) दक्षिण पश्चिम, ( ३ ) उत्तर पश्चिम, और ( ४ ) उत्तर पूर्व दिशा में ये चार मंदिर हैं । सं० १६६३ में उक्त थाहरूसाहजी अपनी भार्या, कन्या, पुत्र

\* टाड साहेब लिखते हैं कि लोद्र राजपूत कौनसी राजपूत शाखा से निकले थी निश्चित ज्ञान नहीं है, संभव है कि प्रमार से हुए होंगे । साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथजी अपने 'भारत के प्राचीन राजवंश' प्रथम भाग पृ० १६ में इन लोगों को प्रमार की शाखा बतलाये हैं । व्यासजी पृ० ३५ में इन लोगों को 'पडिहार राजपूतोंद्वय' लिखते हैं ।

‡ यह देरावर नाम से प्रसिद्ध है और वर्तमान में भावलपुर स्टेट के अन्तर्गत है ।

† करतरगच्छाचार्य जिनलामसूरिजी कृत 'लोद्रपुर स्तवन' में यहाँ के मंदिर का बड़ा वर्णन है और वा उपयोगी समझ कर परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया ।



पौत्रादि परिवार के पुण्यार्थ इन मंदिरों को बनवाये थे । चारों मंदिरों के मूलनायकजो के मूर्तियों को प्रतिष्ठा मूल मंदिर के साथ ही सं० १६७५ में हुई थी, यह उन पर के लेखों से स्पष्ट है । मंदिर नं० ४ में पहाबलो का शिलालेख ( नं० २५७४ ) रखा हुआ है । मंदिर नं० ३ और नं० ४ के बीच में अलग हो एक त्रिगड़ा के ऊपर श्रीभद्रापदजी का भाव और धातु का सुदृश्य कल्पवृक्ष बना हुआ है जिसमें नाना प्रकार के फल लगे हैं । प्रवाद है कि यह त्रिगड़ा और श्रीभद्रापदजी का भाव बहुत प्राचीन है अर्थात् थाहकसाहजी के जीर्णोद्धार के पहिले का है और भाव उस त्रिगड़े पर कल्पवृक्ष खड़ाये थे । पं० लक्ष्मीचन्द्रजी लिखते हैं कि 'कल्पवृक्ष जीर्ण हो जाने से सं० १६४४ द्वि० क्षेत्र सु० १२ खौ में यह नवोन संघ की तरफ से खड़ाया गया है ।'

जिस रथ पर प्रभु मूर्ति को देठा कर सेठ थाहकसाहजी ने संघ निकाल कर श्रीसिद्धक्षेत्रजी यात्रा की थी वह रथ अभी तक मंदिर के हाते में रखा हुआ है ।

## देवीकोट

यह स्थान बहुत प्राचीन है । यह जैसलमेर से १२ कोस पर दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है । यहां पुराना किला है और प्राचीन हिन्दू मन्दिर है । यहां का जैन मन्दिर छोटा है । यह भीसंघ की ओर से सं० १८६० में बना था । यहां ग्राम के बाहर दादा स्थान भी है ।

## ब्रह्मसर

भाज काल ब्रह्मसर में बहुत थोड़े भ्रावकों के घर रह गये हैं । मैं यहां न जा सका था । यति लक्ष्मीचन्द्रजी से मालूम हुआ कि यह स्थान चार कोस उत्तर की ओर है और थोड़े ही दिन हुए यहां मोहनलालजी महाराज के उपदेश से श्रीपार्श्वनाथजी का नया मन्दिर बना है । आपने उस मंदिर के जितने लेख भेजे वे सब यथास्थान प्रकाशित किये गये हैं । ब्रह्मसर के दादा स्थान के सम्बन्ध में उन्होने विवरण लिखे हैं वह इस प्रकार है :—

ब्रह्मसर से एक मार्गल उत्तर की ओर कुशलसूरिजी महाराज का स्थान है । यह स्थान लूणिया गोत्र का बनाया हुआ है लेकिन इसका कोई स्पष्ट लेख नहीं है । इसका प्रवाद यह प्रसिद्ध है कि देराघर, जो कि

वर्तमान सिंध प्रांत के भावलपुर स्टेट में है, नबाब का राज्य था। उनके कोषाध्यक्ष लूणिया गोपीय एक भ्रात्रक थे। उन के दो लड़किया थीं जिनकी सौन्दर्य को प्रशंसा उन के किसी शत्रुने नबाब से की थी। नबाब ने दूसरे दिन अपना कुवासना चरिनाथ करने के लिये प्रयत्न करने का विचार किया। किन्तु किसी सज्जन से ये सब बातें उक्त कोषाध्यक्ष को मालूम हो गईं। वे इतने थोड़े समय में क्या उपाय कर सकते थे। वे विशेष उदास और चिन्तित हुए। इसी बीच में एक यतिजी महाराज भ्रात्रकों का घर खोजते आ पहुँचे। भ्रात्रक भी यतिजी का आगमन सुनकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए। यतिजी ने उनका मलान मुक्त देखकर कारण जानने का आग्रह किया। जिस पर उन्होंने सर्व वृत्तान्त कह सुनाया। यतिजी ने कहा कि स्त्रियों और बच्चों को मेघ बदला कर यहाँ से बाहर कर दो। और तुम लोग कोई बहाना करके अपने २ सामान ऊंट पर लाद सहर के बाहर चले जाओ, सब अच्छा हो होगा। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि तुम पीछे फिर कर नहीं देखना और निश्चिन्त रहना। इसी प्रकार जब प्रातःकाल हुआ उस समय वे लोग ब्रह्मसर के पास, जहाँ दादा साहब का स्थान है पहुँचे। तब उन लोगों को संकल्प विकल्प पैदा हुआ और यह जानने की इच्छा हुई कि कहाँ तक आये हैं। उन लोगों ने पीछे फिर कर देखा तो महाराज को एक पत्थर पर खड़ा पाया। उस वक्त महाराज ने यह कहा कि यदि थोड़ी देर और पीछे फिर कर न देखते तो जैसलमेर पहुँच जाते। और यहाँ से आध कोस पर ब्रह्मसर ग्राम है और चार कोस पर जैसलमेर सहर है। देवानर भस्त्रां कोस पीछे रह गयी, अब चिन्ता न करो। यह कह कर वे अदृश्य हो गये।

उस कोषाध्यक्ष ने उसी जगह उस पत्थर पर एक कील से पादुका का चिन्ह करके पूजनीय मान लिया, और सदैव दर्शन का नियम रखा और वहाँ स्थान भी निर्माण करा दिया। जब वे लोग जैसलमेर में आकर स्थित रूप से रहने लगे तो बहुधा वहाँ जाने आने में कष्ट होता था। देवानसर के पीछे की तरफ एक टेकरी आ गई है, वहाँ से यह स्थान भी दिखाई पड़ता है। इसी कारण वहाँ दादा साहब की पादुका स्थापित की गई। वहाँ हमेशा वे पूजा करने जाते थे और उसी पहाड़ पर से उस स्थान को भी नित्य दर्शन करने का नियम रखा था। इसी प्रकार इस स्थान की किंबदन्ती है।

सरतरगच्छाचार्य श्रीजिनदत्तसूरि और श्रीजिनकुशलसूरि बड़े प्राभाविक हुए थे। इन लोगों की असामान्य शक्ति के दृष्टांत में प्राचीन काल से ही बहुत से अलौकिक घटनाओं की कथा मिलती है। सं० १४८१ में उवाध्याय जयसगरजी रचित जिनकुशलसूरिजी का कवित्त पाठकों के देखने में आये हगि। यही जयसगरजी गण किले के श्रीपाश्वेनाथजी के मंदिर को प्रशस्ति सं० १४७३ में संशोधन किये थे। श्रीसंभवनाथजी के मंदिर की प्रशस्ति में भी इनका नाम है।

इसी प्रकार पाठक श्रीसाधुकीर्ति रचित श्रीजिनकुशलसूरि का कवित्त 'बिलसे ऋद्धि समृद्धि मिली' इत्यादि विदोय प्रसिद्ध है। इस स्तवन में 'देवासर भय टाढे दूरे' उल्लेख मिलता है और यह उक्त कथा को पुष्टि करता है।

## महत्व के लेख

जैसलमेर के जितने लेख इस संग्रह में छपे हैं उन में से कईएक विशेष महत्व के हैं । इस ओर प्रेम रखने वाले सज्जनों की दृष्टि निम्न लिखित लेखों पर आकर्षित करता हूँ :—

( १ ) तपपट्टिका :— जैसलमेर दुर्ग पर श्रीसंभवनाथजी के मंदिर में पोले पाषाण में खुदा हुआ तपपट्टिका का एक विशाल शिलालेख रखा हुआ है । यह कुछ ऊपर की तरफ से दूदा हुआ है । यह लेख ( नं० २१४४ ) पृ० २२—३२ में छपा है । आज तक मैंने जितने शिलालेख देखे कहीं पर भी अपने जेनागम के अनुसार तपविधि का कोई शिलालेख मुझे नहीं मिला । और २ लेखों के संग्रह में भी ऐसे कोई शिलालेख का उल्लेख नहीं है । इस पट्टिका में तपविधि के साथ तोर्यंकरों की पांचों कल्याणक की तिथियाँ भी खुदी हुई हैं । श्रीशक्तिनाथजी के मंदिर बनवाने वाले सा० बेता ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी ।

आबूतीर्थ में कल्याणक तिथियों का एक शिलालेख है जो वहाँ के देववाड़ा मन्दिर की प्रदक्षिणा में देवड़ों के द्वार पर लगा हुआ है । यह भी अद्यावधि किसी जगह प्रकाशित देखने में नहीं आया । परिशिष्ट में उसका अक्षरान्तर और चित्र भी उपयोगो समझ कर दिया गया है ।

( २ ) शतदलपद्म यंत्र प्रशस्ति :— लोदपुर के वर्तमान मंदिर की प्रशस्ति जो इस पुस्तक के पृ० १६०—१६६ में छपी है वह भी एक अपूर्व शिलालेख है । पाठक उस लेख के नोट को अवश्य पढ़ें और प्राचीन कीर्ति और विद्वता को स्मरण कर आनन्द अनुभव करें ।

( ३ ) पट्टावली पट्ट :— लोदपुर के उसी मंदिर के चार कोनों में जो चार छोटे मंदिर हैं उन में से उत्तर पूर्व की तरफ के मंदिर नं० ४ में श्रीमहावीरस्वामी से लेकर श्रीदेवद्विगणि क्षमाभ्रमण तक जो पट्टावली का शिलालेख है वेता पट्टावली पट्टक भी देखने में कहीं नहीं आया । प्राचीन जैन इतिहास लेखकों के लिये यह बड़े काम की है । यह लेख नं० २५७४ पृ० १७७—१८४ में नोट के साथ छपा है ।

इन जैसलमेर के महत्वपूर्ण लेखों के छाप संग्रह करने में मुझे बहुत ही कठिनाई पड़ी थी । मैं बगौदा सेंट्रल लाइब्रेरी से इन सबों के छाप संग्रहाने की कोशिश की थी परन्तु वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ । इस सुदूर मरुभूमि के ऐसे आवश्यक लेखों के चित्र अप्रकाशित रखना भी कर्तव्य न था । जो छाप थोड़े समय में वहाँ से लेकर साथ में लाये थे वे ब्लक बनवाने के अयोग्य थे । अन्त में यहीं बड़े परीश्रम और अर्थव्यय से उन छापों को ही सुधार कर ब्लकस् तैयार कराये गये हैं और उनसे जो चित्र बने हैं वे पाठकों की सेवा में उास्थित किये गये ।

## ओसवाल ज्ञाति

आजकल और २ उन्नति के साथ इतिहास प्रेम की भी जागृति दिखाई पड़ती है । लोग अपने २ कौम का उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास के सोध खोज में दृढ़तर हैं । खेद इसी विषय का है कि इतिहास पर सच्चे प्रेम की तुलना से अपने नामवरो को ओर हो ज्यादा ध्यान रखते हैं । पूरी सोध खोज और परिश्रम से विशुद्ध प्रमाण संगृहीत होने पर जो कुछ लिखा जाता है वह बड़े काम की होती है ।

ओसवालों की उत्पत्ति के विषय में इतना कहना यथेष्ट है कि प्राचीन जैनाचार्यों द्वारा राजपूत लोग प्रतिबोधित होकर जैन धर्म में दीक्षित हुए थे । पश्चात् उपकेश अर्थात् 'ओसवाल' नाम की सृष्टि हुई थी । इस सृष्टि के समय का जब तक कोई निर्दोष प्रमाण नहीं मिलेगा, तब तक ओसवाल ज्ञाति की उत्पत्ति के समय का कोई निश्चित सिद्धान्त करना अनुचित सा है । इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि 'ओसवाल' में 'ओस' शब्द ही प्रधान है । 'ओस' शब्द भी 'ऊपस' शब्दका रूपान्तर है और 'ऊपस' 'उपकेश' का प्राकृत है । इसी प्रकार भारवाड़ के अन्तर्गत 'ओशियां' नामक स्थान भी 'उपकेश नगर' का रूपान्तर है । जैनाचार्य रत्नप्रमसूरिजी वहां के राजपूतों की जीवहिंसा छुड़ा कर उन लोगों को दीक्षित करने के पश्चात् वे राजपूत लोग उपकेश अर्थात् ओसवाल नाम से प्रसिद्ध हुए ।

भाट भोजकों के कवित्त और जैन यतिओं के दफ्तर में इस उत्पत्ति के समय की कथा कई प्रकार की मिलती है । अद्यावधि इस समय को निश्चित करने का कोई भी ऐतिहासिक विश्वसनीय प्रमाण मेरे देखने में नहीं आये । जहां तक मैं समझता हूँ ( मेरा विचार भ्रमपूर्ण होना भी असम्भव नहीं ) प्रथम राजपूतों से जैनी बनाने वाले श्रीपार्श्वनाथ सन्तानाय श्रीरत्नप्रमसूरि नामके जैनाचार्य थे । उक्त घटना के प्रथम श्रीपार्श्वनाथस्वामी के पट्ट परंपरा का नाम उपकेशगच्छ भी नहीं था । श्रीबीर निर्वाण के ६८० वर्ष के पश्चात् श्रीदिवर्द्धिगणि क्षमा-भ्रमण जिस समय जैनागम का पुस्तकारूढ़ किये थे उस समय के जैन सिद्धान्तों में और श्रीकल्पसूत्र की स्वविराचली ज्ञाति प्राचीन ग्रन्थों में उपकेशगच्छ का उल्लेख नहीं है । उपरोक्त कारणों से संभव है कि सं० ५०० के पश्चात् और सं० १००० के पूर्व किसी समय उपकेश (ओसवाल) ज्ञाति की उत्पत्ति हुई होगी और उस समय से उपकेशगच्छ नामकरण हुआ होगा । जहां तक मैं समझता हूँ उस स्थान का उपकेश पत्तन (ओशियां) भी प्राचीन नाम नहीं था । उच्चवर्ण के हिन्दुओं को जैनी बनाने की क्रिया तो प्रथम से ही जारी थी । विक्रम की १४ वीं शताब्दि तक यह कार्य अबाधा से होता रहा और ओसवंश भी बढ़ता रहा । लोगों की उत्पत्ति का इतिहास तो और भी रहस्यपूर्ण और अलौकिक घटनाओं की कथा में समबद्ध है । कहीं स्थान 'केशनाथ', कहीं प्रभाव-शाली पूर्वजों के नाम से, कहीं आदि वंश के नाम से, कहीं व्यापारिक कार्य की संज्ञा से, और कहीं अपने प्रसंगीय

कायं कुशलता के नाम से ओसवालों के गोत्रों को जो सृष्टि मिलती है वह पाठकों से छिपी नहीं है । शिलालेखों से जहाँ तक मेरा इस विषय में ज्ञान है, विक्रम को ११ वीं शताब्दि से पूर्व के कोई लेखों में न तो उपकेश-गच्छ का ही उल्लेख मिलता है और न कोई ओसवंश अथवा उनके गोत्रों का नाम पाया जाता है । ओशियां में मुझे एक लेखसहित धातु की प्राचीन परिकर और एक खंडित पत्थर की मूर्ति की चरण चौकी मिली थी । वे 'जैन लेख संग्रह' प्रथम खण्ड के लेख नं० १३४, ८०३ में प्रकाशित हुए हैं । वे विक्रम सं० १०११ और ११०० के हैं । इनमें से सं० १०११ के लेख में केवल "उपकेशीयचैत्य" मिला है । आचार्य देवगुप्तसूरि के नाम के साथ उप-केशगच्छ नाम नहीं है । दूसरा लेख स्पष्ट पढ़ा नहीं गया परन्तु उसमें भी उपकेशगच्छ मालूम नहीं होता है । मुनि जिनविजयजी के प्राचीन जैन लेख संग्रह के द्वितीय खंड के लेख नं० ३१४ ( पृ० १७४ ) में प्रतिष्ठा कर्ता के गच्छ का नाम ओसवाल गच्छ लिखा है । यह उपकेशगच्छ का ही अपर नाम ज्ञात होता है । १३ वीं, १४ वीं शताब्दि के कई लेखों में प्रतिष्ठा कर्ता के गच्छ का उल्लेख नहीं है केवल प्रतिष्ठा कराने वालों की संज्ञा 'ऊपशवंश' मात्र मिलते हैं । मैं यहाँ इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धैर्य नष्ट नहीं करना चाहता हूँ परन्तु लिखने का सार यही है कि इस विषय का वर्तमान साधन संतोषजनक नहीं है ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि राजपूत आदि उच्च वर्णवालों को जैनी बना कर ओसवाल आदि वंशों को सृष्टि का कोई प्रामाणिक इतिहास आज तक नहीं मिले हैं । विक्रम को १७ वीं शताब्दि में थोकानेर राज्य में ओसवाल वंश के वच्छावत गोत्रीय दीवान कर्मचंदजी हुए थे । इन के विषय में संस्कृत का 'कर्मचंद प्रबंध' नामक ग्रन्थ मिलता है परन्तु इस में भी ओसवालों की उत्पत्ति का संतोषजनक विवरण नहीं है । इसकी सोपान टीका जैसलमेर के बड़े उपासरे में मैंने देखी थी । इस प्रकार जैनतरो को दीक्षित करके ओसवाल बनाने का एक भी इतिहास प्राचीन जैनाचार्य का लिखा हुआ नहीं है । यदि ओसवालों की उत्पत्ति का समय विक्रम षष्ठ शताब्दि के पश्चात् भी रखा जाय तो भी इस दीर्घ काल में बड़े २ विद्वान् जैनी आचार्यों की कमी नहीं थी । अतः इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखे जाने का अवश्य कोई गूढ कारण होगा ।

धोमाल ज्ञाति की उत्पत्ति के विषय का भी यही हाल देखने में आता है । दन्त कथा और प्रवादों पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता । ओसवाल धोमालों में घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् इन दोनों में 'रोटी बेटो' एक हैं । धार्मिक विषय में भी दोनों समकक्ष हैं । ओसवालों में जो अपना श्रीधोमाल गोत्र बताते हैं वे अपने को धोमालों से भिन्न समझते हैं और ओसवालों के और २ गोत्रों की तरह श्रीधोमाल भी एक ओसवालों का गोत्र कहते हैं । यह भी रहस्यमय है । मैं यहाँ कोई ओसवाल अथवा धोमालों का इतिहास नहीं लिखता हूँ । लेखों में ऐसे २ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । लेखों में जहाँ २ श्रीधोमाल पाये गये हैं उनकी अलग तालिका करके पुस्तक की सूत्रों में दिये गये हैं । परन्तु यः लेखों के 'धोधोमाल' ओसवाल ज्ञाति की शाखा है अथवा केवल धोमालों के अंगे 'धो' विशेषण युक्त धोमालों का रूप है, यह ज्ञात नहीं होता । ऐसे २ विषयों पर जोर को आवश्यकता है ।

जैसलमेर में कई प्रभावशाली धर्मरत्ना ओसवंश वाले अपनी कीर्ति छोड़ गये हैं । इन में से २१ वंशजों के विषय में लिखना आवश्यक है । 'भांडशालिक' ( भणशाली ) और 'बहुफणा' ( बाफणा ) इन दो वंशों के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं ।

## भणशाली वंश

ऐसा प्रवाद सुनने में आता है और 'लोडवा' के शतद्वयग्रंथ के लेख नं० २५४३ से सूचित होता है कि प्राचीन काल में सगर राजा के दो पुत्र श्रोधर और राजधर जैन धर्म में दीक्षित होकर लोडपुर पत्तन में श्रोनिन्तामणि पार्श्वनाथजी के मंदिर बनवाये थे । वही प्राचीन मंदिर नष्ट हो जाने से सं० १६७५ में जैसलमेर निवासी भणशाली गोत्रोय सेठ थाहरूसाहजी ने उसका जीर्णोद्धार कराया । अपने वास भवन में भी आपने देरासर की प्रतिष्ठा कराई थी और शास्त्र भंडार भराये थे जो अद्यावधि वर्तमान हैं । सेठ थाहरूसाहजी लोडवा के मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ समय के बाद ही बड़ा संग्रह निकाल कर तीर्थयात्रा को पधारें थे और श्रोशत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करके वहां खरतराचार्य श्रीजिनराजसूरि से सं० १६८२ में श्रीआदिनाथजी से लेकर श्रीमहावीरस्वामो तक २४ तीर्थंकरों के १४५२ गणधर्मों की पाडुका वहां के खरतरवशी में प्रतिष्ठा कराई थी । यह सब हाल वहां के शिलालेख से मिलते हैं । भारत सरकार के तरफ से प्रकाशित एपिग्राफिया इंडिका द्वितीय खंड नं० २६ में यह लेख \* छपा है और यह पुस्तक दुष्प्राप्य होनेके कारण लेख यहां प्रकाशित किया जाता है :—

- ( १ ) ॥ श्रौं ॥ नमः श्रीमारुदेवादिवर्द्धमानांततीर्थकराणां श्रीपुण्डरीकाद्य गौतम-
- ( २ ) स्वामीपर्यतेज्यो गणधरेज्यः सच्यजनैः पूज्यमानेज्यः सेव्यमानेज्यश्च संवत् ।
- ( ३ ) १६७२ ज्येष्ठ वदि १० शुक्रे श्रीजैसलमेरूवास्तव्योपकेशवंशीयजाडशालिके
- ( ४ ) सुभ्रावककर्त्तव्यताप्रवीणधुरीण सा श्रीमस्रु जार्या चापन्नदे पुत्र पवित्र चरित्र ।
- ( ५ ) लोडवापत्तनकारितजोर्णोद्धारविहारमंडनश्रीचिंतामणिनामपार्श्वनाथाजिराम-
- ( ६ ) प्रतिष्ठाविधायकप्रतिष्ठासमयार्हसुवर्णलंजनिकाप्रदायकसंघनयककरणीय-
- ( ७ ) देवगुरुसाधार्मिकवात्सल्यविधानप्रजासितसितसम्यक्त्वशुद्धिप्रसिद्धसप्तक्षेत्रव्ययविहि-
- ( ८ ) तश्रीशत्रुंजयसंघलब्धसंघाधिपतिस्त्रक सं थाद [ इनामको ] द्विपंचाशडुत्तरचतुर्दश-
- ( ९ ) शत १४५२ मितगणधराणां श्रीपुंडरीकादिगौतमानानां पाडुकास्थानमजातपूर्वम-
- ( १० ) चीकरत् स्वपुत्रहरराजमेघराजसहितः समेधमानपुण्योदयाय प्रतिष्ठितं च श्रीवृह-
- ( ११ ) तखरतरगच्छाधिराज श्रीजिनराजसूरिसूरिराजैः पूज्यमानं चिरं नंदनात् ॥

\* यह लेख मुनि जिनविजयजी हस्त प्राचीन जैन लेख संग्रह ( नं० २६ ) पृ० ३४ में छपा है ।

प्रथम भवस्था में सेठ थाहकसाह सामान्य स्थिति में थे । पश्चात् उनके लक्ष्मोपात्र होने की कथा स्वर्गीय यति धोपालजी हत 'जैन संप्रदाय शिक्षा' नामक पुस्तक के पृ० ६३० में इस प्रकार लिखी हुई है :-

'मण्डशाली गोत्र में थिरसाह नामक एक बड़ा भाग्यशाली पुरुष हो गया है. इसके विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि—यह धी का रोजगार करता था, किसी समय इसने क्वासियां गांव की रहनेवाली धी बेचने के लिये आई हुई एक स्त्री से चित्राबेल की पंडुरी ( इंडोणी ) कितनी चतुराई से ले ली थी । यह स्त्री जाति को जाटिनी थी और यह धी बंधने के लिये क्वासियां गांव से लोदवापुर पट्टन को खली थी. इसने रास्ते में जंगल में से एक हरी लता ( बेल ) को उखाड़ कर उसकी पंडुरी बनाई थी और उस पर धी को हांडो रखकर यह थिरसाह की दुकान पर आई, थिरसाह ने इसका धी खरीद किया और हांडी में से धी निकालने लगा, जब धी निकलने २ बहुत देर हो गई और उस हांडी में से धी निकलता ही गया तब थिरसाह को सन्देह हुआ और उसने विचार कि—इस हांडी से इतना धी कैसे निकलता जाता है, जब उसने पंडुरी पर से हांडो को उठा कर देखा तो उसमें धी नहीं दोखा, बस वह समझ गया कि यह पंडुरी का ही प्रभाव है, यह समझ कर उसने मनमें विचार कि—इस पंडुरी को कितनी प्रकार लेना चाहिये, यह विचार कर थिरसाह ने कौड़ियां लगी हुई एक सुन्दर पंडुरी उस जाटिनी को दी और उस चित्राबेल की पंडुरी को उठाकर अपना दुकान में रख लिया । उसी पंडुरी के प्रभाव से थिरसाह के पास बहुत सा द्रव्य हो गया था' ।

बोकानेर निवासी उ० रामलालजी गणि हत 'महाजन वंश मुक्तावली' में भी इसी प्रकार का वर्णन है । उक्त यति धोपालजी तथा आप लिखते हैं कि सेठ थाहकसाह ने आगरे में बड़ा मंदिर बनवाया था और 'अभी वर्तमान है' । परन्तु मुझे वहां उनका बनवाया हुआ कोई मंदिर का पता नहीं मिला । जैसलमेर से इनका आगरे जाने का और वहां कोई मंदिर प्रकृष्टा कराने का हाल कहीं मेरे देखने में नहीं आया ।

इस मणशाली गोत्र की उत्पत्ति के विषय में मुझे बोकानेर निवासी उपाध्याय पं० जयचन्द्रजी गणि मशुदय के पास की प्राचीन संप्रह में निम्नलिखित विवरण मिले हैं वह इस प्रकार है । इस में सेठ थाहकसाहजी के पुत्र पौत्राधिकों के कई पौढ़ियों तक के नाम मिलेंगे ।

'संवत् १०६१ धीलोद्वपुर् पट्टण माहै यादव कुल माहो गोत्र श्रीसागर \* नामै रावल राज करै तेहने श्रीमती नामै राणी है तेहने ११ पुत्र हुवा मृगारे उपपन्न सुं ८ मरण पाभ्या । तिण अबसरे श्रीखरतरगच्छ माहै श्रीवर्द्धमान सूरि आचार्य शिष्य श्रीजिनेश्वर सूरि विहार करता धीलोद्वपुर् आया । तिहारै सागर रावल श्रीमती रांणो प्रसुक्त बांधणनै भाया बंधना कर हाथ जोड़ राजा वानती करी स्वामी माहरे ८ पुत्र मृगारे उपपन्न सुं मरण पाभ्या द्विषै पुत्र है सो कृपा कर जीवता रहै तिम करौ तिहारै । श्रीजिनेश्वरसूरि बोल्या, सुण राजा धारा पुत्र

कीवता रहे जिण में म्हाने किसी लाभ ? जो तीन पुत्र मांहेसु\* १ ने राज दो २ दोय पुत्र म्हारा भावक हुवे तो म्हे रिल्या करां, तिवारे कुलधर ने राज्य दोयो श्रीधर ने १ राजधर ने २ \* श्रीजिनेश्वर सूरि वासक्षेप कसो भावक कसा तिवारे श्रीधर १ ने राजधर २ ने १ श्रीपार्श्वनाथजीरा देहरा कराया श्रीजिनेश्वरसूरिजी घणो द्रव्य खरचायौ प्रतिष्ठा करो भंडाररी साल मांहे वासक्षेप कसौ इण वास्ती भंडासालो गोत्र हुवौ, तिवारे पछे श्रीधररे ५ पांच पुत्र हुवा वीमसो \* १ वीमसो २ जगसो ३ रुपसो ४ देवसो ५ तिणमें वीमसोरो पोढ़ी चाली वाभारारो पोढ़ी आगे न चाली इण वास्ती वामसा पुत्र कुलचन्द ३, तत्पुत्र देव ४, तत्पुत्र धनपाल ५, तत्पुत्र साधारण ६, तत्पुत्र पुन्यपाल ७, तत्पुत्र सजू ८, तत्पुत्र देवु ९, तत्पुत्र गजमाल १०, तत्पुत्र जयती ११, तत्पुत्र बेतसी १२, तत्पुत्र वस्तो १३, तत्पुत्र पुंजी १४, तत्पुत्र आसकरण १५, तत्पुत्र यशोधवल १६, तत्पुत्र पुन्यसी \* १७, तत्पुत्र श्रीमल † १८, तत्पुत्र थाहर ‡ १९, तिवारे थाहर लोद्वेजोरा देहसा पड्या देषने जीर्णोद्धार करायो श्रीविष्णामणि पार्श्वनाथ-जीरो मूर्ति युगल देह थापी, श्रीजिनराजसूरिजी प्रतिष्ठा करो, घणा पुस्तक लिवाया, श्रीसिद्धाचलजी संघ कढायो, इण भांन धर्मरो घणी उन्नति करी, थाहरसा पुत्र २ मेघराज + १ हरराज + २ पुत्र मूलचन्द, तत्पुत्र लालचन्द, तत्पुत्र हरकिशन, तत्पुत्र जेठमल १ लघुपुत्र जसरूप २ जेठमल पुत्र २ गोडोदास १ जोकराज २ गोडोदास पुत्र ऋषभदास इति धिरुसाह वंशावली ।'

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि सगर राजा के पश्चात् १८ पीढों बाद सेठ थाहरसाहजो हुए थे और थाहरसाहजी को ६ पीढों बाद ऋषभदासजी हुए, और इनके समय में यह वंशावली लिखी गई होगी । मारवाड़ में भणशाली वंशजाले अभीतक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं ।

'महाजन वंश मुक्तावली' और 'जैन सम्प्रदाय शिक्षा' के कर्त्ता लिखते हैं कि भणशाली गोत्रवाले जैसलमेर में 'कच्छवाहे' कहलाने लगे परन्तु इसका कुछ कारण नहीं लिखा है । खोज करने पर मालूम हुआ कि सेठ थाहर-शाह के वंशजालों को जैसलमेर दरवार से ही यह उपाधो प्राप्त हुई थी । कुछ समय के पूर्व यहां कलकत्ते में जैसलमेर के सुलतान खन्दजी काछवा थे और उनको बुद्धिमत्ता कि प्रशंसा अभीतक सुनने में आनी है । राज-पूताना के बड़े २ समस्त खानों में ओसवालों कि वस्तो है और वहां प्रायः समस्त सहरो में भणशाली वंशजालों के घर पाये जाते हैं ।

\* लेख नं० २५४३

† लेख नं० २५४३-४४, २५७२ । इनकी भार्या का नाम चांपलदे था ।

‡ लेख नं० २५४३-४४, २५६६-७३ । इनको दो भार्यायें थीं जिनका नाम कनकादे और सोहागदे था ।

+ लेख नं० २५४३-४४, २५७१-७२ । यह वंशावली में इनके बाद के वंशजों का वर्णन नहीं है परन्तु लेख नं० २५७१ से ज्ञात होता है कि इनके भोजराज और सुखमल नामक दो पुत्र थे ।

+ लेख नं० २५४३-४४, २५६८-६९, २५७२ ।



## बाफणा वंश

जैसे विक्रम के १८ वीं शताब्दि के शेषार्द्ध में ओसवाल वंश के गेहलड़ा गोत्रवाले पूर्वदेश में समृद्धिशाली और राज सम्मान से विभूषित हुए थे उसी प्रकार राजपूताना में १६ वीं शताब्दि के प्रारम्भ से ही जैसलमेर निवासी बाफणा वंशवाले भी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुये थे । इस गोत्र की उत्पत्ति के विषय में 'महाजन वंश मुकाबलो' में कुछ वर्णन है । 'जैन सम्प्रदाय शिक्षा' के पृ० ६३१ में इस गोत्र की उत्पत्ति का इस प्रकार संक्षिप्त विवरण है :—

'धारा नगरी का राजा पृथ्वीधर पँवार राजपूत था, उसकी सोलहवीं पीढी में जोवन और सच्चू, ये दो राजपुत्र हुए थे, ये दोनों भाई किसी कारण धारा नगरी से निकल कर और जांगलू को फतह कर वहीं अपना राज्य स्थापित कर सुख से रहने लगे थे, विक्रम सं० ११७७ ( एक हजार एक सौ सतहसर ) में युग प्रधान जैनाचार्य श्रीजिनदत्तसूरिजी महाराज ने जोवन और सच्चू ( दोनों भाइयों ) को प्रतिबोध देकर उनका महाजन-वंश और बहूफणा गोत्र स्थापित किया ।'

मैं आगे ही कह चुका हूँ कि उस प्रांतमें बाफणा वंश वाले विशेष रिद्धि और प्रसिद्धिशाली हुए थे । इनके वंशजों का प्राचीन इतिहास मेरे देखने में नहीं आया । इनके पूर्वज देवराजजी से इनके वंशजों का विवरण लेख नं० २५३० में है । इनके पुत्र गुमानचन्दजी थे । उनके पुत्रों ने ही उस प्रांत के मुख्य २ नगरों में व्यापार आरम्भ किया था । इनके पाँचों पुत्र यथाक्रम ( १ ) बहादुरमलजी कोटा सहर में ( २ ) सवाईरामजी भालरापाटन में ( ३ ) मंगनीरामजी रतलाम में ( ४ ) जोरावरमलजी उदयपुर में और ( ५ ) परतापचन्दजी ने जैसलमेर में अपनी २ कोठियाँ खोली थी । इन लोगों के हाथ में बहुत से रजवाड़ों का सरकारी खजाना भी था । इसके शिवाय राजस्वान के और भी बड़े २ व्यापार केन्द्र और शहरोंमें इन लोगोंने महाजनी और तिजाराती आरंभ किये थे और प्रायः उन्होंने सब जगह बहुमूल्य इमारतें भी बनवायी थी जो अद्यावधि पट्टवों \* की हबेलीके नामसे प्रसिद्ध हैं । उस समय इन लोगों की प्रतिष्ठा बहुत कुछ बढ़ी चढ़ी थी । राजस्वान के कई दरबारों से इन लोगों को सोना बक्सा गया था और 'सेठ' की उपाधि से भी ये लोग सम्मानित किये गये थे । इन में से सेठ बहादुरमलजी और जोरावरमलजी उस समय के राजनैतिक कार्यों में भी पूरा भाग लेते थे ।

औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली सिंहासन क्रमशः हीनबल होता गया । इसी अवसर में महाराष्ट्रगण भारत के बहुधा प्रांत में स्वार्थवश नाना प्रकार अत्याचार करते थे । उसी समय ब्रिटिश सरकार भी प्रायः सर्वत्र राजनैतिक नामा कौशल से भारत में शांति स्थापन के लिये और दुखी प्रजाजनों का कष्ट दूर करके राज्य विस्तार

\* ये लोग किस प्रकार से 'पट्टवा' कहलाने लगे इसकी कोई विश्वासयोग्य ऐतिहासिक कथा मुझे मिली नहीं । इस वंश के कई स्थानवाले आज तक पट्टवे के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

करने की चेष्टा में लगे थे । ये लोग जिस समय राजस्थान में राजपूत राजाओं के साथ मैत्री स्थापन और उन लोगों के पारस्परिक वैमनस्य हटाने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय सेठ बहादुरमलजी और जोरावरमलजी का धीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर आदि स्टेटों में विशेष प्रभाव था और उस समय ब्रिटिश सरकार को भी इन लोगोंने अच्छी सहायता पहुंचाई थी । ये विवरण सरकारी कागजात और अंगरेज अफसरों के पुस्तकों \* से प्रमाणित हैं । हर्ष का विषय है कि आज भी इनके वंशज कोटा निवासी सेठ केशरीसिंहजी 'धीवान बहादुर' की उपाधि से विभूषित हैं । उदयपुर निवासी राय बहादुर सेठ सिरमलजी बाफणा खनाम विख्यात हैं । आप आज ईदौर स्टेट के प्रधान मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं । सरकार की ओर से राय बहादुर आदि पदवी प्राप्त करने के अतिरिक्त स्वयं उच्च शिक्षित हैं और आपने विश्वविद्यालय के एम० ए० की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था । आप दो बार यूरोप की यात्रा भी कर आये हैं ।

लेखों से और खोज करने पर इन लोगों के वंशजों की वर्तमान समय तक की नामावली इस प्रकार मिली है :—

सेठ देवराजजी † ( १ ) के पुत्र गुमानचन्दजी † ( १,२,३ ) थे । इनकी भार्या का नाम जैता † ( १,२ ) था । इनके ५ पुत्र और २ कन्यायें थीं । ये लोग ही जैसलमेर से राजपूताना के और २ सहरों में जाकर बसे थे । इनके पुत्र, कन्या, पौत्रादि के नाम इस प्रकार मिले हैं ।

[ १ ] बहादुरमलजी † ( १,२ ) । इनकी भार्या का नाम चतुरा † ( १ ) था । इनके पुत्र दानमलजी † ( १,२ ) थे । दानमलजी के भी कोई पुत्र नहीं रहने के कारण रतलाम से भभूतसिंहजी के ३य पुत्र हमीरमलजी गोद आये थे । इनके पुत्र राजमलजी थे । राजमलजी के पुत्र धीवान बहादुर केशरीसिंहजी हैं और इनके पुत्र राजकुमार सिंहजी हैं ।

[ २ ] सवाईरामजी † ( १,२,३ ) । इनकी भार्या का नाम जीवा † ( १ ) था । इनके सामसिंहजी और माणकचन्दजी † ( १ ) दो पुत्र थे और सिरदारो, सिणगारी और नानूडी † ( १ ) ये तीन कन्यायें थीं । सामसिंहजी के पुत्र रतनलालजी † ( १ ) थे । रतनलालजी के पन्नालालजी और सुरजमलजी ये दो पुत्र थे । इन लोगों के पुत्र कोई न था । अक्षयसिंहजी को गोद लिया गया और इनके विजयसिंहजी गोद आये हैं ।

[ ३ ] मगनोरामजी † ( १,२ ) । इनकी भार्या परतापा † ( १ ) थीं । इनके एक पुत्र भभूतसिंहजी † ( १ ) और दो कन्यायें हरकंधर और हस्तू † ( १ ) थीं । भभूतसिंहजी के पूनमचन्दजी, दीपचन्दजी † ( १ ) और

\* See Boileau's Personal Narrative, London, 1823. pp. 3, 44, 85, 133, &c.

† अमरसागर और सहर के घर देरासर धनौरह के जिन लेखों में इन लोगों का उल्लेख मिला है उन लेखों के नंबर इस प्रकार विन्धित हैं :— ( १ ) लेख नं० २५३० ( २ ) लेख नं० २५२४ ( ३ ) लेख नं० २५३१

हमीरमलजी ये तीन पुत्र थे । हमीरमलजी कोटे गोद गये । दीपचन्दजी के दो पुत्र सोमानमलजी और चाँदमलजी \* (१) थे । इन लोगों के कोई पुत्र नहीं रहने के कारण कोटे के केशरीसिंहजी रतलाम को गोद के भी मालिक हुए । सेठ चाँदमलजी ने सं० १६६२ में बड़े घूमभाम से जैसलमेर में अट्टार्ह महोत्सव किया था १ उस समय बहाई महराजस्यक शालिवाहनजी गद्दी पर थे और वे स्वयं उत्सव में उपस्थित थे । चाँदमलजी की भार्या फूलकुंवर बाई वर्तमान हैं और कलकत्ते में रहती हैं तथा रतलाम की सेठानी के नाम से परिचित हैं ।

[ ४ ] जोरावरमलजी ( २,३,४ ) । इनकी भार्या का नाम चौथा \* ( ४ ) था । इनके सुलतानमलजी और चाँदमलजी \* ( ४ ) दो पुत्र थे । सुलतानमलजी के दो पुत्र गम्भीरमलजी और इन्दरमलजी \* ( ४ ) थे । गंभीरमलजी के पुत्र सरदारमलजी \* ( १ ) थे । इनके समीरमलजी गोद आये । इन्दरमलजी के कुन्दणमलजी गोद आये और इनके भी कोई पुत्र नहीं रहने के कारण संगराम सिंहजी गोद आये ।

जोरावरमलजी के द्वितीय पुत्र चानणमलजी के जुहारमलजी और छोगमलजी ये दो पुत्र थे । जुहारमलजी के एक मात्र कन्या थीं जिनका विवाह जावरा हुआ था । छोगमलजी के चार पुत्र छगनमलजी, सिरिमलजी, देवीलालजी, संगराम सिंहजी हैं । स्वनाम क्ख्यात सिरिमलजी के विषय में ऊपर लिखा गया है । कनिष्ठ संगरामसिंहजी कुंनणमलजी के गोद गये हैं । छगनमलजी के धनरूपमलजी और साबतमलजी दो पुत्र हैं । सिरिमलजी के कल्याणमलजी और परताप सिंहजी ये दो पुत्र और दो कन्यायें हैं । कल्याणमलजी के जतबंत सिंहजी और धनकमलजी नामके दो पुत्र हैं ।

[ ५ ] परतापचन्दजी \* ( १,३,५ ) । इनको भार्या माना थीं । इनके हिमत्ररामजी, जेठमलजी, नथमलजी \* ( १,४,५ ) सागरमलजी और उमेदमलजी \* ( १,५ ) ये पांच पुत्र थे । हिमत्ररामजी के जीवणलालजी \* ( ४ ) प्रवमदासजी, चिन्तामणदासजी, और भगवानदासजी \* ( १ ) ये चार पुत्र थे । चिन्तामणदासजी के कन्हैयालालजी \* ( १ ) और धनपत्रलालजी नाम के दो पुत्र हैं । परतापचन्दजी के द्वितीय पुत्र जेठमलजी के दो पुत्र मूलचन्दजी \* ( १,४ ) और सगतमलजी \* ( १ ) हैं । परतापचन्दजी के ३य पुत्र नथमलजी के पुत्र केशरीमलजी \* ( १ ) थे । इनके दो पुत्र लूणकरणजी \* ( १ ) और चेमकरणजी हैं । परतापचन्दजी के चतुर्थ पुत्र सागरमलजी के दो पुत्र बागमलजी और सांगीदासजी \* ( १ ) नामके थे । जिनमें सांगीदासजी अपने काकाजी के गोद गये हैं । परतापचन्दजी के पंचम पुत्र उमेदमलजी भातपुत्र सांगीदासजी को गोद लिये हैं और इनके आर्दानजी नामक पुत्र हैं ।

( ६-७ ) सेठ गुमानचन्दजी के भवू और बीजू \* ( ४ ) नाम की दो कन्यायें थीं ।

\* अमरसागर और सहर के घर देरासर बगैरह के जिन लेखों में इन लोगों का उल्लेख मिला है उन लेखों के नंबर इस प्रकार चिन्हित हैं:— ( १ ) लेख नं० २५३१ ( २ ) लेख नं० २४६० ( ३ ) लेख नं० २५२४  
( ४ ) " २५३० ( ५ ) " २४५६





जैसलमेर  
पत्थर की  
मूर्तियों के  
शिल्पकला का  
नमूना

SPECIMENS  
OF  
SCULPTURES.

Jaisalmer



## शिल्पकला

भारत के अन्यान्य ऐतिहासिक स्थानों को तरह जैसलमेर में भी प्राचीन शिल्पकला के दृष्टान्त को कमो नहीं है। विस्तृत मरुभूमि के मध्य में अवस्थित रहने के कारण यह स्थान बड़ा ही दुर्गम है और इसी लिये फर्गुसन भादि शिल्प विद्वानों के ग्रन्थों में इस स्थान के शिल्पकला की चर्चा नहीं मिलती। 'इंडियन पन्टोक्वेरो' नामक पुरातत्व की प्रसिद्ध पत्रिका के वलयूम ५ के पृ० ८२-८३ में यहां के जैन मंदिरों और सहर के धनाढ्य लोगों को रमणीय अट्टालिकाओं को प्रशंसा के विषय में उल्लेख है कि उन सबों में पत्थर पर की खुदगारी का काम बहुत ही उत्कृष्ट है। मैं पहले लिख चुका हूँ कि यहां के वर्तमान स्टेड इंजिनियर ने हाल ही में स्थापत्य शिल्प नामक प्रबन्ध प्रकाशित किया है जिस में यहां की भी शिल्पकला का सचित्र परिचय दिया है। किले पर जो आठ जैन मन्दिर हैं उन में से कईपक मंदिरों के शिल्पकार्य के चित्र पाठकों को इस पुस्तक में मिलेंगे। इन सबों से यहां के शिल्पकार्य की उत्कर्षता अच्छा तरह उपलब्ध हो जायगी। विशेषता तो यह है कि यह स्थान इतना दुर्गम होने पर भी वहां पर भारत के शिल्पकला-कारोगरों द्वारा जो मंदिर बगैरे बतवाये गये हैं वह केवल वहां के धनाढ्य लोगों की धर्मपरायणता और शिल्प-प्रेम का ज्वलन उदाहरण है। वहां के मनोह्र शिल्पकला के दो नमूने पाठकों के सम्मुख हैं। पाषाण में किस निपुण्य से शिल्पो मूर्तियां बनाई है वह चित्रों के भाव से ही अनुभव होगा। पाठक और भी देखेंगे कि वहां के श्रीशांतिनाथजी के मंदिर के ऊपर का दृश्य क्या ही सुन्दर है। इसे देखकर शिल्प-निपुण विद्वान् यही कहेंगे कि इस में शिल्पकला की सर्व प्रकार की श्रेष्ठता विद्यमान है। भारत के अन्यान्य स्थानों की प्रसिद्ध कारोगरों का दृश्य साथ ही स्मरण आता है। मंदिर के ऊपर खुदे हुए मूर्तियों के आकार बहुत ही अनुपात से याने मिलान से हैं। यही कारण है कि ऊपर से नीचे तक के सम्पूर्ण दृश्य चित्राकर्षक हैं। इसके किसी भी स्थान में सौन्दर्य को कमो नहीं पाई जाते। इस में यह भी विशेषता है कि बहुत सी मूर्तियों के रहने पर भी दृश्य भयंकर अथवा सघन नहीं दिखाई पड़ते। सुमात्रा, जाभा, भादि द्वीपों में जो प्राचीन भारतीय शिल्पकला का नमूना पाया गया है उससे यहां की कारोगरी बहुधा मिलती जुलती है। जाभा के 'बोरोबोडूर' नामक स्थान के प्राचीन हिन्दू मंदिर के ऊपर का दृश्य और मूर्तियों के अनुपात भी प्रायः इसी प्रकार के हैं। श्रीपार्श्वनाथजी के मंदिर की कारोगरी भी अनुलनीय है। इस मंदिर के तोरण द्वार के चित्र से ज्ञात होगा कि वहां की मूर्तियां किस सुन्दरता से गढ़ी गई हैं। देखने ही से भारतीय कला की श्रेष्ठता फलकती है, इन में सौन्दर्य और गाम्भीर्य दोनों गुणों का समावेश है। अमरसागर में भी वर्तमान शताब्दि की कारोगरों का उज्ज्वल नमूना विद्यमान है। वहां के श्वेत मर्मर के जाली के कारुकाय का जो दृश्य चित्र में मिलेगा उस से यह स्पष्ट है कि मंदिर के निर्माता को शिल्प से कहां तक प्रेम था और इस कार्य की सफलता के लिये उन्होंने सहर्ष कितना प्रचुर द्रव्य व्यय किया था।

जैसे ग्रन्थागम में रचयिता को नाना प्रकार की कठिनार्थां झेलनी पड़ती हैं वैसे ही ग्रन्थ समाप्ति के समय उन्हें एक अनिर्ध्वनीय आनन्द का भी अनुभव होता है । आज इस भूमिका को समाप्ति के समय मेरे इस कार्य में सहायता देनेवाले सज्जनों को अपनी ओर से पूर्ण कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मुझे भी वही अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ है । वर्ष प्रथम वयोवृद्ध दधिमति ब्राह्मण कुलोद्भूत स्वनाम ख्यात ऐतिहासिक विद्वान मेरे मित्र जोधपुर निवासी पं० रामकरणजी का आभार मैं सर्वान्तःकरण से मानता हूँ । आपने मेरे अनुरोध पर बाधायें रहते हुए भी मेरे साथ सहर्ष जैसलमेर चलने की कृपा की थी । जैसलमेर के प्रसिद्ध बैंकर्स सेठ हजारीमलजी राज-मलजी साहय ने भी आज तक मुझे इस कार्य में उत्साहित करने की जो उदारता दिखालाई है वह भी प्रशंसनीय है । वहाँ के स्टेट इंजीनियर बाबू नेपालचन्द्रजी दत्त के विषय में मैं आगे ही लिख चुका हूँ, उनका मैं विशेष कृतज्ञ हूँ । वहाँ के मेरे सहायकों में खरतरगच्छोय यति महाराज श्रीमान् पं० वृद्धिचन्द्रजी के शिष्य पं० लक्ष्मोचन्द्रजी यति महोदय भी विशेष उल्लेखनीय हैं । इतना ही लिखना बाहुल्य होगा कि दादाखान आदि सहर से दूरी पर के स्थानों के लेखों के संग्रह करने में मुझको सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त लोद्गवा, ब्रह्मसर आदि के विषय में जो कुछ यहाँ लिखा गया है अधिकतया इनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ था इस लिये इन का भी मैं सहय आभार मानता हूँ । इस पुस्तक में मेरे मध्यम और तृतीय पुत्र श्रीमान् पृथ्वीसिंह नाहर बी० ए० और श्रीमान् विजय सिंह नाहर बी० ए० उन लोगोंने अपनी योग्यतानुसार मेरे कार्य में जो कुछ सेवा पहुँवाई है इस कारण उन लोगों को आशिर्वाद देता हूँ । पुस्तक प्रकाशित करने में कापो से लेकर जिल्द बंधाई तक जो परिश्रम, कठिनाई और अर्थव्यय होता है वह सुन्न पाठक अच्छी तरह जानते ही होंगे । मैं उपरोक्त समस्त विषय में यथा-शक्ति कर्तव्य पालन करने की चेष्टा की है परन्तु मेरी शारीरिक अक्षमता के कारण बहुत सी त्रुटियाँ मिलनी सम्भव हैं । आशा है कि उसे पाठक अपने उदार गुण से क्षमा करेंगे । अलमति विस्तरेण

४८, इन्डियन मिमर स्ट्रीट,

कलकत्ता ।

सं० १९८५ ई० सं० १९२६

निदेशक

पुरणचन्द नाहर







# भूमिका-परिशिष्ट

[ क ]

देवघाड़ा मंदिर - आबू तीर्थ

कल्याणक पट्ट ।

कातिय वदिहिं		मागसिर सुदिहिं	
नाणं संजवस्त	५	जंमो अरस्त	१०
चवणं नेमिस्त	१२	मोस्को अरस्त	१०
जंमो पउमस्त	१२	दिक्खा अरस्त	११
दिक्खा पउमस्त	१२	नाणं नमिस्त	११
मोस्को वीरस्त	१५	जंमो मद्धिस्त	११
कातिय सुदिहिं		दिक्खा मद्धिस्त	११
नाणं सुविहिस्त	२ ( ३ )	नाणं मद्धिस्त	११
नाणं अरस्त	१२	जंमो संजवस्त	१४
मागसिर वदिहिं		दिक्खा संजवस्त	१५
जंमो सुविहिस्त	५	पोसह वदि-	❀
दिक्खा सुविहिस्त	६	जंमो पासस्त	-
दिक्खा वीरस्त	१०	दिक्खा पासस्त	-
मोस्को पउमस्त	११	जंमो चंदप्पह	-
		दिक्खा चंदप्पह	१३

\* इस पट्ट के ऊपर के बांये' तरफ का कुछ अंश टूटा हुआ है इस कारण पोस वदि और माह वदि की बहुत सी पंक्तियां शिलालेख में नहीं रही हैं । यह विल से ही स्पष्ट मालूम हो जायगा ।

नाणं सीयलस्त १४

पोसह सुदिहिं

नाणं विमलस्त ६

नाणं संतिस्त ९

नाणं अजियस्त ११

नाणं अजिनंदण १४

नाणं धमस्त १५

— — — —

नाणं सेयंसस्त

माहह सुदिहिं

नाणं वासुपुज १

जंमो अजिनंदण १

जंमो विमलस्त ३

जंमो धमस्त ३

दिक्खा विमलस्त ४

जंमो अजियस्त ७

दिक्खा अजियस्त ९

दिक्खा अजिनंदन ११

दिक्खा धमस्त १३

फागुण वदिहिं

नाणं सुपासस्त ६

मोस्को सुपास ७

नाणं चंदप्पह ७

चवणं सुविह ९

नाणं उसजस्त ११

जंमो सेयंसस्त ११

नाणं सुवयस्त १२

दिक्खा सेयंसस्त १३

जंमो वासुपुज १४

दिक्खा वासुपुज १५

फागुण सुदिहिं

चवणं अरस्त १ ( १ )

चवणं मल्लिस्त ४

चवणं संजवस्त ७

मोस्को मल्लिस्त ११

दिक्खा सुवयस्त १२

चेत्रह वदिहिं

चवणं पासस्त ४

नाणं पापस्त ४

चवणं चंदप्पह ५

जंमो उसजस्त ७

दिक्खा उसजस्त ७

चेत्रह सुदिहिं

नाणं कुंथुस्त ३

मोस्को संजव	५
मोस्को अणंत	५
मोस्को अजित	५
मोस्को सुमइ	९
नाणं सुमइस्त	११
जंमो वीरस्त	१३
नाणं उपमस्त	१५

वइसाइ वदिहिं	
मोस्को कुंथुस्त	१
मोस्को सीयल	२
दिकला कुंथुस्त	५
चवणं सीयल	६
मोस्को नमिस्त	१०
जंमो अणंतस्त	१३
दिकला अणंतस्त	१४
नाणं अणंतस्त	१४
जंमो कुंथुनाइ	१४

वइसाइ सुदिहिं	
चवणं अजिनंदन	४
चवणं धमस्त	४
मोस्को अजिनंदन	४
जंमो सुमइस्त	५

दिकला सुमइस्त	९
नाणं वीरस्त	१०
चवणं विमल	१२
चवणं अजिय	१३

जेठ वदिहिं	
चवणं सेयंतस्त	६
जंमो सुठवयस्त	७
मोस्को सुठवयस्त	९
जंमो संतिस्त	॥ १३
मोस्को संतिस्त	१३
दिकला संतिस्त	१४

जेठ सुदिहिं	
मोस्को धमस्त	५
चवणं वासुपुन	९
जंमु (मो) सुपासइ	१२
दिकला सुपासइ	१३

आसाठ वदिहिं	
चवणं उत्तचस्त	४
मोस्को विमल	७
दिकला नमिस्त	९

आसाठ सुदिहिं	
--------------	--

चवणं वीरस्स	६
मोस्को नेमिस्स	७
मोस्को वासुपुज्ज	१४
श्रावणं वदिहिं	
मोरको सेयंसह	३
चवणं अणंतस्स	७
जंमो नमिस्स ॥	७
चवणं कुंथुस्स ॥	९

श्रावणं सुदिहिं

चवणं सुमइस्स	३
जंमो नेमिस्स ॥	५
दिस्का नेमिस्स ॥	६
मोस्को पासस्स ॥	७
चवणं मुणि सुववय ।	१५

जाडवा वदिहिं

चवणं संतिस्स ॥	७
मोस्को चंदपह	७
चवणं सुपासस्स	७

जाडवा सुदिहिं

मोस्को सुविहिस्स	९
------------------	---

आसोच वदिहिं

नाणं नेमिवाहस्स १५

आसोच सुदिहिं

चवणं नमिस्स १५



पडमाचं वासुपुज्जो रत्ता

ससि पुप्फदंत ससिगोरा

सुववय नेमी काखा । पासो

मल्ली पियंगाजा ॥ १ वरतवि-

य कणगंगोरा । सोखस ति-

त्थंकरा मुणेयठवा । एसो व-

न्नविजागो चउवीसाण जि-

णवराणं ॥ ३

सुमइ त्य निच्चजत्तणे निग्ग-

थो वासुपुज्जो जिणो चउरथेथ

पासो मल्ली विथ अठमेण । से-

सा उ उठेण ॥ निःक्रमणं तपः

अष्टमजत्तंतमिय । पासो  
सज मस्त्रि रिष्ठनेमीणं । वसु-  
पुञ्जस्स चउरथेण । उष्ठजत्ते-  
ण सेसाणं ॥ केवस्त्रि तपः

निव्वाणमंतकिरिया । सा च-  
उदसमेण पढमनाइस्सं ।  
सेसाण मासिणं वी (२) जि-  
णिंदस्स ठेणं ॥ निर्वाण त-  
पः ॥ उसजो पंचधणुसण  
नव पासो सत्त रयण्णिओ वीरो  
सेसइ पंच अइय पन्ना वस  
पंच परिहीणा देइमानं ॥ ❀

वङ्गसं वर ससिणो सीसेणं नेमिचंद सूरिस्स । जव (?) जयाणंदेणं गणिणा सिद्धिं  
सिवं देउ ॥

\* शिलालेख में कव्याणकों की लिपियों के अतिरिक्त तीर्थक्षुदों के शरीर के वर्ण, निष्कमण, केवलो, निर्वाण तप और शरीर प्रमाण की गाथायें भी खुदी हुई हैं । ये सब गाथायें 'आवश्यक सूत्र' को निर्युक्ति को त्रिताया चरवरिका में श्लोक संख्या १७१, १७२, ६, ३३, ८४ और १७३ में दी हुई हैं । इस ग्रन्थ के कुछ अंश 'यशाविजय जैन ग्रन्थमाला' नं० ४६, ४७ में छपे थे । इसके पृ० ६३-६४, ४०, ४४, ५१ और ६४ में यथाक्रम से उपरोक्त गाथायें मिलेंगी । 'प्रबन्धन सापेक्षर' में भी ऐसी गाथायें हैं ।

[ ४ ]

श्री जिनसुखसूरि विरचित  
जैसलमेर चैत्यपरिपाटी

[ श्लोक १ — रत्नपालो ]

जिनवर जैसल जुहारिये, लीजे छिपमीनो लाह । विवेको  
गाजे वाजे बहु गडगाटसुं, चेत्र प्रवाड़े रे चाह ॥ वि० जि० १  
पहिखी परदक्षणाये प्रणमिये, जगगुरु वीर जिनन्द ॥ वि०  
वर प्रासाद करायो वरड़िये, दोपे जाव जिनन्द ॥ वि० जि० २  
पहिखी जमती मांदि परतमा, एकसौ अधिक इग्यार । वि०  
गंजारे देहरासर मांदि, गिणो एकसौ इकवीस सार ॥ वि० जि० ३  
आगलि श्री आदिश्वर आवतां जमती विहुं घर जाव । वि०  
प्रतिमा पंचाणुं ने वलि पांचसै, गिनती करि गुणगाव ॥ वि० जि० ४  
गंजारे ने वलि उगरि गिणुं, ठाजे विंघ ठत्रिस । वि०  
धन प्रासाद करायो गणधरे, जोत्रो धरिये जगोश ॥ वि० जि० ५

[ श्लोक २ — बंजापती ]

इमचन्द्र प्रभु जिनवर मोहियो, प्रगट वड़ो प्रासाद । वि०  
चूमे तीने चौमुख जेटिये, परहो तजिये प्रमाद ॥ वि० जि० ६  
जलै इकसौ आणुं धूरि चूमिका, एकसौ ठवीस यह । वि०  
तीजे चूमे चाछीसै तराणवे, जिनवर राजे जेह ॥ वि० जि० ७  
कीधी ध्यातै जातै कोरणी, चारुं विविध विनाण । वि०  
जणशास्त्रीये साज लीयो जलो, मोटो जाण विमान ॥ वि० जि० ८

[ डाल ३ — काण्ठीयाणो ]

आवो अष्टापदे रे, आपद जाय असगग ।  
 कुंथ प्रासाद करायो सिंघवी रे, जेहनौ यशकहे जगग ॥ जि० ए  
 वाहिरखी जमती तिम चौकमै रे, जिन एकसो सेंतीस ।  
 दोइसो साठ गुजारै दूसरै रे, गणधर अछावीश ॥ जि० १०  
 सोखम संति जिनेश्वर सेवीइं रे, हितसौ उपर हेव ।  
 जमती वाहिरखी मइ जेटियै रे, दोइसो चाखीस देव ॥ जि० ११

चौक मांहे जिहा प्रतिमा च्यारसै रे, जरियो पुण्य जंडार ॥ जि० १२

[ डाल ४ — कय्य परोक्षानो ]

नमीये तिहार्या संजवनाथजी रे, तीजो जिनवर तेह ।  
 चावो तीरथ कीधो चोपडै रे, एहनौ सुयश अठेह ॥ जि० १३  
 वाहिरखे चौके प्रतिमा दोसो रे, मांहि अढीसै इकतीस ।  
 ठग्रीस मंडप विचले उंचीठै रे, गंजारै चौबीस ॥ जि० १४  
 वार मांदिखी जमती बोखीयै रे, दीपे थंजा दोइ ।  
 रचना सहू तपनी पाटै रची रे, यंत्र तिके तूं जोय ॥ जि० १५  
 हागे जखो रचायो देहरो रे, शीतल नै जिहां शांति ।  
 त्रिणसै नै चवदे प्रतिमा तिहारै, जेटीजै तजि ज्ञांति ॥ जि० १६

[ डाल ५ — करण करणनी ]

विधि चैत्याले जिनवर बंदीये, संघचतुर्विध साथ ।  
 शक्रस्तव ए बेकरि शुच विधे, प्रथमो पारशनाथ ॥ जि० १७

\* यह वाक्या 'प्राचीन तीर्थमाला संग्रह' (पृ० १४७) में छुटक है । बहुत कोज करने पर भी दूसरो प्रति नहीं मिली इसलिये वैसे ही प्रकाशित किया गया ।



देहरी बावनमें विंष दीपतां, पांचसै पेंताखीस ।  
पाटि सेप्रुंजै ढिछू प्रजुजीके, प्रेम धरि प्रणमीस ॥ जि० १७  
इकसौ वेताखीस विहूं चौकमें, ऊंचे मण्णव वार ।  
मूख गंजरै देहरासर नमूं, सौ इक चवदे सार ॥ जि० १८  
तिस्रकै तोरण बीजै तोरणै, विंष वासठ नै वार ।  
त्रेवीस पासै मंडव रे तिके, सो प्रणमुं श्रीकार ॥ जि० २०  
संवत वारैसै वारोत्तरे, ( १११२ ) थो जैसअगढ़ जाण ।  
घाप्यो सेठै कीरत थंज ज्युं, मोटो चैत्य मंडाण ॥ २१

[ कलस ]

इम महा आठ प्रासाद मांहे विंष पेंताखिससै ।  
चौरासी उपर सरब जिनवर वंदतां चिच उह्लसै ॥  
डुख जाय हूरै सुख पूरे संघने संपति करइ ।  
संश्रुण्या श्री जिनसुखसुरै सतरैसै इकहोत्तरइ ( १११२ ) ॥ २२ ॥

इति श्री जिनसुखसुरि कृत चैत्यपरिपाटी स्तवन सम्पूर्ण ।



[ ग ]

श्रीमहिमा समुद्रजो कृत

## जैसलमेर चैत्यपरिपाटी

[ राग बेलावल ]

आज आनन्द बधावना, दुध्या जय जय कार ।  
जिनवर आठ जुहारिये, जैसलमेरु मकार ॥ १  
जग गुरु श्रीमहावीरजी, जिनवर प्रथम वखाण ।  
शिखर करायो बड्डिये, नमता जनम प्रमाण ॥ २  
बीजे जिनवर जेटिये, आदिसर अरिहन्त ।  
प्रवर मंढायो गणधरे, सवि जन मन मोहन्त ॥ ३  
श्रीचन्द्र प्रज स्वामिनो, चौमुख जवन उदार ।  
अति सुन्दर जणशाखीये, करायो सुखकार ॥ ४  
जुवन जिनेश्वर कुंथुनो, अष्टापद अवतार ।  
संघविये ये करावियो, कोरखी अधिक उदार ॥ ५  
ऊपर जुवन सुहावनो, श्री शान्तिश्वर स्वाम ।  
धन धन बीदो संघवी, जिन राख्यो निज नाम ॥ ६  
श्री सक्रम जिन सेविये, जाव जगत उठरंग ।  
चैत्य करायो चोपडे, बिब अनेक सुचंग ॥ ७

सोम बदन मूरति जसो, श्री शीतल जिन राय ।  
सुयश लियो डागे जसो, महिमा अधिक कहाय ॥ ७  
सुखनायक सुहावनो, भी चिंतामणि पास ।  
धनते सेठ सराहिये, खरच्यो ड्रव्य उल्लास ॥ ८  
जिनवर आठ सुहावना, शोचित नखिनी विमान ।  
दंड कसस स्वज छद् छद्दे, जग मग कनक जुं वान ॥ १०  
जैसलमेरु नगर जसो, राबल सबल नरीन्द्र ।  
राज प्रजा सुखिया सदा, दिन २ परमानन्द ॥ ११  
सम्बत् सतर अठोतरे ( १७०७ ) श्रावण मास उल्लास ।  
महिमासमुद्र जिनचंदने, होवे लील विलास ॥ १२

इति श्री महिमासमुद्रो विरचित चैत्यपरिपाटी स्तवन सम्पूर्ण ।



[ घ ]

उपाध्याय श्री समयसुन्दरजी कृत

## श्री अष्टापदजी शान्तिनाथजी का स्तवन

[ ढाल १ — मोरा साहिव हो पहनी ढाल ]

अष्टापद हो उपर लो प्रासादकी, बोदे संघवी करावीयो ।  
जिण लीधो हो लषमीनो लाइकी, पुन्य जंडार जरावियो ॥ अ० १  
मोरा साहिव हो श्री शान्ति जिनन्दकी, मनहर प्रतिमा सुंदरु ।  
निरषंतो हो थाये नयणानन्दकी, वंठित पूरण सुरतरु ॥ अ० २  
देहरे में हो पेसंता डुवार को, सेत्रुंज पाटस्युं देखिये ।  
जमती में हो बहु जिनवर विम्ब की, नयणे देखी आनन्दिये ॥ अ० ३  
सतरे से हो तीर्थकर देव की, त्रिहुं पासे नमुं वारणे ।  
गज उपर हो चढीयो माय नै वाप को, मूरति सेवा कारणे ॥ अ० ४  
अति ऊंचो हो सांहे श्रीकार की, दंड कलस ध्वज लह लहे ।  
धन्य जीठयो हो तेहनो प्रमाण की, यात्रा करी मन गह गहे ॥ अ० ५  
जैसलमेर हो पनेरेसे बत्तीस (१५३६) को, फागुण सुदि तीजे यश लीयो ।  
खरतर गञ्ज हो जिन समुद्रसूरीस की, मूलनायक प्रतिष्ठियो ॥ अ० ६  
हित जाण्यो हो श्री शान्ति जिनन्द की, तूं साहिव ठे माहरो ।  
समयसुन्दर हो कहे वेकर जोड़ि को, हुं सेवक तुं ताहरो ॥ अ० ७  
इति ७० श्री समयसुन्दरजी कृत • श्री अष्टापदजी शान्तिनाथजी का स्तवन सम्पूर्ण ।

\* श्री समयसुन्दरजी के पदों से ज्ञात होता है कि आप विद्वान और कविके अतिरिक्त राम रागजी और देवा बालों के अच्छे वेत्ता थे । अद्यावधि इनके बनाये हुये सैकड़ों पद तथा रास, सिन्हाय आदि मिलते हैं । प्रयत्न है कि "समयसुन्दरजीरा गीतड़ा, भोतड़ा, जोररा" अर्थात् इनके रचे हुये पद इतने मिलते हैं कि उनका संख्या करनी कठीन है ।

[ च ]

उपाध्याय श्री समयसुन्दरजी विरचित

## श्री आदीश्वर स्तवन

[ ढाल १ — गलियारे साजन मिल्यानी चाल ]

प्रथम तीर्थकर प्रणमिये, हुंवारी छाल, आदिनाथ अरिहन्त रे । हुं०  
गणधर वसही गुण निलो, हुं०, जव जंजन जगवंत ॥ हुं० प्र० १

[ ढाल २ — अलवैलानी चाल ]

सच्चू गणधर शुजमतिरे, छा०, जयवंत जत्रिज जास । मन मान्यारे  
मिखि प्रासाद मंडावियो रे, छा०, आनी मन उह्वास ॥ म० प्र० २

[ ढाल ३ — ओलगडो नो चाल ]

ध्रमसी जिनदत्त देवसी, जीमसी मन उह्वाहो ।  
सुत चारे सच्चूतणा ल्ये, लक्ष्मी नो छाहोजी ॥ प्र० ३

[ ढाल ४ — योगनारी चाल ]

फागुण सुदी पांचम दिने रे, पनरे से बतीस ( १५३६ ) ।  
जिनचन्द सूरि प्रतिष्ठाया रे, जग नायक जगदीश ॥ प्र० ४

[ ढाल ५ — देशी चाल ]

जरत बाहुबल अति जला, जिनजी काउसग्गीया बिहुंपास ।  
मरुदेवी माता गज चढ़ी, सिखर मंडप सुप्रकाश ॥ प्र० ५

[ ढाल ६ — वेगवती ते बामणो सहनो चाल ]

बिहुं जमति विम्बावली, कारणी अति श्रीकारो रे ।  
समोसरण सोहमणी, विहरमान विस्तारो रे ॥ प्र० ६

[ ढाल ७ — जलालियानो चाल ]

जिम ३ जिन मुख देखिये रे, तिम तिम आनन्द थाय । म्हारा जिनजी  
पाप पुलाये पाठला रे, जन्म तणा दुख जाय ॥ म्हारो प्र० ७

[ ढाल ८ — वीर बलाणो राणी चेलणा ए बाल ]

जिन प्रतिमा जिन खारखी जी, ए कद्यो मुक्ति उपाय ।  
नयणें मूरत निरखताजी, समकित निर्भय थाय ॥ प्र० ८

[ ढाल ९ — कर्म परीक्षा करण कुंघर चलयो ए बाल ]

आर्द्र कुमार तणी परें जी, सज्यंजव गणधार ।  
प्रतिमा प्रतिबुध्या थकी रे, पाम्या जवनो पार ॥ प्र० ९

[ ढाल १० — चरणांली चामुंडा रण बढे पहनी ए बाल ]

नाचिराय कुल सिर तिखो, मरूदेवी मात मदहारो रे ।  
खंडन वृषज सोहामणो युगला धर्म निवारोरे ॥ प्र० १०

[ ढाल ११ — कर जोड़ी आगल रही नी चाल ]

आज सफल दिन माहरा, जेट्या श्री जंगतंतरे ।  
पाप सहू पराजव गया, हिवडो अति हरखंतो रे ॥ प्र० ११

[ ढाल १२ — राग धन्याश्री ]

इण परि तिनव्यो जैसलमेर मजार ।  
गणधर वसही मुख मंडण जिन सुख कार ॥  
संवत सोलहसै एक असी ( १६८१ ) नज मास ।  
कहै समय सुन्दर कर जोड़ी ए अरदास ॥ प्र० १२

इति ३० श्री समयसुन्दर जो कृत श्री आदीश्वर स्तवन \* सम्पूर्ण ।

\* यह स्तवन परिशिष्ट छपते समय मुझे बीकानेर निवासी श्रीमान भंवरलालजी नाहटा की हृपासे मिला है ।  
यदि जैसलमेर जानेके पहिले यह सब स्तवन मुझे प्राप्त हुए होते तो लेखों के संग्रह में विशेष सहायता मिलनी ।  
“आनन्द काव्य महोदधि” भाग ७ के पृ० २४ में कविवर के सं० १६८१ में जैसलमेर के निवास का उल्लेख है ।  
इसी समय आपने यह सब स्तवनों की रचना की थी ।

[ ७ ]


श्री जिनघात सूरि कृत

## लोद्रवपुर स्तवन

[ ढाल — रलीयानी ]

धन धन धुंनौ पाटण खोडबौ, जुंनौ तोरथ जयकार । खोजागो  
पंचानुत्तर नमुनो प्रगटियौ, मानव लोक मजार ॥ सो० धन० १  
चैत्य विराजै ध्यार चिहुं दिसै, विचमें मूल विहार । सो०  
समवसरण रचना तिहां, सोजती तिलका तोरण वार ॥ सो० धन २  
मूलनायक प्रतिमा होइ मनहरू, श्री चिन्तामणि पास । सो०  
मस्तक सहस फणावलि मंडित, ऊल हल तेज प्रकाश ॥ सो० धन० ३  
जेहवौ अनुपम नाम चिन्तामणी, अतिशय तेम उदार । सो०  
ध्यात्रै सैवै ते पामै सही, वंडित फल विस्तार ॥ सो० धन ४  
यादव वंश विज्रूषण जिहां थया, सगर जिसा नरनाह । सो०  
उगणीसमें पाटे तेहनें जयौ, सकजो श्रीमल साह ॥ सो० धन० ५  
सखहीजै तेहनें सुत थाहरू, जणशाली बड़ जाग । सो०  
जिन ए जोणोंरुार करात्रीयौ, जस जग लीध सोजाग ॥ सो० धन० ६  
नगरां सिरहर नगर सोहामणौ, जयवंतौ जी जेशाण । सो०  
धन धन जयवंतौ श्रीसंघ जिहां, जैन धरम विधि जाण ॥ सो० धन ७  
इण तीरथनी जगति किजै करै, सारै दिन २ सेव । सो०  
त्यांसुं सुप्रसन शासन देवता, सुप्रसन शामन देव ॥ सो० धन ८  
जेहवा समेतशिखर अष्टापद, विमलाचल गिरनार । सो०  
तण गणती में ए पिण तेहवौ, सहु तोरथ विषगार ॥ सो० धन० ९

लोदवा - श्री पारश्वनाथ मंदिर के पश्चात् भाग का दृश्य



SHRI PARSHWANATH TEMPLE (BACK VIEW) - LODRAVA





परत संसारी जे जे प्राणीया, चवथित पाकी रि जास । सो०  
तेहिज ए तीरथ जेटन तणौ, आणै अंग उल्लास ॥ सो० धन० १०  
पूरव संचित पुष्य तणे उदै, अम्हे पिण दरशन आज । सो०  
पायौ तेह सुहायौ चित्त में, जिम चानक घन आज ॥ सो० धन० ११  
सुप्रसन आम्ह सुं थाइज्यौ साहिवा, करिज्यौ नित जयकार । सो०  
अम्हनुं सगळी बाते आपरौ, अविहउ एक आधार ॥ सो० धन १२


[ कलस ]

इम नगर जैसन्नमेरु परिसर, तीर्थ लोद्रवपुर वरौ ।  
जिहां पास चिन्तामणि सुहकर, जिनवर सिरतिखौ ॥  
संवत अठारै सतर (१७१७) मगसिर, बहुष पञ्चमि ने दिने ।  
जिनल्लाज सूरि जिणंद जेट्या, हरष धरि बहु शुभ मनै ॥ धन० १३

इति श्री जिनलाम सूरि विरचित श्री लोद्रवपुर पार्श्वजिन स्तवन संपूर्ण ।



जैसलमेर श्री पार्श्वनाथ मंदिर के तोरण का दृश्य ।



TORAN CARVINGS  
SHRI PARSHWANATH TEMPLE - JAISALMER.

# JAIN INSCRIPTIONS.

जैन लेख संग्रह ।

तीसरा खंड ।

किले पर

किले पर ।

श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर ।

प्रशस्ति नं० १

[ 2112 ] \*

( १ ) ॥ ॐ ॥ नमः श्रीपार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे । अर्हते जितरागाय सर्वज्ञाय  
महात्मने ॥ १ ॥ विज्ञानदूतेन निवेदिताया मुक्तयंगनाया विरहादिवात्र । रात्रिदिवं  
यो विगत प्रमी

\* यह मंदिर किले पर के सब मंदिरों में प्रधान है । इस को श्री चिंतामणि पार्श्वनाथजी का मंदिर भी कहते हैं । इसके दक्षिण  
द्वार के बाईं तरफ दीवार पर काले पत्थर में खुदा हुआ २२ पंक्तियों में यह लेख है । इसकी २ फुट ६॥ इंच लम्बाई और  
१ फुट ३॥ इंच चौड़ाई है और इसके अक्षर सुन्दर ॥ इंच से कुछ बड़े खुदे हुए हैं । अधिक ऊँचाई पर लगे रहने के कारण इनका

- ( १ ) लो विघ्नापनोदं स तनोतु पार्श्वः ॥ १ ॥ समस्ति शस्तं परमर्द्धिपात्रं परं पुरं  
जेसलमेरुनाम । यदाह सर्वस्वमिव क्रमायाः कुलांगनाया इव सौवकांतं ॥ ३ ॥  
तत्राभूवन्नखंका यडुकुल
- ( ३ ) कमलोद्धासमार्त्तं रुचंका दोर्दंकाक्रांतचंकाहितनरपतयः पुष्कला भूमिपालाः । येषा-  
मद्यापि लोकैः श्रुतिततिपुटकैः पीयते श्लोकयूषस्तत्पूर्णं विश्वज्ञानं कुतुकमिह  
यतो जा
- ( ४ ) यते नैव रिक्तं ॥ ४ ॥ तत्र क्रमादत्रवडुग्रसमग्रतेजाः श्रीजैत्रसिंहनरराज इति  
प्रतीतः । चिह्नेद शात्रवनृपानसिनांजसा यो वज्रेण शैलनिवहानिव वज्रपाणिः ॥ ५ ॥  
तस्य प्रशस्यौ तन
- ( ५ ) यावजूतां श्रीमूलदेवोथ च रत्नसिंहः । न्यायेन जुंक्तः स तथा जुवं यौ यथा  
पुरा लक्ष्मणरामदेवौ ॥ ६ ॥ श्रीरत्नसिंहस्य महीधवस्य बभूव पुत्रो घटसिंहनामा । यः
- ( ६ ) सिंहवन् म्लेच्छगजान् विदार्य बलादस्राहप्रदरीमरिज्यः ॥ ७ ॥ सुनंदनत्वाद्धिबुधैर्नु-  
तत्वाद् गोरक्षणाच्च श्रीदसमाश्रितत्वात् श्रीमूलराजकृतिपालसूनुर्यथार्थ
- ( ७ ) नामाजनि देवराजः ॥ ८ ॥ तदंगजो निर्द्वैतचित्तवृत्तिः परैरधृष्यप्रगुणानुवृत्तिः ।  
पराक्रमक्रांतपरद्विपेंद्रः श्रीकंहरिः केशरिणा समोभूत् ॥ ९ ॥ तस्यास्ति सूनुः
- ( ८ ) स्वगुणैरनूनः श्री लक्ष्मणाख्यः कृतिपालमुख्यः । राज्ञोपि यस्यातिविसारितेजश्चित्रं  
न्यकार्षीद्द्विबिंबसदमीं ॥ १० ॥ शत्रुघ्नबंधुरिह सन्नपि लक्ष्मणोपि रा

नकल ठीक तरह नहीं ली जा सकी । इस लेख का कुछ अंश एस० भार० भण्डार कर साहेब के सन् १९०४-५ और १९०५-६ के "Report of a Second Tour in search of Sanskrit Manuscripts made in Rajputana and Central India" के पृ० ६३ नं० ४९ में छपा था तत्पश्चात् Gaekwad's Oriental Series No 21 'जेसलमीरभारतगारीयग्रन्थानां सूची' पुस्तक के परिशिष्ट नं० १ में यह संपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है । इसके सिवाय और किसी स्थान में यह छपा हुआ मेरे देखने में नहीं आया है ।

- ( ए ) माजिधानजिनजक्तिपरायणोपि । एतत् कुतूहलमहो मनसाप्यसौ यन्नापीडय-  
न्निविडपुण्यजनान् कदाचित् ॥ ११ ॥ तथा सुमित्रामितनन्ददायी न दीनबंधे निरतोव
- ( १० ) तीर्णः । पुनः प्रजां पालयितुं किञ्चायं श्री लक्षणो लक्षणदेव एव ॥ १२ ॥ यद्गुणैर्गु-  
फिता ज्ञाति नवीनेयं यशः पटी । व्याप्नोत्येकापि यद्भिश्च न मास्त्रिन्यं कदाप्य
- ( ११ ) धान् ॥ १३ ॥ गांजीर्यवत्वात्परमोदकत्वाद्धार यः सागरचंद्रलक्ष्मीं । युक्तं स जेजे  
तदिदं कृतज्ञः सूरेश्वरान् सागरचंद्रपादान् ॥ १४ ॥ प्रासाददेवालयधर्मशास्त्रामठा-  
( १ )  
धमेयं सुकृतास्य
- ( १२ ) दं तु । सार्द्धं कुक्षेनोद्धृतमार्यलोकेर्यत्रावनिं शासति भूमिपाले ॥ १५ ॥ इतश्च ।  
चांड्रे कुक्षे यतींद्रः श्रीमजिनदत्तसूरिराराध्यः । तस्यान्वयशृंगारः समजनि जिन-  
कुशलगुरुसा  
( २ ) ( ३ )
- ( १३ ) रः ॥ १६ जिनपद्मसूरिजिनलब्धिसूरिजिनचंद्रसूरयो जाताः । समुद्वैयरुहि गच्छे  
( ४ ) ( ५ )  
जिनोदया मोदयागुरवः ॥ १७ ॥ तदासनांजोरुहराजहंसः श्रीसाधुलोकाग्र-  
शिरोवतंसः । तम  
( ६ )
- ( १४ ) स्तमस्तोमनिरासहंसो बभूव सूरिर्जिनराजराजः ॥ १८ ॥ क्रूरग्रहैरनाक्रांतः सदा

- ( १ ) G. O. S. का पाठ " व " है परन्तु लेख में " य " स्पष्ट है ।  
( २ ) " " " " सूरिः " " " " से " सारः " मालूम होता है ।  
( ३ ) " " " " दे " " " " में " द्वै " स्पष्ट है ।  
( ४ ) " " के " में " सुर्नः " लिखकर ( ? ) है, लेख से " गुरवः " स्पष्ट है ।  
( ५ ) " " में " स्य " है परन्तु " " " प्र " स्पष्ट है ।  
( ६ ) " " " " देकर " धा " है " " " " " तमस्तमतो " स्पष्ट है ।

(९)

सर्वकलान्वितः । नवीनरजनीनाथो नास्त्रीकस्य प्रकाशकः ॥ १९ ॥ तस्य श्रीजिनराज-  
सूरिसुगुरां

(१५) रादेशतः सर्वतो राज्ये अक्षयभूपतेर्विजयिनि प्राप्तप्रतिष्ठोदये । अर्हद्धर्मधुरंधु(ध)रः  
खरतरः श्री संघजट्टारकः प्रासादं जिनपुंगवस्य विशदं प्राग्बधवान् श्रीपदं ॥२०॥

(१६) नवेषुवाङ्गीडुमितेथ वर्षे निदेशतः श्रीजिनराजसूरेः । अस्थापयन् गर्जयद्देत्र विंशं  
मुनीश्वराः सागरचंद्रसाराः ॥ २१ ॥ ये चक्रुर्मुनिपा विहारममलं श्री पूर्वदेशे पुरा ये

(८)

(१७) गहं च समुन्नतौ खरतरं संप्रापयन् सर्वतः । मिथ्यावादवदावदद्विपकुले यैः सिंह-  
खीलायितं येषां चंद्रकलाकलान् गुणगणान् स्तोतुं क्षमः कोथवा ॥ २२ ॥ तेषां  
श्री जिनव

(१८) ऊर्नाजिधगणाधोशां समादेशतः श्रीसंघो गुरुजक्तियुक्तिनखिनीखीखन्मरासोपमः ।  
संपूर्णणीं कृतवानमुं खरतरप्रासादचूडामणिं त्रिद्वीपांबुधियामिनोपति

(१९) मिते संवत्सरे विक्रमात् ॥ २३ ॥ अंकतोपि संवत् १४७३ । वण्यं तन्नगरं जिनेशजवनं  
यत्रेदमालोक्यते स श्लाघ्यः कृतिनां महीपतिरिदं राज्ये य

(२०) दीयेजनि । येनेदं निरमायि सौवविजवैर्धन्यः स संघः क्षितौ तेज्यो धन्यतरास्तु ते  
सुकृतिन पश्यंति येदः सदा ॥ २४ ॥ श्रीलक्षणविहारोयमि-

(२१) ति खयातो जिनालयः । श्रीनंदीवर्द्धमानश्च वास्तुविद्यानुसारतः ॥ २५ ॥ यावद्  
गगनशृंगारौ सूर्यचंद्रौ विराजतः । तावदापूज्यमानोयं प्रासादो नं

(९) G. O. S. का पाठ "... " है यहां " रजनी " स्पष्ट है ।

(८) " " " " " बलोन्म " है परन्तु लेख में " वदाव " स्पष्ट है ।







[ ५ ]

(११) दत्ताञ्जिरं ॥ १६ ॥ प्रशस्तिर्विहिता चेयं कीर्तिराजेन साधुना । धन्नाकेन समुत्कीर्णा  
सूत्रधारेण सा मुदा ॥ १७ ॥ शोधिता वा० जयसागरगणिना श्री ।

प्रशस्ति नं० १

[ 2113 ] \*

- ( १ ) ॥ जगदजितफलवितरणविधिना निरवधिगुणेन यशसा च । यः पूरितविश्वासः  
स कोपि जगवा  
( १ )
- ( २ ) नू जिनो जयति ॥ १ ॥ मनोजोष्टार्थसिंध्यर्थं कृतुनम्यनमस्कृतिः । प्रशस्तिमथ  
वक्ष्येहं प्रतिष्ठादिमहः
- ( ३ ) कृतां ॥ १ ॥ ऊकेशवंशं विश्वप्रशंसे रंकान्वये श्रेष्ठिकुलप्रदीपौ । श्रीजाषदेवः  
पुनरासदेवस्तज्जाप
- ( ४ ) देवोद्भवज्जंबटोज्जून् ॥ ३ ॥ विश्वत्रयी विश्रुतनामधेयस्तदंगजो धांधलनामधेयः ।  
ततोपि च ह्यौ तनयाव  
( २ )
- ( ५ ) भृताः(तां) गजूस्तथान्यः किल जीमसिंहः ॥ ४ ॥ सुतौ गजूजौ गणदेवमोषदेवौ च  
तत्र प्रथमस्य जाताः ।

\* यह लेख मंदिर के दक्षिण दरवाजे की दाहिने तरफ दीवार पर काले पत्थर में खुदा हुआ २४ पंक्तियों का है। इस पत्थर के नीचे तरफ के दक्षिण कोण का कुछ अंश टूटा हुआ है। पंक्तियां सब ठीक हैं इससे यह प्रतीत होता है कि लेख खोदने के पूर्व से ही यह पाषाण कोण से अक्षित था। इसकी लम्बाई १ फुट ४॥ इञ्च और चौड़ाई १ फुट १॥ इञ्च है। इसकी नकल भी दीवार पर ऊँचे में लगे रहने के कारण ठीक से नहीं ली जा सकी। इस लेख का कुछ अंश भी भण्डारकर साहेब के सन् १९०४-५ और १९०५-६ के रिपोर्ट के पृ० ६३, नं० ४८ में प्रथम छपा था। G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट नं० २ में सम्पूर्ण रूप से छपा है, परन्तु वहाँ "शांतिजिमालयस्य प्रशस्तिः" ऐसा लेख का पठित्व है इसका कारण समझ में नहीं आया।

( १ ) G. O. S. का पाठ "कृत" अशुद्ध है, लेख में "कृतु" पढ़ा जाता है।

( २ ) लेख में "अभूताः" स्पष्ट है परन्तु यह अशुद्ध है यहाँ "अभूतां" होना चाहिये। G. O. S. में भी "अभूतां" छपा है।

- ( ६ ) मेघस्तथा जेसखमोहणौ च वेकूरितीमे तनया नयाढ्याः ॥ ५ ॥ तन्मध्ये जेशखस्यासन्  
विशिष्टाः
- ( ७ ) सूनवखयः । आंबः प्राञ्चोपरो जींदो मूलराजस्तृतीयकः ॥ ६ ॥ तत्र श्रीजिनोदय-  
सूरिप्रवरादेशसखिलेशके
- ( ८ ) शत्रुः संवत् १४२५ वर्षे श्रीदेवराजपुरकृतसविस्तरतीर्थयात्रोत्सवस्तथा संवत् १४२७  
वर्षे श्रीजिनोदयसूरि
- ( ९ ) संसूत्रितप्रतिष्ठोत्सवांजोदोदकपल्लवितकमनीयकोर्षिवह्नीवखयः सं० १४३६ वर्षे श्री  
जिनराजसूरिसदु
- ( १० ) पदेशमकरंदमापीय संजातसंघपतिपदवीको राजहंस इव सं० आंबाकः श्री शत्रुं-  
जयोञ्जयंताचलादि
- ( ११ ) तीर्थमानसरो यात्रां चकृवान् । तथा मोहणस्य पुनः पुत्राः कीदृष्टः पासदत्तकः ।  
देहहो धन्नश्च चत्वारश्च
- ( १२ ) तुर्वर्गा इवांगिनः ॥ १ ॥ शिवराजो महीराजो जातावाञ्जसुताबुजौ । मूलराजजवश्चास्ति  
सहस्रराजनामकः
- ( १३ ) ॥ २ ॥ तथा तत्र श्री जिनराजसूरिसदाज्ञासरसीहंसेन संवत् १४४९ वर्षे श्री शत्रुं-  
जयगिरिनारतीर्थयात्रानिरमा
- ( १४ ) पि सं० कीदृष्टेनेति । धामा कान्हा जगन्मह्ना इत्येते कीदृष्टांगजाः । वीरदत्तश्च  
विमलदत्तकर्मणहेमकाः ॥ १ ॥ वा

( ३ ) G. O. S. का पाठ " वाप " है, यह अशुद्ध मान्य पढ़ता है । लेख से " वाप " पढा जाता है ।





- (१५) कुरसिंह इत्येते पासवत्सुता मताः ॥ २ ॥ देव्हजौ साधुजीवदकुंपौ भन्नांगजाः  
पुनः । जगपासस्तथा नाथूरमर
- (१६) श्रेति विश्रुताः ॥ ३ ॥ तथा ॥ जीमसिंहस्य पुत्रो चूलाषणस्तस्य मम्मणः । जयसिंहो  
नरसिंहो माम्मणी श्रेष्ठिना
- (१७) वुजौ ॥ ४ ॥ तत्र स्तो जयसिंहस्य रूपाविद्धाजिधौ सुतौ । नारसिंही पुनर्जौजो  
हरिराजश्च राजतः ॥ ५ ॥ इत्थं पुरु
- (१८) परत्नौघाकुलं श्रेष्ठिकुलं कंसौ । जयत्यधर्मविष्टेदि निःकसंकमदः कलं ॥ १६ ॥  
इतरश्च । श्रीवीरतीर्थे श्रीसु
- (१९) धर्मस्वामिवंशे युगप्रधानश्रीजिनदत्तसूर्यन्वये । श्रीजिनकुशलसूरि श्रीजिनपद्म  
सूरि श्रीजिनलब्धिसू
- (२०) रि श्रीजिनचंद्रसूरिश्रीजिनोदयसूरयो जाताः । तत्पद्मे श्रीजिनराजसूरय उदैषुः ।  
अथ तत्पद्मे श्रीखरत
- (२१) रगणशृंगारसाराः कृत श्रीपूर्वदेशविहाराः श्रीजिनवर्द्धनसूरयो जयंति । अथ  
श्रीजेशलमेरौ श्रीलक्ष्म
- (२२) षाराजराज्ये विजयिनि सं० १४७३ वर्षे चैत्रसुदि १५ दिने तैः श्रीजिनवर्द्धनसूरिजिः  
प्रागुक्तान्वयास्ते
- (२३) श्रेष्ठिधनाजयसिंहनरसिंहधामाः समुदायकारितप्रासादप्रतिष्ठया सह जिनविंब-  
प्रतिष्ठां कारितवं
- (२४) त इति । वा० जयसागरगणिविरचिता प्रशस्तिरियमुत्कीर्णा सूत्रधारहापाकेनेति  
नंदतात् ॥

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ स्वस्ति श्रीज्जकेशवंशे गणधर गो  
 ( २ ) त्रे सा० रत्नसिंहः स्थापितं स्वस्ति श्रीसुपार्श्व  
 ( ३ ) नाथ श्रीजिणराजपाटे श्रीजिनज्जसूरिजः सर्व  
 ( ४ ) लक्षणसंयुक्ते राज्यं जवति । ज्जकेशवंशे गणधर गो,  
 ( ५ ) त्रे साह रत्नशह सुत गजशह तत्पुत्र सा० नाथु चार्या  
 ( ६ ) धनी तयोः सुन सा० पासड चातृ सचा सुश्रावकेज्जवतिः  
 ( ७ ) सा० पासरु चार्या प्रेमसदे सुतु(त) जीवंद साह सचा चार्या सिं  
 ( ८ ) गारदे नंदन धर्मसिंह जिणदत्त देवसिंह जीमसिंह सपरिवा  
 ( ९ ) रेण । संवत् १४९३ वर्षे फागुण वदि प्रतिपदादिने श्रीसुग  
 ( १० ) श्वनाथ विंवं सुपरिकरविधाय(ः) प्रतिष्ठितं पूजनीयार्थे श्री  
 ( ११ ) संघसहितेन राज श्रीवयरशंहराज्ये स्थापितं  
 ( १२ ) श्रीसंघसमुदायः पूज्यमानं चिरं  
 ( १३ ) नंदयतिः

\* यह लेख मंदिर के रंगमंडप में दाहिने ओर दीवार पर लगा हुआ है। भण्डारकर साहेब के १९०४-५ और १९०५-६ के रिपोर्ट के पृ० ६५, नं० ५० में इसका कुछ अंश छपा है। यह १३ पंक्तियों का लेख बड़े अक्षरों में चतुष्कोण पाषाण पर खुदा हुआ है और इसकी लंबाई, चौड़ाई १ फुट ५ इंच है। इस लेख में कई जगह अशुद्धियां हैं, वे प्लेट से स्पष्ट मालूम होंगी।

जैसे:— पंक्ति ४ में "राज्यं" के स्थान में "राज्यं,"  
 " ६ में "सुत" " " " " " " " " " " सुत,"  
 " ७ में "चातृ" " " " " " " " " " भावि,"  
 " ८ में "सुपरिकर" " " " " " " " " " सुपरिगिर,"  
 " १० में "सहितेन" " " " " " " " " " सहितेन,"  
 " १२ में "समुदायः" " " " " " " " " " समुदायः" इत्यादि अशुद्धियां हैं।

[ ९ ]

प्रशस्ति नं० ४

[ 2115 ]•

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ अहं ॥ परमैश्वर्यधुर्याय नमः श्रीआर्श्वसेनये । पार्श्व  
( २ ) नाथाहते जक्तया जगदानंददायिने ॥ १ ॥ अजिमतशतदाता  
( ३ ) विश्वविख्याततेजाः परम निरुपम श्रीप्रीणितास्त्येक श्लोकः । स  
( ४ ) कसकुशसवल्लीमातनोतु प्रजानां चरणनत सुरेंद्रः श्रीसुपाश्वो  
( ५ ) जिनेंद्रः ॥ २ ॥ समुप(†)स्य जिनवरेन्द्रौ निजगुरुविशदप्रसादतः सम्य  
( ६ ) क् । शस्तप्रशस्तिमेनां सिखामि संक्षेपतः सारां ॥ ३ श्रीमज्जेसखमेरु

पट्टक नं० १

[ 2116 ]†

राजसुश्रीवयरसिंहपुत्रराजसुश्रीचाचिगदेवविजयिराज्ये विक्रमात् सं० १५१० वर्षे वैशाख  
सुदि १० दिने नाहटासमरापुत्र सं० सजाकेन सं० सद्धासहदे सेढा राणा जावड जावरु  
सं० सोही रांचूबीजूप्रमुखपुत्रपुत्रिकादिपरिवारसहितेन श्रीमंडोवरनगरवास्तव्येन चार्यासूह-  
वदेपुण्याथं श्रीनंदीश्वरपट्टिका कारिता प्रतिष्ठिता खरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरजिः ॥

\* यह लेख मंदिर के रंगमंडप में दक्षिण तरफ दीवार पर लगा हुआ है। इसकी ११॥ फुट लम्बाई और ५॥ फुट चौड़ाई है।

† G. O. S. No 17.

मंदिर के सभामंडप के दाहिने तरफ श्रीनंदीश्वर द्वीपदि के भाव सहित पीले पाषाण में चार विशाल पट्टक खुदे रखे हुए हैं। इन सभी की कारीगरी देखने योग्य है। लेखों का कुछ अंश उपरि भाग में और कुछ अंश नीचे खुदे हुए हैं। ये चारों शिलापट्ट प्रायः एकही सादृज के हैं और ऊर्ध्व, चौड़ाई लगभग ६ फुट, ३॥ फुट की है। इनमें से G. O. S. में तीन का ही लेख छपा है, जिसमें शाल का निर्देश नहीं है और पाठ भी छूटे हुए हैं। यहां चारों लेख सम्पूर्ण पाठ के साथ प्रकाशित किये गये हैं।



[ १० ]

पट्टक नं० २

[ 2117 ]\*

संवत् १५१० वर्षे ज्येष्ठवदि ४ दिने श्रीचाचिमदेवविजयराज्ये गणधरगोत्रे जगसी पुत्रनाथू तत्पुत्र सं० सञ्चराजचार्या संघविणि सिंगारदे पुत्र सं० धरमा सं० जिनदत्त देवसी जीमसी पौत्र लाषा रिणमल्ल देवा अमरा जडणा सूरु सामलादिपस्विारथुतेन श्रीशत्रुंजय गिरनारावतार पट्टिका स्वचार्या सिंगारदे पुण्यार्थं श्रीशत्रुंजयगिरनारावतार पट्टी कारिता । प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगहे श्रीजिनजडसूरिपट्टाखंकार श्रीजिनचंद्रसूरिजिः । आभवात्रीजदिने लिखितं ॥

पट्टक नं० ३

[ 2118 ]†

संवत् १५१० वर्षे वैशाख सुदि १० दिने गणधरगोत्रे सा० नाथूपुत्र सं० पासरु चार्या प्रेमलक्ष्मणे पुत्र सं० जीवंदसुश्रावकेण पुत्रसधारणधीराप्रमुखपरिवारसहितेन निजमात्राप्रेमलक्ष्मणे पुण्यार्थं नंदीश्वरपट्टिका कारिता प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगहे श्रीजिनजडसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः । वा० कमलराजगणिवराणां शिष्य उत्तमलाजगणिः प्रणमति ॥

पट्टक नं० ४

[ 2119 ]

संवत् १५१० वर्षे ज्येष्ठ मासे प्रथम चतुर्थे दिने श्रीचाचिमदेवविजयराज्ये गणधरगोत्रे सा० गजसी पुत्र नाथू तत्पुत्र संघवी सत्ता तत्पुत्र सं० धना जिणदत्त नेतसी जीमसी सुश्रावकैः गोरी हांसू लाखा देवारिणमल्ल अमरा सडणा सूरु सामलादि प्रमुख परिवार

\* G. O. S. No 18.

† G. O. S. No 15.

[ ११ ]

सहितैः । ना० सजा जार्या सूद्वदे पुत्री धारसदे पुण्यार्थं तत्पुत्री रनूकरजी पुण्यार्थं च श्रीनंदीश्वरपट्टिका कारिता ॥ जिनवराणां शिला श्रीखरतरगच्छे प्रतिष्ठितः ॥ श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

मूर्तियों पर ।

[ 2120 ]\*

॥ ॐ ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने श्रीपत्तननगर वास्तव्य स० धणपति सुश्राव केन श्रीसुमतिनाथबिंबं का० प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥ श्रीजेसलमेरमहादुर्गे श्रीराजस श्रीदेवकर्णविजयराज्ये । श्रीपार्श्वनाथ वि० चैत्यालये स्थापितः । श्रीज्योतनसूरि श्रीवर्द्धमानसूरि श्रीजिनेश्वरसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीअजयदेवसूरि श्रीजिनवह्वजसूरि श्रीजिनदत्तसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनपत्तिसूरि श्रीजिनेश्वरसूरि श्रीजिनप्रबोधसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनकुशलसूरि श्रीजिनपद्मसूरि श्रीजिनलब्धिसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनोदयसूरि श्रीजिनराजसूरि श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः सहितः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2121 ]†

॥ ॐ ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि . . . . . पति सुश्रावकेण जा० चंपाई पु० गुणराज . . . द . . . श्रीसुमतिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं . . . . . व धर्मा पु० मं० शिवा जा० वरणु पु० मं० धणा . . . महिपाल प्रमुखपरिवारयुतेन श्रीसुमति . . . श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः ॥

\* रंगमंडप के सहिते तरफ सर्वधातु की सपरिकर मूर्ति के परिकर पर यह लेख खुदा हुआ है ।

† सर्वधातु की सपरिकर मूर्ति पर यह लेख है । असुविधायें रहने के कारण सम्पूर्ण लेख पढा नहीं जा सका ।

[ १३ ]

[ 2122 ]\*

संवत् १५१० वर्षे वैशाख मासे धवळपक्षे १० दिने श्रीजिनचंद्रसूरि ... अत्र प्रतिष्ठितं  
..... संखवाळ सा० खखा पुत्र कुंजा जार्या .....

[ 2123 ]\*

संवत् १५१० पौष वदि ५ दिने जकेशवंशे संखवाळ गोत्रे सा० केडहा जार्यया कसूणदे  
श्राविकया पुत्रपौत्रासत्कमानादिपरिवारसहितया श्रीशांतिनाथबिंबं कारितं प्रति० श्रीजिन-  
चंद्रसूरिजिः श्रीकीर्तिरत्नसूरिप्रमुखपरिवारसहितैः ॥

[ 2124 ]

संवत् ११४७ वर्षे । श्रीशुषजबिंबं ॥ श्रीखरतरगळे श्रीजिनशेखर सूरिजिः कारापितं ॥

[ 2125 ]

संवत् १५१० वर्षे अहमदाबादे कासूपुरवासी प्राग्वाटझाती श्रीसहजा जा० वाजू पुत्र  
धरणाकेन जा० कुंवरी ज्येष्ठ ज्ञातृ जावडनाकरप्रमुखकुटुंबयुतेन स्वभ्येयोर्य श्रीशीतलनाथ  
बिंबं का० प्र० तथा श्रीरत्नशेखरसूरिपट्टे गणनायक श्रीलक्ष्मीसागरसूरिजिः ॥ श्रीः ॥

[ 2126 ]

सं० १५३६ फागुण सु० ३ जकेशवंशे परिहगोत्रे सा० मूला जा० अमरी पुत्र सा० राखा-  
केण जा० हरखू पुत्र मेवावसेखादिपरिवारयुतेन श्रीसुविधिनाथबिंबं का० प्र० श्रीखरतरगळे  
श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2127 ]†

... श्रीसौजाग्यसुंदरसूरिजिः

\* मंदिर के सभा मंडप के बाईं तरफ पीले पाषाण की कई बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं । उनमें से दो मूर्तियों की खरण लीको  
पर के ये लेख हैं । अक्षर चित्त जाने से किसी २ जगह पढा नहीं जा सका ।

† यह लेख सफण मूर्ति पर है ।

[ १३ ]

[ 2128 ]\*

सं० १५२० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ७ जौमे भावक मूजी श्राविका सपूरी श्रा० फाल्गु श्रा०  
रतनाई पुण्यार्थ श्रीवासपूज्यचतुर्मुखबिंबं कारितं प्र० श्रीखरतरगढे श्रीजिनहर्षसूरिजिः ॥

पञ्चतीर्थियों पर ।

[ 2129 ]

सं० १५२० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ शनौ श्रीमास ज्ञा० मंत्री वानर जार्या बोकमदे सुत  
मेखा जा० लानी सु० धनपाल राजा बहुवादेवसी जा० सहितैः पितापितामहनिमित्तं  
श्रीआदिनाथ पंचतीर्थी बिंबं का० श्रीपूर्णिमापक्षे श्रीवीरप्रजसूरिपदे श्रीकमलप्रजसूरीणा-  
मुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥ १ मोरवाड़ा वास्तव्य ॥

[ 2130 ]

॥ संवत् १५२० वर्षे आषाढ सुदि ३ गुरौ श्रीश्रीमासज्ञातीय व्य० । वसु जा० राजू सु०  
साडणेन सुत माडणयुतेन पितृव्यहादाश्रेयसे श्रीश्रेयांसबिंबं पूर्णिमा० श्रीगुणधीरसूरिणा-  
मुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं विधिना माऊली वास्तव्य ।

[ 2131 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५२० वर्षे माह सु० १० ऊकेशवंशे गोस्रवष्ठा गोत्रे सा० समरा पुत्र  
सहिराज जार्या रोहणी तत्पुत्र साह सधारेण श्रीअजिनंदन बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री  
खरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिपदे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2132 ]

संवत् १५२३ वर्षे मार्गशीर्ष वदि १२ बछहरा गोत्रे सा० तीमाषेमी पुत्रेण सा० मूलाकेन

\* यह लेख श्रीमुजजी पर खुदा हुआ है ।

[ १४ ]

पुत्र समरा वरिसिंहादिपरिवारपरिवृतेन स्वपुण्यार्थं श्रीसुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2133 ]

॥ संवत् १५३४ वर्षे चैत्रवदि १० रवौ ॥ श्रीउपसवंशे ॥ सा० ठाकुर जा० रानादे पुत्र सा० सहदे सुभावकेण प्रार्था सूरमदे पुत्र साखण द्रातृ सा० जेसा वीकम सहितेन स्वश्रेयोर्थं श्रीसुमतिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपूर्णिमापद्वे श्रीसूरिजिः ॥

[ 2134 ]

सं० १५६० वर्षे वैशाखसुदि ३ बुधवारे ऊ० ज्ञातीय सा० ईना जार्या रूपणी पू० धूना जा० धांधलदे पितृमातृश्रेयोर्थं शीतलनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं जाषडीया । ज० श्रीगुणचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2135 ]

संवत् १६१५ वर्षे ज्येष्ठसुदि १० दिने लकेशवंशे चोपडागोत्रे म० गुणराज तत्पुत्र स० चांपसी तत्पुत्र स० सुरताण वर्द्धमान स० थिरसी जार्या कडडिमदेव्या श्रीशांतिनाथ बिंबं कारापितं थापितं . . . . . श्रीखरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

चौबीसी पर ।

[ 2136 ]

॥ सं० १५१२ वर्षे ज्येष्ठवदि ९ गुरौ श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे० कूंगर जा० वींजलदे सु० वाघा जा० बडलदे सु० लूणाकेन जा० चमकू सु० मूला जोजा षोला वयरसीयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्रीसुविधिनाथादिजीवितस्वामिचतुर्विंशतिपट्टः श्रीपूर्णिमापद्वे श्रीगुणसमुद्रसूरीणामुपवेशेन कारितः प्रतिष्ठितश्च विधिना श्रीर्जूयात् सीणीजग्रामे ॥

[ १५ ]

ह्रींकार यंत्र पर ।

[ 2137 ]

॥ संवत् १५५० वर्षे धपसक वास्तव्य जावसी रमादे सुत कान्हा जार्या नार्ई पुत्रो ...  
श्रीसिद्धचक्रपट्टः कारितः ॥

आचार्य के मूर्ति पर ।

[ 2138 ]

ॐ संवत् १४९३ वर्षे फाद्युष्य वदि १ दिने श्रीसागरचंद्राचार्यमूर्ति प्रतिष्ठितं श्रीस्वर-  
तरगण्डे भोजिनजडसूरिजिः ऊकेशवंशे धु ... गोत्रे सा० ..... पुत्र सा० राखी ॥

## श्री संभवनाथजी का मंदिर ।

प्रशस्ति ।

[ 2139 ]\*

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ अहं ॥ स्वस्ति श्रीस्तंजनपार्श्वनाथपादकल्पद्रुमेज्यः ॥ प्रत्यक्षः कल्पवृक्ष-  
स्त्रिजगदधिपतिः पार्श्वनाथो जिनेन्द्रः श्रीसंघ स्येपितानि प्रथयतु स सदा शक्रचक्रा  
( २ ) जिबंघ्यः । प्रोत्सर्पति प्रकामातशयकिशस्रया मंगलभीफलाढ्याः स्फूर्जर्ज्ज्मार्थ  
वद्व्यो यदनुपमतमध्यान्शीर्षं श्रयंत्यः ॥ १ ॥ श्रीशांतितीर्थकरवासरेश्वरः सुप्रा

\* यह मंदिरकी प्रशस्ति पीले पाषाण में खुदी हुई है। यह भी गद्यपद्यमय ३५ पंक्तियों का एक बड़ा लेख है। इसकी लम्बाई २ फुट ४। ६३ और चौड़ाई १ फुट ७ ६३ है। यह मण्डारकर साहेब के १६०४-५ और १६०५-६ के रिपोर्ट के पृ० ६६ नं० ५२ में प्रथम प्रकाशित हुआ था; परन्तु सम्पूर्ण नहीं था। G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट नं० ३ में सम्पूर्ण छपा है।

- ( ३ ) तमाविष्कुरुतां स्फुरश्रुतिः । यस्य प्रतापादशिवरूपाक्षये पुण्यप्रकाशः प्रससार  
सर्वतः ॥ ३ ॥ कल्याणकङ्कटुममेरुभूमिः संपल्लतोद्भासनवारिवाहः । प्रजावरत्ना-  
वलिरोहणाद्रिः श्री
- ( ४ ) संजवेशः शिवतातिरस्तु ॥ ३ ॥ प्रासादत्रितये नत्वा मूलनाथत्रयं मुदा । रत्नत्रय-  
मिवाध्यक्षं प्रशस्तिं रचयाम्यहं ॥ ४ ॥ यत्प्राकारवरं विलास्य बलिनो म्लेच्छावनोपा-  
श्रयि प्रोद्यत्सैन्यसहस्रदुर्ग्रहमिदं गेहं हि
- ( ५ ) गोस्वामिनः । जग्नोपायवला वदंत इति ते मुञ्चन्ति मानं निजं तच्च श्रीजेसलमेरु-  
नाम नगरं जीयाज्जनत्रायकं ॥ ५ ॥ वंशो यद्यदुनायकैर्नरवैः श्रोनेमिकृष्णादि-  
ज्जिर्जन्मेन प्रवरावदातनिकरैरत्य
- ( ६ ) ऋतैराख्यतः । तेनासौ सजते गुणं त्रिचुवनं सन्नादतो रंजयेत् कोशा ह्युत्तममानितो  
न जवति शशाघापदं सर्वतः ॥ ६ ॥ श्रोनेमिनारायणरौहिणेया दुःखत्रयात् त्रातुमिव  
त्रिलोकं । यत्रोदिताः श्रीपु
- ( ७ ) रूपोत्तमास्ते स वर्णनीयो यदुराजवंशः ॥ ७ ॥ तस्मिन् श्रीयादववंशे । राजसश्री-  
जहृत्सिंहमूलराजरत्नसिंहराजसश्रीदूदाराजसश्रीघटसिंहमूलराज पुत्रदेवराजनामा-  
नो राजानोभूवन् । त
- ( ८ ) तोभूत्केसरी राजा केसरीव पराक्रमी । वैरिवारणसंहारं यश्चकारासिदंष्ट्रया ॥ १ ॥  
श्रीमत्केसरिराजसूनुरजवच्च श्रीसक्ष्णो जूपतिर्विद्वत्सक्ष्णसहस्रतोषणशरच्च श्रीसक्ष्ण-  
णस्तेजसा । दाना
- ( ९ ) शाय करग्रहाच्च सकलं लोकं व्यधात्सक्ष्णं यो बिम्बे मृगसक्ष्णोपि यशसा सौवा-  
जिधानं न्यधात् ॥ २ ॥ तदीयसिंहासनपूर्वशैलप्राप्तोदयोस्त्युग्रतरप्रतापः । श्रीवैर-  
सिंहद्विपक्ष जानुर्वि







- ( १० ) जासते वैरित्तमो निरस्यन् ॥ ३ ॥ इतश्च ॥ चंद्रकुले श्रीखरतरविधिपक्षे ॥ श्रीवर्ध-  
मानाजिभसूरिराजो जाताः क्रमादर्बुदपर्वताग्रे । मंत्रीश्वरश्रीविमलाजिधानः प्राची-  
करद्यद्वचनेन चैल्यं ॥ १ ॥ अ
- ( ११ ) णहिल्लपाटकपुरे यैर्दुर्ध्वजराजपर्वदि विवादे । प्राप्तं खरतरबिरुदं जिनेश्वरास्सूरयो  
जङ्गुः ॥ २ ॥ ततः क्रमेण श्रीजिनचंद्रसूरिनवांगीवृत्तिकारश्रीस्तंजनपार्श्वनाथ  
प्रकटीकार श्रीअजय
- ( १२ ) देवसूरिश्रीपिंडविशुद्ध्यादिप्रकरणकारश्रीजिनबल्लजसूरिश्रीअंबिकादेवताप्रकाशित-  
युगप्रधानपद श्रीजिनदत्तसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनपतिसूरि श्रीजिनेश्वरसूरि  
श्रीजिनप्रबो
- ( १३ ) धसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनकुशलसूरि श्रीजिनपद्मसूरि श्रीजिनलक्ष्मिसूरि श्री  
जिनचंद्रसूरयः । श्रीजिनशासनं प्रजासिनवंनः ॥ ततः । श्रीगहलक्ष्मीधरणे जिनो-  
दयाः प्रकाशित
- ( १४ ) प्राक्कसजाजिनोदयाः । कय्याणवाऊँदशवाजिनोदयाः पाथोजहंसा अजवञ्ज् जिनो-  
दयाः ॥ १ ॥ जिनराजसूरिराजः कलहंसा इव बज्जुर्जिनमताब्जे । सन्मानसहित-  
गतयः सदाम
- ( १५ ) राजोश्रिता विमलाः ॥ २ ॥ तत्पट्टे ॥ ये सिद्धांतविचारसारचतुरा यानाश्रयन् पंकिताः  
सत्यं शीलगुणेन यैरनुकृतः श्रीस्थूलजद्रो मुनिः । येच्यः शं वितनोति शासनसुरो  
श्रीसंघदीतिर्य
- ( १६ ) तो येषां सार्वजनो नमासवचनं येष्वद्भुतं सौभगं ॥ १ ॥ श्रीउज्जयंताचलचित्रकूटमांरु-  
व्यपूजांतरमुखकेषु । स्थानेषु येषामुपदेशवाक्यास्त्रिर्मापिताः श्राद्धवैर्विहाराः ॥ २ ॥  
अणहिल्ल

- (१९) पाटकपुरप्रमुखस्थानेषु वैरकार्यत । श्रीज्ञानरत्नकोशा विधिपक्षधारासंघेन ॥ ३ ॥  
मंरुपदुर्गप्रदहादनपुरतल्लपाटकादिनगरेषु । येर्जिनवरर्षिर्षानां विधिप्रतिष्ठाः क्रियंते  
स्म ॥ ४ ॥ येर्नि
- (२०) जवुस्थानेकांतजयपताकादिका महाग्रंथाः । पाठ्यंते च विशेषावश्यकमुख्या अपि  
मुनीनां ॥ ५ ॥ कर्मप्रकृतिप्रमुखग्रंथार्थविचारसारकथनेन । परपक्षमुनीनामपि  
येक्ष्मत्तचमस्कृतिः क्रिय
- (२१) ते ॥ ६ ॥ उग्रधरवैरिसिंहत्र्यंबकदासकिर्तीन्द्रमहिपालैः । येषां चरणछंदं प्रणम्यते  
चक्रितपूरेण ॥ ७ ॥ शमदमसंयमनिधयः सिद्धांतसमुद्रपारदृश्वानः । श्रीजिनजड-  
यतींद्रा विजयंते ते
- (२०) गणाधीशाः ॥ ८ ॥ इति श्रीगुरुवर्णनाष्टकं ॥ इतश्च ॥ श्रीमानूकेशवंशोयं वर्धतां  
सरस्वाशयः । नरमुक्ताफलं यत्र जायते जनमंडनं ॥ १ ॥ तस्मिन् श्रीजकेशवंशे  
चोपकागोत्रे । सा० हे
- (२१) मराजः तदंगजः सा० पूनाकस्तदात्मजः सा० दीताख्यस्तत्पुत्राः सा० सोहृद  
कर्मण गणदेव महिषा सा० पांचा सा० ठाकुरसिंहनामानः षट् । तत्र सा० पांचा जार्या  
रूपादे तत्पुत्रा इमे य
- (२२) या ॥ शिवराजमहीराजसोसाक्षाक्षणात्मकाः । चत्वारः श्रीचतुर्वर्गसाधकाः संति  
पांचयः ॥ १ ॥ एतेषां जगिनी भाषिका गेखी । तत्र सा० शिवा जार्या सूहृवदे तयोः  
पुत्रः चिराल्यः पुत्री हीराई
- (२३) महिरा जार्या महघसदे तयोरंगजाः सादा सहसा साजणाल्याः सुते नारंगदेवदही-  
नाम्न्यौ । सोसाजार्या छीसादे पुत्रौ सहसपालमेसाकौ पुत्रौ छषाई । साषण जार्या  
छषमादे तदात्मजाः

- (२४) शिखरा समरा माझाल्याः ॥ इत्यादिपरिवारेण संयुताः भावका इमे । कुर्वन्ति धर्म-  
कार्याणि शासनोन्नतिहेतवे ॥ १ ॥ विक्रमवर्षचतुर्दशसप्ताशोतौ विनिर्ममे यात्रा ।  
शत्रुंजयरेवतगिरितीर्थे संघा
- (२५) म्बतैरेजिः ॥ २ ॥ पंचम्युद्यापनं चक्रे वत्सरे नवतौ पुनः । चतुर्जिर्वाधवैरेजिश्चतुर्धा  
धर्मकारकैः ॥ ३ ॥ अथ संवत् १४९४ वर्षे श्रीवैरिसिंहराजराज्ये श्रीजिनजद्रसूरीणा-  
मुपदेशेन नवीनः प्रासा
- (२६) दः कारितः । ततः संवत् १४९७ वर्षे कुंकुमपत्रिकाजिः सर्वदेशवास्तव्यपरः सहस्र  
भावकानामंशुय प्रतिष्ठामहोत्सवः सा० शिवायैः कारितः । तत्र च महसि श्रीजिन-  
जद्रसूरिजिः श्रीसंजवनाथ प्रमु
- (२७) खर्बिबानि ३०० प्रतिष्ठितानि प्रासादश्च ध्वजशेखरः प्रतिष्ठितः । तत्र श्रीसंजवनाथो  
मूलनायकत्वेन स्थापितः । तत्र चावसरे सा० शिवामहिराजोलाक्षापणश्राद्धैः दिन ७  
साधर्मिकवात्सल्यं कृतं राज
- (२८) छ श्रीवैरिसिंहेन साकं श्रीसंघो विविधवस्त्रैः परिधापितः । राजस्र्श्रीवैरिसिंहेनापि  
चत्वारस्ते बांधवाः स्वबांधववद्वस्त्राखंकारादिदानेन सम्मानिता इति ॥ अथ जिन-  
पतिपाश्र्वो राजतां यत्प्र
- (२९) सादात् सकलसुकृतकार्यं सिध्यति ध्यायकानां । जिनकुशलमुनीन्द्रास्ते जयंतु  
त्रिलोक्यां खरतरविधिपक्षे तन्वते ये सुखानि ॥ १ ॥ सरस्यामिव रोदस्यां पुष्पदंतौ  
विराजतः । हंसवन्नं
- (३०) दत्तात्तावत् प्रासादः संजवेशितुः ॥ २ ॥ प्रासादकारकाणां प्रासादविधिप्रतिष्ठिति-  
कराणां । सूरीणां भाङ्गानां दिने दिने वर्द्धतां संपत् ॥ ३ ॥ सेवायै त्रिजगज्जनाञ्च  
जिनपतेर्यच्चभृंगमूले स्थिता

- (३१) दंडव्याजभृतस्त्रयः सुपुरुषा ध्यामंत्रयन्ति ध्रुवं । प्रेत्खोलद्वजपाणिनी रथरणकंटानि-  
नादेन तत् प्रासादत्रितयं त्रिलोकतिलकं वंदे मुदाहं त्रिधा ॥ ४ ॥ प्रासादत्रितयं  
नंथात् त्रिलोकीतल
- (३२) मंडनं । त्रिविधेन त्रिधा शुद्ध्या वंदितं त्रिजगज्जनेः ॥ ५ ॥ सौजाग्यजाग्यनिधयो  
मम त्रिधादायकाः कविगजेंद्राः । श्रीजयसागरगुरवो विजयंते वाचकगरिष्ठः ॥ ६ ॥  
तच्छिष्यो वा
- (३३) चनाचार्यो वर्त्तते सोमकुंजरः । प्रशस्तिर्विहिता तेन वाचनीया विचक्षणैः ॥ ७ ॥  
श्रीः ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥ लिखिता च पं० जानुप्रज्ञगणिना ॥ सर्वसंख्यायां कवित्वानि ३३ ॥  
शुभं जवतु संघस्य
- (३४) ॥ ८ ॥ जिनसेनगणिश्चात्र चैत्ये कार्षीद् बहुधमं । सूत्रभृच्छिवदेवेन प्रशस्तिरुद-  
कारि च ॥ १ ॥ प्रासादे क्रियमाणेथ बहुविधनोपशांतये । विज्ञानं रचयामास  
जिनसेनो
- (३५) महामुनिः ॥ २ ॥ शुभं ।

पट्टिका पर ।

[ 2140 ]\*

संवत् १५१० वर्षे वैशाखसुदि १० दिने राजलश्रीवयरसिंहपुत्रराजलश्रीचाचिगदेवविजय-  
राज्ये चोपडा गोत्रे सा० सिवराजमहिराजलोलाबांधव सं० छाषणसुभावकेण सं० थिरा सं०  
सहसा सं० सहजपाल सा० सिषरा सा० समरामालासहणाकुंरापौत्रश्रीकरणउदयकरणप्रमुख-

\* यह पट्टिका पीले पाषाण पर खुदी हुई है । इसकी लम्बाई अन्दाज़ ५॥ फुट और चौड़ाई ४॥ फुट है और इन सब पट्टिकाओं पर प्रायः एकही तरह की कारीगरी है ।

[ २१ ]

परिवारसहितेन श्रीसित्तुंजयगिरनारावतारपट्टिका समरा जार्या सहजखदे श्राविका पुण्यार्थं कारिता प्रतिष्ठिता खरतरगछे श्रीजिनजडसूरिपट्टाखंकार श्रीश्रीजिनचंडसूरिजिः । श्री वाचनाचार्यकमलराजगणयः प्रत्यहं प्रणमंति ॥ ठ ॥ श्री ॥ शुभं चवतु ॥ १ ॥

[ 2141 ] †

॥ संवत् १५१० वर्षे वैशाखसुदि १० दिने संखवाखगोत्रे सा० पेथापुत्र सा० आसराज-  
भावकेण पुत्र बेता पौत्र वीदाहेमराजप्रमुखपरिवारसहितेन निज जार्या गेली पुण्यार्थं वा०  
कमलराजगणीश्वराणां सडुपदेशेन श्रीशत्रुंजयगिरनारावतारपट्टिका कारिता ॥ श्रीखरतरगछे  
श्रीजिनजडसूरिपट्टाखंकार श्रीजिनचंडसूरिजिः । उत्तमखाजगणिः प्रणमति सादरं ॥

[ 2142 ] \*

॥ ॐ ॥ संवत् १४९९ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ दिने श्रीजकेशवंशे चोपडा गोत्रे वो० सा०  
सिवराजमहिराजखोलाखाषणभावकैः पुत्र थिरा सहसा सहजपाख साजण सिखरा समरा  
मूखा माखा प्रमुखपरिवारसहितैः श्रीनंदीश्वरपट्टिका कारिता प्रतिष्ठिता खरतरगछे श्री  
जिनजडसूरिजिः ॥

[ 2143 ] \*

॥ ॐ ॥ संवत् १४९९ वर्षे श्रीजकेशवंशे चोपडा गोत्रे सा० दीता तत्पुत्र सा० पांचा  
तदीय पुत्र ॥ चो० सिवराज महिराज खोलाखाषण भावकैः पुत्र थिरा सहसा सहजपाख  
सिखरा प्रमुख । परिवारसहितैः श्रीविंशतिविहरणमाणपट्टिकापुण्यार्थं कारिता । प्रतिष्ठिता  
मार्गशीर्ष वदि ३ दिने बुधे श्रीखरतरगछे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनजडसूरिगणिः ।

† पीले पाषाण पर खुदी हुई यह पट्टिका भी लम्बी है फुट और चौड़ी लगभग ३॥ फुट है ।

\* ये दोनों पट्टिकायें पीले पाषाण पर खुदी हुई हैं । इनकी लम्बाई चौड़ाई ३॥ फुट है ।

तपपट्टिका पर ।

[ 2144 ] \*

( शिवेभाग में )

( १ ) ..... रत्नमूर्ति गणि ॥ वा० जितसेन गणि । पं० हर्षजडगणि । मेरुसुंदर गणि  
जयाकरगणि जीवदेव ग .....

( मध्यभाग में )

( ॐ कार्तिक ) वदि

( ५ नाणं सं ) जवस्स उ १

( ११ चवणं ने ) मिस्स उ १

( ११ जम्मो प ) उमस्स उ १

( ११ दिक्खा ) पउमस्स उ १

( ॐ ) मार्गशीर्ष वदि ॥

५ जम्मो सुविहिस्स उ १

६ दिक्खा सुविहिस्स उ १

१० दिक्खा वज्जमाणस्स उ १

ॐ मार्गशीर्ष सुवि ॥

( ॐ का ) र्तिक सुदि ।

( ३ ना ) णं सुविहिस्स उ १

( ११ ) नाणं अरस्स उ १

१० जम्मोअरस्स उ १


११ दिक्खा अरस्स उ १

११ नाणं नमिस्स उ १

\* यह तपपट्टिका पीले पाषाण में खुदी हुई है। इसके शिवेभाग के दोनों तरफ का कुल २ अंश टूट गया है। इसकी लम्बाई २ फुट १० इंच और चौड़ाई १ फुट १०॥ इंच है। इसमें बायें तरफ प्रथम २४ तीर्थंकरों के ज्येष्ठ, जन्म, दोहा और ज्ञान चार कल्याणक की तिथियां कार्तिक वदि से आश्विन सुदि तक महीने के हिसाब से खुदी हुई हैं। इसके बाद तीर्थंकरों की मोक्ष कल्याणक तिथियां भी महीनेवार हैं। दाहिने तरफ प्रथम ६ तपों के कोठे बने हुये हैं फिर इनके नियमादि खुदे हुये हैं। इसके नीचे वज्रमध्य और यक्षमध्य तपों के नकशे हैं और एक तरफ श्रीमहावीर तप का कोठा खुदा हुआ है और इन सभी के नीचे दो अंशों में लेख हैं। जो अंश टूट गये हैं, उनकी पूर्ति ( ) में दी गई है। आबू तीर्थ में भी ऐसा पंच कल्याणकों का महीनेवार लेख है।

लेख के पोष सुदि में '११ नाणं भमिन्दणस्स' और '१४ नाणं भजियस्स' खुदे हैं। ये स्रम हैं। अंक '११' के बगले '१४' और '१४' के स्थान पर '११' होना चाहिये।

जैसलमेर—श्री संभवनाथ मंदिर तपपट्टिका (नं० २१४४)



SHRI SAMBHAVANATH TEMPLE—JAISALMER.





[ ३३ ]

११ जम्भो मङ्घ्रिस्त	उ १	ॐ माघ वदि ॥	
११ दिक्खा मङ्घ्रिस्त	उ २	६ चवणं पठमप्पहस्त	उ १
११ नाणं मङ्घ्रिस्त	उ ३	१२ जम्भो सीयलस्त	उ १
१४ जम्भो संजवस्त	उ १	१२ दिक्खा सीयलस्त	उ २
१५ दिक्खा संजवस्त	उ २	१५ नाणं सिद्धंजवस्त	उ २

ॐ पोष वदि ॥

१० जम्भो पासनाहस्त	उ १
११ दिक्खा पासस्त	उ ३
१२ जम्भो चंदप्पहस्त	उ १
१३ दिक्खा चंदप्पहस्त	उ २
१४ नाणं सीयलस्त	उ २

ॐ पोष सुदि ॥

६ नाणं विमलनाहस्त	उ २
७ नाणं संतिनाहस्त	उ २
११(१४) नाणं अजिनंदणस्त	उ २
१४(११) नाणं अजियस्त	उ २
१५ नाणं धम्मनाहस्त	उ २

ॐ माघ सुदि ॥

२ नाणं वासुपुजस्त	उ १
२ जम्भो अजिनंदणस्त	उ १
३ जम्भो धम्मस्त	उ १
३ जम्भो विमलस्त	उ १
४ दिक्खा विमलस्त	उ २
८ जम्भो अजियस्त	उ १
९ दिक्खा अजियस्त	उ २
१२ दिक्खा अजिनंदणस्त	उ २
१३ दिक्खा धम्मनाहस्त	उ २

ॐ फागुण वदि ॥

६ नाणं सुपासस्त	उ २
७ नाणं चंदप्पहस्त	उ २

ए चवणं सुविहस्स	उ १
११ नाणं उसजस्स	उ ३
१२ जम्मो सिहंजवस्स	उ १
१२ नाणं सुवयस्स	उ २
१३ दिक्खा सिहंजवस्स	उ २
१४ जम्मो वासुपुज्जस्स	उ १
१५ दिक्खा वासुपुज्जस्स	उ १

ॐ फागुण सुदि ॥

२ चवणं अरहस्स	उ १
४ चवणं मस्सिस्स	उ १
७ चवणं संजवस्स	उ १
१२ दिक्खा सुवयस्स	उ २

ॐ चैत्र वदि ॥

४ चवणं पासस्स	उ १
४ नाणं पासस्स	उ ३
५ चवणं चंदप्पहस्स	उ १
७ जम्मो रिसहस्स	उ १
७ दिक्खा रिसहस्स	उ २

ॐ चैत्र सुदि ॥

३ नाणं कुंयस्स	उ २
११ नाणं सुमयस्स	उ २
१३ जम्मो वीरस्स	उ १
१५ नाणं पठमस्स	उ २

ॐ वैशाख वदि ॥

५ दिक्खा कुंथुस्स	उ २
६ चवणं सीयलस्स	उ १
१३ जम्मो अणंतस्स	उ १
१४ दिक्खा अणंतस्स	उ २
१४ नाणं अणंतस्स	उ २
१४ जम्मो कुंथुनाहस्स	उ १

ॐ वैशाख सुदि ॥

४ चवणं अज्जिनंदणस्स	उ १
७ चवणं धम्मनाहस्स	उ १
७ जम्मो सुमहस्स	उ १
९ दिक्खा सुमहस्स	उ १
१० नाणं वीरस्स	उ २

१२ चवणं विमलस्स उ १

१३ चवणं अजियस्स उ १

ॐ ज्येष्ठ वदि ॥

६ चवणं सिद्धंजवस्स उ १

७ जम्मो मुणिसुवय उ १

१३ जम्मो संतिस्स उ १

१४ दिस्का संतिस्स उ २

ॐ ज्येष्ठ सुदि ॥

९ चवणं वासुपुज्जस्स उ १

१२ जम्मो सुपासस्स उ १

१३ दिस्का सुपासस्स उ २

ॐ आषाढ वदि ॥

४ चवणं उसज्जनाहस्स उ १

९ दिस्का नेमिनाहस्स उ २

ॐ आषाढ सुदि ॥

६ चवणं वीरस्स उ १

ॐ भावण वदि ॥

७ चवणं अणंतस्स उ १

८ जम्मो नमिस्स उ १

९ चवणं कुंथुस्स उ १

ॐ श्रावण सुदि ॥

२ चवणं सुमइस्स उ १

५ जम्मो नमिस्स उ १

६ दिस्का नेमिस्स उ २

१५ चवणं मुणिसुवयस्स १

ॐ जाडवा वदि ॥

७ चवणं संतिस्स उ १

८ चवणं सुपासस्स उ १

ॐ आसोज वदि ॥

१३ गडजापहार वीरस्स १

१५ नाणं नेमिस्स उ ३

ॐ आसो सुदि ॥

१५ चवणं नमिस्स उ १

इति चत्वारि जन्म दीक्षा ज्ञानकल्याणकानि समाप्तानि ।

ॐ कार्तिक वदि ॥

१५ मुक्को वीरस्स उ २

ॐ मागसिर वदि ॥

११ मुक्को पडमस्स उ ३०

ॐ मागसिर सुदि ॥

१० मुक्को थरस्स उ ३०

ॐ माह वदि ॥

१३ मुक्को उसजस्स उ ६

ॐ फागुण वदि ॥

७ मुक्को सुपासस्स उ ३०

ॐ फागुण सुदि ॥

१२ मुक्को मद्धिस्स उ ३०

ॐ चैत्र सुदि ॥

५ मुक्को थजियस्स उ ३०

५ मुक्को संजवस्स उ ३०

५ मुक्को थणंतस्स उ ३०

७ मुक्को सुमइस्स उ ३०

ॐ वैशाख वदि ॥

१ मुक्को कुंथुस्स उ ३०

२ मुक्को सीयलस्स उ ३०

१० मुक्को नमिस्स उ ३०

ॐ वैशाख सुदि ॥

७ मुक्को थजिनंदनस्स उ ३०

ॐ ज्येष्ठ वदि ॥

७ मुक्को मुणिसुवयस्स उ ३०

१३ मुक्को संतिस्स उ ३०

ॐ ज्येष्ठ सुदि ॥

५ मुक्को धम्मस्स उ ३०

—

ॐ आषाढ वदि ॥

७ मुक्को विमलस्स उ ३०

—

ॐ आषाढ सुदि ॥

७ मुक्को नेमिस्स उ ३०

१४ मुक्को वासपुज्जस्स उ ३०

—

ॐ श्रावण वदि ॥

३ मुक्खो सेयंसस्स उ ३०

—

ॐ श्रावण सुदि ॥

७ मुक्को पासस्स उ ३०

—

ॐ जाडवा वदि ॥

७ मुक्को चंदप्पहस्स उ ३

—

ॐ जाडवा सुदि ॥

९ मुक्को सुविहस्स उ ३०

इति मोक्षकव्याणक

१	२	३	४	५	६	७
८	९	१०	११	१२	१३	१४
१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८
२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५
३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२
४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९
५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६

महाजड तपः ।

दिन १६६ पारणा ४६ ॥ श्रीः ॥

५	६	७	८	९	१०	११
१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२
३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९
४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६
४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३
५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०

सर्वतो जडतपः ।

दिन ३६२ पारणा ४६ ॥ ७ ॥

[ १७ ]

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

जड दिन ७५

वारणा २५ ॥ ४ ॥

५	६	७	८	९
७	८	९	५	६
९	५	६	७	८
६	७	८	९	५
८	९	५	६	७

जडोत्तर दिन

१७५ वारणा २५

३	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	०	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	३

श्रीधर्म चतुर्थ तपः ।


३	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	०	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	१
१	१	१	१	१	१	३

श्रीकर्म चतुर्थ तपः ॥

[ ३९ ]


- ( १ ) ज्ञानतपः । उपवास ३ शक्तिं विना एकांतर ज्ञानपूजा  
( २ ) ॥ दर्शनतपः । उ० ३ ॥ चारित्र तपः । उ० ३ पूर्वरीत्या  
( ३ ) । सौजाग्य कल्पवृक्ष एकांतरित उ० १५ एका० १५ चै  
( ४ ) त्रमासे परं उद्यापने कल्पवृक्षं वनफलादि दीय०  
( ५ ) ॥ समवसरण तपः । वर्ष ४ । दिन १६ । १६ उपवास निर्वी  
( ६ ) आंबिल एकासणा । पर्युषणा दिने उपवासः ॥ तथा पर  
( ७ ) म जूषण तपु आचाम्भ ३२ पा० ३२ उद्या० देवस्य भूष  
( ८ ) णानि दीयंते ॥ धर्मचक्रु आचाम्भ २४ उद्या० चक्रं दी०  
( ९ ) ॥ धर्मचक्रवास्तपः । अष्टम २ चतुर्थ ३७ पारणे मुनिदा  
( १० ) नं । बन्नीस कट्याण उ तपः । अष्टम २ चतुर्थ ३२ पारण  
( ११ ) क मुनिदानपूर्वकं च । एतत्तपा द्वयं दासिद्भनाशकं ।  
( १२ ) असोगवृक्षतपु उपवास १७ एका० १५ आसोज मा  
( १३ ) से ॥ उद्यापने अशोको दीयते ॥ तथा उमासो तपि उपवास १०० सक्तिं  
( १४ ) विना एकांतरित दिन ३६० ॥ तथा बरसी तपि उप० ३६० सक्तिं विना ए  
( १५ ) कांतरित दिन ७२० ॥ तथा पंच मेरु तपः उपवास २५ एकांतरे । उद्या ।  
( १६ ) पने स्वर्णमय मेरु । पंचवीस जेदः । क्रांतादि ॥ तथा नवकार तपः  
( १७ ) उपवास ३० एकांतरे । सक्तिं विना संपदाहारे पारणकं ॥ ज्ञानार्थे  
( १८ ) स्वर्णाकर पट्टिकादि दानं तथा चंदणवास्तातपः ३ उ० उजमणय स्वर्ण  
( १९ ) रूप्यमय सूर्य को माला दीयंते ॥ असुत्यष्टमी जड आठे आठमे उ० ४  
उज्ज्या मोदकं ।





कृष्णपद्मे वज्रमध्य

तपः ॥ सूर्यात्मनः ॥ छ ॥



शुक्लपद्मे यवमध्य

तपः ॥ अग्नात्मनः ॥ छ ॥





[ ३३ ]

मूर्तियों पर ।

[ 2145 ]\*

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ संवत् १४९७ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ बुधवारे श्रीऊकेशवंशे ।  
( २ ) ॥ चोपड़ागोत्रे सा० दीतात्मज सा० पांचा तज्ञार्या रूपी तत्पुत्र सा० सिवराज  
महिराजलोभालात् ।  
( ३ ) ॥ णसुधावकैः पुत्र थिरासहसासहजपालसिषराश्मुरापरिवारसहितैः कायोत्सर्गस्था  
( ४ ) ॥ श्रीपार्श्वनाथप्रतिमा कारिता स्वपुण्यार्थं सा० लोभा जार्या लीलादे गुणकादे ॥  
प्रतिष्ठिता खर-  
( ५ ) ॥ तरगह श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनजडसूरिनिः ॥ श्री जेसलमेरुनग्रे ( गरे )  
श्रीशैविसिंहराज्ये ॥

[ 2146 ]†

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ सं० १४९७ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ दिने बुधवारे श्रीऊकेशवंशे चोपड़ागोत्रे  
सा दीता  
( २ ) ॥ त्मज सा० पांचा तज्ञार्या रूपी तत्पुत्रैः सा० सिवराजमहिराजलोभालात्पाणसुधा-  
वकैः पुत्र थरा  
( ३ ) ॥ सहसासहजपालसिषरासमराश्मुरापरिवारसहितैः कायोत्सर्गस्थिता श्रीसुरार्थ  
प्रतिमा

\* मंदिर के रंगमंडप में पीले पाषाण की बाईं तरफ लड़ी सफण कायोत्सर्ग मूर्ति के चरण चौकी पर यह लेख खुदा हुआ है । मूर्ति लगभग ५ फुट ऊंची और १॥ फुट चौड़ी है

† मंदिर के रंगमंडप में बाहिने तरफ पीले पाषाण की लड़ी सफण बड़ो कायोत्सर्ग मूर्ति के चरण चौकी पर यह लेख खुदा हुआ है । ऊंचाई चौड़ाई बाईं तरफ को मूर्ति के बराबर है ।

[ ३४ ]

- ( ४ ) सुगुणाखंकारिता भीलाषण चार्था लषमादे श्राविकया प्रतिष्ठिता श्री जेसलमेरु  
( ५ ) महादुर्गे श्रीवयरसिंहविजयराज्ये श्रीखरतरगछे श्रीनवांगवृत्तिकारभीअजय  
( ६ ) देवभेषोर्थं प्रकटी कारिता अजयदेवसूरिसंताने... श्री जिनजद्रसूरिसुगुरराज्ये ॥

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2147 ]

सं० १२०८ ज्येष्ठ वदि... गुरौ देवंग पद्मी श्राविकाच्यां स्वभ्येसे प्रतिमा कारिता  
प्रतिष्ठिता च श्रीदेवसूरिजिः ॥

[ 2148 ]

॥ सं० १५०९ वर्षे मार्गशीर्ष सु० ६ दिने ऊकेशवंशे साधुशाखायां प० जेता चार्था जा-  
दहणदे पुत्र सा० सदा श्राद्धेन जा० सहजलदे पुत्रहापाथावरयुतेन श्रीसुमतिर्बिंबं कारितं  
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगछे श्रीजिनराजसूरिपदे श्रीजिनजद्रसूरियुगप्रवरागमैः ॥ कट्याणमस्तु

[ 2149 ]

सं० १५१५ वर्षे माघ सुदि १४ श्रीश्रीमाल झा० व्य० जीखर सुत हीरा जा० श्री  
हरसू सुत जानाकेन पित्रोः भ्येसे श्रीधर्मनाथर्बिंबं का० पूर्णिमापदे श्रीराजनिखकसुरीणा-  
मुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥

[ 2150 ]

सं० १५२५ वर्षे पौ० सु० ९ सा० वण सु० सा० पार...

[ 2151 ]

॥ संवत् १५९१ वर्षे वैशाख वदि ६ शुक्ले । सागवाडावास्तव्य प्राग्वाट झातीय वृद्ध-  
शाखायां मंत्र वीसाकेन जा० टीबू सुत मं० विरसालोलादेढाचांदाप्रमुखकटुंबयुतेन स्वभ्रे-  
यसे श्री सुमतिनाथर्बिंबं कारितं श्री आनंदविमलसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ ३५ ]

चौबीसी पर ।

[ 2152 ]

संवत् १५१३ वर्षे वैशाख वदि ७ प्राग्वाट झातीय ङ्गव० हापा जार्या रूपी सुत राणा-  
केन जार्या राजू सुत पेथादिकुटुंबयुतेन स्वश्रेयोर्य श्रीकुंथुंनाथादिवतुर्विंशतिपदः कारा-  
पितं प्रतिष्ठितः तपागच्छेश श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्यश्रीरत्नशेखरसूरिजिः ॥ शुभं जवतु श्री ॥

आचार्य की मूर्ति पर ।

[ 2153 ]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फाल्गुन सुदि २ दिने श्रीखरतरगुहनायक श्रीजिनराजसूरिपट्टा-  
संकारहारश्रीजिनजडसूरिराजानां प्रतिमा । श्रीसंधेन श्रेयोर्य कारिता प्रतिष्ठिता श्रीजिन-  
चंडसूरिपट्टे श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः ॥ श्रीकमलससहोपाध्यायशिष्यश्रीमुनिउपाध्याय ..

## श्रीशांतिनाथजी का मंदिर ।

प्रशस्ति ।

[ 2154 ] \*

( १ ) ॥ ॐ ॥ स्वस्ति ॥ श्रीपार्श्वनाथस्य जिनेश्वरस्य प्रसादतः संतु समीहितानि ।

श्रीशांतिनाथस्य प

\* यह लेख ४५ पंक्तियों का पीले पाषाण में खुदा हुआ है । इसकी लम्बाई २ फुट ४ इंच और चौड़ाई १ फुट ४ इंच है । इस लेखका कुछ अंश भण्डारकर साहेब के रिपोर्ट १९०४-५ और १९०५-६ के नं० ५४ में प्रकाशित हुआ था । यह G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट के नं० ५ में सम्पूर्ण रूप से छाया है । यह मंदिर दो महला पर्यर का बना हुआ है । इसके नीचे तले में श्री भद्रापदजी

- ( १ ) दप्रसादाद्विघ्नानि नश्यंतु जत्रेच्च शांतिः ॥ १ ॥ संवत् १५८३ वर्षे मागसिर सुदि
- ( ३ ) ११ दिने श्रीजेसलमेरुमहाडुर्गे राउस श्रीचाचिगदेवपट्टे राउस श्रीदेवकर्णे.
- ( ४ ) पट्टे महाराजाधिराज राउस श्रीजयतसिंहविजयिराज्ये कुमर श्रीखूणकर्णयुव-
- ( ५ ) राज्ये श्रीऊकेशवंशे श्रीसंखवासगोत्रे सं० आंवा पुत्र सं० कोचर हूया । जिणइ कोरंटई
- ( ६ ) नगरि अचइ संखवाखी गामइ उतंगतोरण जैनप्रासाद कराव्या । आबू जीराउसइ ओसंधि
- ( ७ ) सुं यात्रा कीधी । जिणइ आपणइ उदारगुणइ आपणा घरनउ सर्व धन लोकनां देई कोरंटइ कर्ण
- ( ८ ) नामना लीधी । सं० कोचरपुत्र सं० मूसा तत्पुत्र सं० रउसा सं० हीरा । सं० रउसा जार्या सं० माणिकदे
- ( ९ ) पुत्र सं० आपमल्ल सं० देपमल्ल । सं० आपमल्ल जार्या कमलादे पुत्र सं० पेथा सं० जीमा सं० जेठा सं० पेथा
- ( १० ) जार्या पूनादे पुत्र सं० आसराज सं० मूंधराज पुत्रिका स्याणी । सं० आसराजइ श्रीशत्रुंजयमहातीर्थे
- ( ११ ) श्रीसंध सहित यात्रा करी आरणा विच सफइ कीधा । सं० आसराज जार्या चो० सं० पांचा पुत्री गेली
- ( १२ ) जिणइ श्रीशत्रुंजयगिरनारआबूतीर्थे यात्रा कीधी । श्रीशत्रुंजयादि तीर्थावत.र. पाटी करावी सतोर-

का और ऊपर के तले में श्री शांतिनाथ जी का मंदिर है । यह प्रशस्ति अष्टापदजी के मंदिर में लगी हुई नहीं है परन्तु श्री शांतिनाथ जी के मंदिर के बाहर में है ।

जैसलमेर—श्री शान्तिनाथ मंदिर प्रशस्ति ( नं० २१५४ )

॥१॥ श्री शान्तिनाथेश्वरस्य जिनेश्वरस्य प्रसादतः संबसमीदितानि श्री शान्तिनाथेश्वरस्य  
 दृष्टमादादिप्रतिष्ठानेषु च योऽत्रातिशयः स भवति ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥ ॥





- ( १३ ) ण सपरिकर श्रीनेमिनाथनां शिव जरावी श्रीसंजयनाथनइ देहरइ मंडाव्या । समस्त कट्याणकादि-
- ( १४ ) कतपनी पाटो सैलमय करावी । सं० आसराज पुत्र सं० वेता सं० पाता । सं० वेतइ संवत् १५११ श्रीशत्रुंजयगिर-
- ( १५ ) नारतीर्थइ श्रीसंघ सहित यात्रा कीधी । इम वरसइ २ तीर्थयात्रा करता संवत् १५२४ तेरमी यात्रा करी श्रीशत्रुंज-
- ( १६ ) य ऊगरि ठ अरी पावता श्रीआदिनाथप्रमुखतीर्थकरनी पूजा करता ठठ तप करी बिलाष नवकार गुणी चतुर्वि-
- ( १७ ) धसंघनी जक्ति करी आंशणा वित्त सफल कीधा ॥ बस्त्री चोपड़ा सं० पांचा पुत्र सं० सिवराज सं० महिराज सं० लोला सं-
- ( १८ ) घवी लाषण पुत्रिका सं० गेली । सं० लाषण पुत्र सं० सिपरा सं० समरा सं० माला सं० महणा सं० सहणा सं० कुं-
- ( १९ ) रांप्रमुखगिरिवारसहित चो० सं० लाषण संखवाळ सं० आसराज पुत्र सं० वेता ए बिहु मिला श्रीजेसलमेरु नगरि ग-
- ( २० ) ठ ऊगरि बिजूमिक श्रीअष्टापदमहातीर्थप्रासाद कराव्या । सं० १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने राउळ श्रीदेवकर्णराज्ये
- ( २१ ) समस्तदेसना संघ मेलवी श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनसमुद्रसूरि कन्हलि प्रतिष्ठा करावी श्रीकुंथुनाथ श्रीशांतिनाथ मूलना-
- ( २२ ) यक थपाव्या । चउवीस तीर्थकरनी अनेक प्रतिमा जरावी । सं० वेतइ समस्त मारुयाडि माहि रूपानाणा सहित समकितलाडू-

- ( २३ ) लाह्या । सोनाने आषरे श्रीकल्पसिद्धांतनां पोथां लिखाव्यां । श्रीजिनसमुद्र-  
सूरि कन्हां श्रीशांतिसागरसूरि आचार्यनी प-
- ( २४ ) द स्थापना करात्री । श्रीअष्टापदतीर्थे त्रिहु चूमिकाए जगति करात्री बिंब मंडा-  
व्या । सं० षेता जार्या सं० सरसति पुत्र
- ( २५ ) सं० वीदा सं० नोडा पुत्रिका धानू बीजू । सं० नोडा जार्या सं० नायकदे सं०  
पूनी । सं० वीदा जार्या सं० अमरादे सं० विमला-
- ( २६ ) दे सं० विमलादे पुत्र सं० सहसमल्ल सं० करणा सं० धरणा । पुत्रिका हरषू सलषू  
हस्तू । सं० सं० सहसमल्ल जार्या सं०
- ( २७ ) कुंरी पुत्र जोला सं० सवीरी पुत्र डाहा सं० करणा सं० कनकादे पुत्र वीदा ।  
पुत्रिका लाह्या सं० धरणा जार्या धरणिगदे पु-
- ( २८ ) त्रिका वाह्दी । इत्यादि परिवार सहित सं० वीदइ श्रीशत्रुंजयगिरनारआबूतीर्थे  
यात्रा कीधी । समकितमो-
- ( २९ ) दक घृत षांड साकरनी लाहिणि कीधी श्रीजिनहंससूरिगणनायकनी वर्षग्रंथि  
महोत्सव करी अह्नी घर ३ प्रतइ
- ( ३० ) लाह्दी । पांचमिनां ऊजमणा कीधा । पांच सोनइया प्रमुख अनेक वस्तु ऊजम-  
णइ मांडी । श्रीकल्पसिद्धांतपुस्तक घणी-
- ( ३१ ) वार वचाव्या । पांचवार लाष नवकार गुणी चारसा जोडी अह्नीनी लाहिणि  
कीधी । सं० सहसमल्ल श्रीशत्रुं-
- ( ३२ ) जयतीर्थे यात्रा करी जूनइगढि राणपुर वीरमगाम पाटण पारकरि षांड अह्नी  
लाहिणि करी घरे आव्या

- ( ३३ ) पठइ सं० वीदइ घर २ प्रतइ दस २ सेर घृत लाह्या । अष्टापदप्रासादइ बिहु भूमिकाए जगतिना बारणा-
- ( ३४ ) नी चउकी करावी । पउडसाण जाली १४ सुहणा देहरा ऊपरि कांगुरा अष्टापदइ कराव्या । काउसग्गीया
- ( ३५ ) श्रीपार्श्वनाथनां बि कराव्या । बिहुं हाथिए सं० पेता सं० सरसतिनो मूर्ति करावी । संवत् १५८१ वर्षे मागसिर व-
- ( ३६ ) दि १० रत्रिवारे महाराजाधिराज राउल्ल श्रीजयतसिंह तथा कुमर श्रीखूणकर्ण-वचनात् श्रीपार्श्वनाथ
- ( ३७ ) अष्टापद विचासइ सं० वीदइ सेरी ठावी । कुतना वड बंधाव्या । बारणा पउडसाण कराव्या । वेईबंध ठजा-
- ( ३८ ) वलि करावी । कोहर एक कराव्या । गाइ सहस १ जोडी घृत अन्न गुल रुत घणी वार षट्दरसण ब्राह्मणा-
- ( ३९ ) दिकनां दीधा । श्रीजेसलमेरुगढनी दक्षिण दिसइ घाघरा बंधाव्या । देहरानी सेरी नइ घाघरा बेऊ० श्रीजय-
- ( ४० ) तसिंह राउल्लनइ आदेसइ सं० वीदइ कराव्या । गउष करावी दस अवतार सहित लक्ष्मीनारायणनी मू-
- ( ४१ ) र्ति गउषइ मंडावी ॥ जिनो दशावतारोप्यवताररहितस्य तु । श्रीषोडसजिनेंद्रस्य समियाथ परीष्ट-
- ( ४२ ) ये ॥ १ शुद्धसम्यक्त्वधारित्वाद्भावित्तीर्थकरत्वतः । स लक्ष्मीकः समायातो जिनो दातुमिव श्रियं ॥ २ मंडपा-

- ( ४३ ) दिकनी कमठा सं० सहस्रमह्व सं० करणा सं० धरणा कराविस्थइ ॥ इत्येषा प्रश-  
स्तिः श्रीवृहत्स्वरतरगहे श्रीजि-
- ( ४४ ) नहंससूरिपट्टालंकारश्रीजिनमाणिक्यसूरिविजयिराज्ये श्रीदेवतिलकोपाध्यायेन  
लिखिता चिरं नंदतु ॥
- ( ४५ ) सूत्रधार मनसुख पुत्र सूत्रधारषेताकेन मुदकारि प्रशस्तिरेषा कोरीतं ॥ : ॥ श्री-  
र्चवतु ॥

पट्टक पर

[ 2155 ]

॥ सं० १५७५ वर्षे माघमासे श्रीजेसलमेरुमहादुर्गे श्रीजयतसिंह राजल पट्टालंकार श्री-  
दूणकर्णराजलत्रिजयिराज्ये श्रीशंखवाखगोत्रे सं० कोचर पुत्र सं० मूल पुत्र सं० रोला पुत्र  
सं० आपमल पुत्र सं० पेथा पुत्र सं० आसराज जार्या गेड्डी पुत्र सं० खेता सं० ( जा० ) सरसनी  
पुत्र सं० दीवा जार्या सं० अमरादे सं० विमलादे पुत्र सं० सहस्रमल जार्या सं० कुरी पुत्र  
सं० जोक्षा द्वितीय जार्या सं० सवीरदे पुत्र डाहा सं० करण जार्या सं० कनकादे पुत्र सं०  
खीदा सं० नरसिंह पुत्र सं० धरणा जार्या धरणगदे सं० प्रमुखपरिवारसहितया सं० वीदा  
जार्या सं० विमलादे आविकायाः पुण्यार्थ श्रीशत्रुंजयमहातीर्थश्रीगिरनारतीर्थपट्टिका अष्ट-  
मांगलिक्ययुता सं० सहस्रमह्व सं० धरणाज्यां कारापिता० श्रीवृहत्स्वरतरगहे श्रीजिनजड-  
सूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनसमुद्रसूरिपट्टे श्रीजिनहंससूरिपट्टालंकारश्रीजिनमा-  
णिक्यसूरिराज्ये प्रतिष्ठिता श्रीदेवतिलकोपाध्यायेन लिपी कृता प्रशस्तिरेषा चिरं नंदतु०  
सूत्रधार धाना पुत्र सेडू सूत्रधारेण प्रशस्तिरुदकारि० श्रीशत्रुंजयगिरनारतीर्थवतारवाटी  
घटिता । श्रीसंघेन जोत्कार्यमाणा पूज्यमाना चिरं नंदतु ॥

[ ४१ ]

सफण ठोटी मूर्ति पर

[ 2156 ]

सं० १६२२ व० श्रीपार्श्वनाथ सा० धरस सुत तेजपाल सुत ...

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2157 ]

ॐ संवत् १४९९ वर्षे मार्गशीर्षवदि ३ बुधे ज्जकेशवंशे चो० दीता पुत्र पांचा पुत्र साषा  
श्रावकेन सिखरादिसुतयुतेन श्रीपार्श्वनाथत्रिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगछे श्रीजिनजड-  
सूरिजिः ॥ श्रीः ॥

[ 2153 ]

संवत् १५०२ वर्षे कार्तिकवदि २ शनौ ज्जकेशज्ञातीय वं० गोत्रे सा० लोहट सुत सारंग  
जार्या सुहागदे पुत्र सादा जार्या सुइमादे स्वभ्रेयोर्थ श्रीश्रंचलगछे श्रीगछेशश्रीजयकेशरि-  
सूरीणामुपदेशेन श्रीसुमतिनाथत्रिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंधेन ॥ श्रीः ॥

[ 2159 ]

॥ संवत् १५०९ वर्षे आषाढसुदि २ शनौ उपकेशज्ञाती ठाजहड़गोत्रे म० जूठी । लसून  
महं काखू जा० कर्मादे पु० मं० नोडाकेन स्वपु० श्रेयांसत्रिंबं का० प्र० खरतरगछे ज० श्री-  
जयशेखरसूरिजिः प्र० ॥

[ 2160 ]

संवत् १५१३ वर्षे माहसुदि ३ सोमे उपकेशज्ञातीय सां कीहट पुत्र धामा जार्या चांपू  
तयोः पुत्र सोमाकेन जार्या मकूसहितेन श्रेयसे श्रीसुविधिनाथत्रिंबं कारितं प्रतिष्ठितं खर-  
तरगछे श्रीजिनजडसूरिजिः ॥

[ ४१ ]

[ 2161 ]

सं० १५१६ वर्षे वैशाखवदि ४ ऊकेशवंशे रोहड़गोत्रे मं० थकण चार्या वारू पु०  
ज० जेठाकेन चार्या सीतादे पु० । बगईसरप्रमुखपुत्रपौत्रादियुतेन स्वज्येष्ठपु० मं० माला-  
पुण्यार्थ श्रीश्रेयांसर्विषं कारितं श्रीखरतरगछे श्रीजिनजडसूरिपट्टाखंकारश्रीजिनचंद्रसूरिजिः  
प्रतिष्ठितं ॥ श्रीः ॥

[ 2162 ]

सं० १५१७ वर्षे क्रा० सु० ४ रवौ श्रीश्रीसवंशे वड़हड़ाशास्त्रीय सा० सादा जा० सुहड़ादे  
पुत्र सा० जीवाकेन जा० जीवादे त्रातृ सरवण सूरपांचाचांपासुतपूनासहितेन त्रातृ जांऊ-  
णसोचाश्रेयोर्थ श्रीअंबखगछेशश्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीचंद्रप्रजस्वामिर्विषं कारितं  
प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन श्रीकोरड़ागामे ॥

[ 2163 ]

ॐ सं० १५३६ वर्षे फागुनसुदि ३दिने श्रीऊकेशवंशे कूकड़ाचोपड़ागोत्रे साषण जा०  
साषमादे पु० सं० कूरपालसुधावकेन चार्या कोडमदे पु० सा० जोजराजादिपरिवारयुतेन श्री-  
धर्मनाथर्विषं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगछे श्रीजिनजडसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरि...

धातु की मूर्तिपर ।

[ 2164 ] \*

सं० १५९० वर्षे पौषवदि ३ दिने ॥ श्रीआदिनाथप्रतिमा सेवक...



\* यह पाषाण के हस्ती पर लवधालु की सेठ की मूर्ति के पीछे का लेख है ।

जैसलमेर श्री शान्तिनाथ मंदिर ।  
पाषाण के हस्तियों पर धातु की मूर्तियां ( नं० २१६४ )



BRONZE STATUES ON STONE ELEPHANTS.  
SHRI SHANTINATH TEMPLE — JAISALMER.



## श्रीअष्टापदजी का मंदिर ।

चौवीसी पर ।

[ 2165 ]

सं० १५१२ वर्षे वैशाखसुदि ५ शुक्रे ऊजड़ावास्तव्य श्रीश्रीमालझा० श्रे० पांचा जा० पादहणवे पुत्र सहिसाकेन जा० जोखी जातु सागामदायुतेन श्रीकुंथुनाथादिचतुर्विंशति-पदः मातृपितृश्रेयसे कारितः आगमगच्छे श्रीहेमरत्नसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितः ॥

[ 2166 ]

॥ संवत् १५२० वर्षे मार्गशिरसुदि ९ दिने नाहड़गोत्रे सा० जयतासंताने सा० बढ्हा जार्या छषमणि पुत्र सा० मेधा आत्मश्रेयसे श्रीसुमतिनाथर्षिभं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीधर्म-घोषगच्छे श्रीपद्मशेखरसूरिपद्वे ज० श्रीपद्माणंदसूरिजिः ॥

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2167 ]

सं० १३७३ फागुणसुदि ७ दीसावालझा० श्रे० नीमा जार्या बीढहू श्रेयसे तथा ज्रातु कोचरस्य ठ० सुहृठा जार्या कासल जातु जूठिग जार्या सूहवदेवि तेषां श्रेयसे ठ० सहुडा-केन पंचतीर्थी कारिता ।

[ 2168 ]

सं० १५१० वर्षे फागुणसुदि ११ शनौ श्रीब्रह्माणगच्छे श्रीश्रीमालझा० श्रेष्ठि देपाल जा० देवलदे पुत्र गोगा जा० गंगादे गुरदे जीखी पु० लहुटेन लनोडाहेमागजाजिः स्वपितृमातृश्रे-यसे नि० श्रीश्रेयांसनार्थिर्षिभं कारितं प्र० श्रीजज्जगसूरिपद्वे श्रीपञ्जगसूरिजिः ॥  
नरसाणा ग्रामे ॥

[ ४४ ]

[ 2169 ]

॥ संवत् १५१३ वर्षे माघसुदि ३ शुके उपकेशज्ञातीय ठाजहड़गोत्रे म० देवदत्त जार्या  
रयणादे तयोः पुत्र मं० गुणवत्तेन जार्या सांतलदे सहितेन श्रीधर्मनाथबिंबं कारितं प्र० श्री-  
खरतरगष्टे श्रीजिनशेषरसूरिपट्टे ज० श्रीजिनधर्मसूरिजिः ॥

[ 2170 ]

संवत् १५१५ वर्षे मार्गसुदि १ दिने ऊकेशवंशे प० सूरु पुत्र जीमा सोमी पुत्रेण प०  
पारसश्रावकेण जार्या रोहिणि पुत्र बेनारिषापरिवृतेन श्रीचंद्रप्रजस्वामिबिंबं कारितं प्रति-  
ष्ठितं श्रीखरतरगष्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः निजपुण्यार्थमिति ॥

[ 2171 ]

सं० १५१६ वर्षे वै० व० ४ ऊकेशवंशे साधुशाषायां सं० नेमा जार्या सारू सुत सा०  
रहिया सा० मेधा सा० समराश्रावकैः स्वश्रेयसे सुमतिबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्टे  
श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरि सह गुरुजिः ॥

[ 2172 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५१६ वर्षे वै० व० ५ गुरौ ऊकेशवंशे सा० तोला जार्या तोलादे सुत  
सीहाकेन जार्या गौरी पुत्र डूढहा देवा जानृ वाहड़ जानृ जायाहीमादेप्रमुखपरिवारसहि-  
तेन श्रीवासुपूज्यबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिजिः ॥ जयजडे ॥

[ 2173 ]

संवत् १५३३ वर्षे पौषवदि १० गुरू प्राग्वाटज्ञा० गांधी हीरा जा० हेमादे पुत्र चाहि-  
ताकेन जा० छालो पुत्र समरसी जार्या लाडकिप्रमुखकुटुंबयुनेन स्वश्रेयार्थं श्रीनमिनाथ-  
बिंबं का० प्र० नपागष्टे श्रीलक्ष्मीसागरसूरिजिः ॥ वीसलनगरवास्तव्यः ॥ श्री ॥

[ ४५ ]

यंत्र पर ।


[ 2174 ]

- ( १ ) ॐ हां ह्रीं नमो देवाधिदेवाय
- ( २ ) श्रीअरिष्टनेमये अविस्त-
- ( ३ ) चिंतामणित्रिचुवनजनकल्प-
- ( ४ ) वृक्ष ॐ हां ह्रीं सर्व समिहितसिद्धस्तव ( जीव )

२३	३	६	१५	१६
२४	२०	२१	२	८
१	७	२३	१६	२५
२८	२४	५	६	१२
१०	११	१७	२३	७४

नागे प्रतिष्ठा कृतन्माता सिद्धे हितार्थं नाग सं० १११० ❀

\* इस लेख में नाग संवत् का उल्लेख है यह संवत् कब और किस राजा के समय से प्रारंभ हुआ मुझे ज्ञात नहीं है, राय-बहादुर पं० गौरोशंकरजी के 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' में जिन संवत्तों का वर्णन है उन में नाग संवत् नहीं है।



## श्रीसुपार्श्वनाथजी का मंदिर ।

प्रशस्ति

[ 2175 ] \*

- ( १ ) ॥ ॐ नमः श्रीसुपार्श्वनाथाय ॥ श्रीनाजेयमनुं वृषांकिततनुं पापारिनाशेधनुं । श्री-  
महांतिजिनं तमोजरदिनं लोकप्रयी स्वामिनं ॥ सर्वानंदकरं महाजयहरं
- ( २ ) श्रीनेमिनाथं परं । वंदे पार्श्वप्रभुं सुरासुरविभुं श्रीवर्द्धमानं सु ( शु ) जं १ जुवन-  
जवनपापध्वांतदीपायमानं परमतप्रतिघातप्रत्यनीकायमानं । धृतकुवस-
- ( ३ ) यनेप्रावश्यमंप्रायमानं जजत विदितकीर्तिं श्रीसुपार्श्वं विमानं २ अर्हत ईशाः  
सकलाश्च सिद्धा आचार्यवर्या अपि पात्रकेंद्राः । मुनीश्वराः सर्वसमीहितानि कु-
- ( ४ ) वंतु रत्नत्रययुक्तिजाजः ३ गजारूढा पीना द्विगुणजुजयुग्मेन सहिता । षसद्वि-  
द्युत्कांतिर्नरसुरजरेः पादमाहिता ददाना जक्तेच्यः प्रतिदिवसमुच्चैरमरतां शु-
- ( ५ ) जं शांता संघस्य दिशतु सदानंदजननी ४ सत्सर्वार्द्धिसमन्विते शुजयुते दुष्टैर्जनै-  
र्विच्युते धर्माधिष्ठितचित्तलोकप्रसिते त्रिधाविनीतोचिते । श्रीमज्जेशममेरु-
- ( ६ ) नाम्नि नगरे चैत्यं सुजातं कथं । तं वदये ह्यधुना सुपार्श्वजिनपस्याहं तपागण्डके ५  
गांजीयोदार्यधैर्यादिगुणसमुदयैः सद्गुणैर्धर्मचर्या श्रुत्वा युक्तस्य वाणीं दुरि-
- ( ७ ) तशतदक्षारामकामे हिमानीं । कंदर्पस्तेषु घलां नवजिनजवनोत्पादनेनेत्यजस्रं  
मर्त्यः प्राप्नोति नित्यं प्रतिजवकृतं यत्पापभाहृत्य मुक्तिं ६ ब्रह्मैर्देवीशदेवासुरन-

\* यह प्रशस्ति एक पीछे पाषाण के लगभग चतुष्कोण पट्ट पर खुदी हुई है । इसकी लम्बाई चौड़ाई २ फुट है । यह प्रथम G. O. S. No. 21. के परिशिष्ट नं० २२ में प्रकाशित हुआ था, परन्तु पाठ में बहुत सी अशुद्धियाँ रह गई थी, वे मूल से सुधार कर यहाँ प्रकाशित की गयी हैं ।





- ( ७ ) रनिकरैः सेवितांघ्रिद्वयस्य । जक्तानां मंगलाय प्रमथि तदनुजेंद्रस्य मायायुतस्य ।  
श्रीमद्विष्णोः पदाब्जामलकलनजलेः क्षाश्रितस्वांतकस्य सन्न्या-
- ( ८ ) याध्वप्रकर्तुर्जगति च विदितस्यारिवर्गांतकस्य ७ निशेषोर्वीशमान्यस्य जनसुखकृतो  
मूखराजाजिधानराज्ञः संप्राप्य चाज्ञां द्रुतहत समघः कारयामास सं-
- ( १० ) घः सत्प्रासादं प्रसादं सुरजवनसमं नष्टद्रुष्टद्विषादं युक्तं पापाद्धिमुक्तं गतकुम-  
तमतं जास्त्रिकातोरणाथैः ७ युग्मं श्रीमह्वीविक्रमस्य क्षितिपतिशुजात् प्राज्य-
- ( ११ ) साम्राज्यराज्याद्धर्षव्रातेसु जाते दहनरसगजोर्वीमिते सौम्यमार्गे सूर्ये मासोत्तमा-  
श्वयुजि सितदले कर्मवाह्यां दशम्यां । रम्यां सद्योगगम्यां वसुपतिजयुजिसौम्यवा-
- ( १२ ) रान्वितायां ८ त्रिजिर्विशेषकं जातं हि पूर्णं गतवत्सु तूर्णं चैत्यं हि पंचस्वपि हाय-  
नेषु जाता प्रतिष्ठा बलिर्नोतरायात् ततोतरायस्य गता निवृत्तिः १० राजेंद्रकृत्यसिंह-  
नामनृपतेः पट्टो-
- ( १३ ) वयाजौ रवेः श्रीयद्वन्वयक्षीरनीरधिविधोः सर्वर्द्धिविद्योद ( धी ) धेः । श्रीनाथस्य  
पदांबुजास्त्रिसदृशस्यामर्दितासन्मधोश्चंडाखंडकुमित्रपद्मिदलने दुर्दंतपंचास्यिनः ११
- ( १४ ) सत्प्रासादतडागयामप्रभृतिभेयस्कृतेर्वर्द्धितामंदानं द्रुष्टुत्तमानघणयः पुण्यीकृत प्राणि-  
नः । जाप्रस्रोत्कटपत्प्रतापतपना नष्टारिजांधकृतौ राज्ये राज्ञमूखनामनृपते ।
- ( १५ ) वै विद्यमाने चिरं १२ सर्वाकृत्यनिवर्त्तिते शुभमते सद्यौवराज्यांकिते गोषड्दर्शनपा-  
लके गजहरावाख्ये कुमारे स्थिते । श्रीनारायणचक्रितत्परमतिर्माहेश्वरीयेन्वये प्रा-
- ( १६ ) वोमृत्करुष्णामृतार्द्धदयः प्राप्तप्रतिष्ठाश्रयः १३ आख्येनैव सुरूपसिंह इति तत्सूना  
थ्यमात्योत्तमे स्वज्ञातौ तिलकोत्तमे सुहृदयानंदप्रकंदोपमे । सर्वदोषिमलप्रसक्तु-
- ( १७ ) ति समे सत्पुण्यपुण्यद्रुमे नाम्ना साक्षिमसिंहके मतवरे विख्यातपृथ्वीतले १४

वर्षे हर्षजनप्रदे नवरसाष्टेदौ मिते संगते श्रीमद्विक्रमचूपातेः सुखलितस्यादत्रराज्या-  
द्भुतात् ।

- ( १८ ) ग्रीष्मर्तौ वृषराशिगे ग्रहपतौ सौम्यायने जास्करे सत्सद्भाशिनवांशगेषु सकलेषु  
व्योमगेषु क्रमात् १५ राधे मासि समन्विते सुविशदे पक्षे बलक्षे सखे श्रीमन्नाजि-  
सुतस्य पारण-
- ( १९ ) दिने शुद्धे तृतीया तिथौ । वारे चंद्रसुते शुक्रर्क्षसहिते सद्योगवेलायुने दिग्नामा  
मृदुमंजुनास्य विशदे जाते सुशते निजे १६ सत्रीडीकृतनाकिनागवनितावाताजि-  
रत्यद्भुते गीते सप्त स्वग
- ( २० ) न्विते च गदिते सीमांतनीजिः शुभे । काट्याणीयमहोत्सवे बहुकृते जाते महा-  
डंबरे वादित्रध्वनिपूरिते जयरवे वंदीजनोच्चारिते १७ सट्टंशेषु तपागणस्य निखि-  
लेषूत्पत्तिजाजां सतां वृद्धा-
- ( २१ ) चार्थमतानुगेन सुहृदा पुण्यात्मनामाग्रहात् । श्राद्धानां सुखदा मया नगजयेनैषा  
प्रतिष्ठा मुदे चैत्यस्य ध्वजदंडयोश्च कक्षस ( श ) स्याकारि पुंसां हिता १८ अष्टजिः  
कुक्ष-
- ( २२ ) कं श्रीमत्तपागणसरोजविकाशहंसाः प्राभूवनार्षशुचिमानसराजहंसाः सिद्धांत-  
सिंधुमथनैकनिबद्धकक्षाः सूरीशहीरविजया हतदुष्टमक्षाः १९ दिदृष्ट्यामकब्बर-
- ( २३ ) समस्तकृसार्वभौमेनासेव्यमानचरणाः करुणार्द्रचित्ताः यद्दोषनाज्जगति त्यक्तमृता-  
करेण व्यादत्तराज्यनवचिह्नत्रिदिग्पुरेण २० युगं तरपश्चरसंब्यतीते कतिपयसुस-
- ( २४ ) मे श्रीजिनेन्द्रार्यसूरिः काळेस्मिन् सन्निकर्षे विजित महदनेकाजिमानिह्वंदः  
श्रेष्ठानंतकृतीशा सदननरभृतां माननीयो मुनीन्द्रो जैनं चर्कर्त्ति राज्यं मुकृत-  
युतजनानंदजं पु-



- ( १५ ) एयुक्तं ११ शांतो दांतो धीमान् गीतार्थो मानवर्जितसुचेताः श्लोके हि लब्धसुयशा  
दृग्ध्रुतमहागाधजलधितटः १२ श्रीहीरविजयसूरेः शाखायां भोगुशाखविज-  
योस्ति । पु-
- ( १६ ) रवरजेशलमेरोस्तडिष्यो ह्यौ समायातौ १३ दीपविजयनगविजयौ संग्रस्य तपग-  
णस्य विहसतेः । ताज्यामिमाः प्रतिष्ठाश्चैत्यध्वजदंडकप्रशानां १४ सुपार्श्वपार्श्वजग-  
वतो स्वा-
- ( १७ ) त्महितार्थं कृतास्सकल्याणं । बह्वाडंबरयुक्ते कृते महातूर्धसंरावे १५ जाते जय-  
जयशब्दे दत्ते बंदीजनेषु सहाने । मिष्टान्नजोजनेन संतुष्टे सकलचूनगणे १६  
प्रतिष्ठाकृत्ये संपूर्णे
- ( १८ ) सिद्धे सर्वमनोरथे । स्वपूर्वजकृताचारविधिज्ञेन महौजसा १७ राज्ञा श्रीमूखराजेन  
एहमागत्य सन्मुदा । वस्त्रादिकृतसस्कारः परोपकृतिकर्मठः १८ अत्रर्णवादी न  
कापि देवगुर्वो-
- ( १९ ) श्व पूजकः । कृतसंगः सदाचारैः श्रृण्वानो धर्ममन्वहं १९ दीनानाथाविह्रुदुःखो  
दयार्झिकृतमानसः । पापजीरुः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् २० सर्वमिष्टान्न-  
संपूर्णं सर्व-
- ( २० ) व्यंजनसंयुतं । सर्वसुष्टुरसोपेतं सर्वचित्तसुखप्रदं २१ संघः सार्धमिवात्सल्यं चकारा-  
मंदजोजनं । ईदृक्कुजेन कार्येण नरः प्राप्नोति निश्चितं २२ इह श्लोके धनं चायुर्वृद्धिं  
कीर्त्तिं सुतं सु-
- ( २१ ) खं । परत्र देववैचल्यं परमां शिवसंपदां २३ षड्भिः कुलकं जडं कुरुष्व परिपाक्ष्य  
सर्वविश्वं विभ्रं हरस्व विपुलां कमलां प्रयच्छ । जैवातृकार्कसुरसिद्धजलानि यावत्  
स्थैर्यं जजस्व

- ( ३२ ) हि सुपर्श्वज ( जि ) नस्य नित्यं ३४ रविचंद्रधगसुतसौम्यगुरुशनसः शनिराहु-  
शिक्षिप्रमुखाः । दिविगास्तततं मम हर्षयुतः प्रदिशं स्वधि जडजरं जवतां ३५  
क्षेत्राधीश्वरयोगिनीजनग-
- ( ३३ ) षोः सिद्धेः समाराधितो ध्यातो देवगणैस्तथा मुनिगणैः कार्यार्थिभिः सर्वदा ।  
साम्राज्यार्थकरश्चतुर्भुजधरः खड्गादिशस्त्रैर्जरः श्रीसंघस्य सुखं ददातु सततं श्री-  
माणिक्यो हुतं ३६
- ( ३४ ) क्षोण्यां चाखिलदेवता गजमुखाः क्षेत्राधिपा जैरवा योगिन्यो बहुकाश्च सिद्धपि-  
तरः पेशाचकाश्चेटकाः । अन्ये चूचरखेचरा मृतपणा वेतास्रजुतप्रहाः सानंदाः  
प्रदिशंतु मंगलज-
- ( ३५ ) रं संघस्य मे सत्वरं ३७ यासां संस्मरणाद् जवंति सकलाः संपन्नता देहिनां याः  
सर्वा सुरवंदितास्त्रिजगतामाधारचूताश्च याः । संघस्याप्यखिलस्य दुःखनिवहं  
कुर्वंतु हूरं सदा
- ( ३६ ) श्रीमहासनदेवताः सुनयनाः संपूर्णचंद्राननाः ३८ उद्युम्हारदचंद्रास्वा सूर्यकांति-  
समप्रजा । सुखाय मे च संघस्य चूयाच्छ्रीशांतिदेवता ३९ यावद्विष्णुपदं ध्रुवस्थिति-  
युतं व-
- ( ३७ ) वीर्यं तेजोनिधी यावच्छंद्रदिवाकरो दिविसरो यावद्धरित्रीधरो । यावत्संति धरांबु-  
बहिस्रमरुद्धाराधरामंडलं यावत्तावद्विदं प्रमोदजरदं चैवं चिरं तिष्ठतु ४० येषां क्षमं  
द्रव्यं यैश्चे-
- ( ३८ ) यं कारिता प्रतिष्ठात्र । तेषां कुलस्य नित्यं वृद्धिर्मृयाऊनयशासोः ४१ सुवृष्टास्तंतु  
जस्रदाः सुवातास्तंतु वायवः । बहुधान्यास्तु पृथिवीसुस्थितोस्तु जनोखिलः ४२  
सर्वेपि सं-

[ ५१ ]

( ३९ ) तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः । सर्वे जडाणि पश्यंतु मा कश्चिदुःखजाग्ं जवेत्  
४३ नगविजयेन मयेषा कृता प्रतिष्ठा प्रशस्तिरवशेषा । भूयाद्दृष्टिरशेषा संघस्य  
मे शस्य शुज-

( ४० ) रेखा ४४ विनयनतकोटिकोट्यमरजरचरसेवितांग्रिकमल्लस्य । श्रीमहंलेश्वरस्य  
कृपाकटाक्षातिविशेषात् ४५ संवत् १७६९ वर्षे वैशाखसुदि ३ दिने श्रीसंघेन प्रतिष्ठा  
करापिता ॥

चौथीसी पर ।

[ 2176 ]

॥ नार्गेन्द्रगढे श्रीलवणखेटे ? श्रे० आवासुत श्रे० धणादेव चार्या धारन त्त ( तत् ) पुत्र  
आमदेवगणदेवआसदेवादिसमस्तवसमदायेन चतुर्विंशति जिणास्यं कारितं प्रतिष्ठितं श्री-  
विजयसिंहसूरिजिः ॥ सं० १२४९ वैशाख ॥

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2177 ] †

संवत् १४५९ वर्षे अष्टसुदि ३ सा० हरिपास पुत्र सा० पूनपास पुत्र सा० जेठू सा०  
नेमा सा० हेमासुभावकैः स्वपुष्पार्थं श्रीअजिननाथविंशं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे  
श्रीजिनराजसूरिजिः ॥ चिरं नंधात् पूजामानत् ॥

[ 2178 ]

सं० १४६३ वर्षे अषाढसुदि १० बुधे प्रा० झा० व्य० हेमा जा० हीरादे पु० अजाकेन  
श्रेयसे श्रीपार्श्वनाथविंशं कारितं प्रतिष्ठितं मडाहडगढे श्रीसोमदेवसूरिपटे श्रीधनचंडसूरिजिः

† मूळ मंदिर के तथा ऊपर के बांचे और दाहिने मंदिर के समस्त पंचतीर्थियों के लेख एक साथ प्रकाशित किये गये हैं ।

[ ५१ ]

[ 2170 ]

॥ सं० १४७५ वर्षे वैशाखसुदि ५ उपकेशज्ञा० वप्पणागोत्रे सा० देवहा जा० देवहादे  
पु० नाथू पूना सोढा नाथू जा० मादही पु० मेवहाकेन सोहापूर्वजनि० श्रीवासपूज्यार्षिबं  
आत्मभेयो० श्रीउपके० ककसू० प्र० श्रीसिद्धसूरिजिः ॥

[ 2180 ]

सं० १४७३ व० फागु० वदि १ ऊकेशवंशे भे० सोनाजर पुत्र भे० ईसरजावडाच्यां श्री-  
सुमतिनाथर्षिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनजडसूरिजिः ॥ रांकागोत्रे ॥

[ 2181 ]

सं० १४७७ वर्षे फागुनशुदि ५ गुरो श्रीऊकेशवंशे शंखवाखगोत्रे सा० आसराज चार्या  
भारस पुत्र वेतापातादियुतेः श्री...र्षिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनराजसूरिपढे  
श्रीजिनचंद्र(?)सूरिजिः ॥ श्रीरेवताचख ॥

[ 2182 ]

सं० १५०१ मार्ग० सु० १० ऊकेश सा० हेमा चार्या खखमादे पुत्र सा० हीराकेन चार्या  
भारू पुत्र अमराश्रीमहूनोनासोजावाचादियुतेन श्रीशांतिर्षिबं का० प्र० तपा श्रीसोमसुंदर-  
सूरिशिष्यश्रीमुनिसुंदरसूरिजिः ॥

[ 2183 ]

ॐ ॥ सं० १५११ वर्षे आषाढवदि ९ ऊकेशवंशे तेलहरागोत्रे मं० राधा चा० बाहिषदे  
पुत्र मं० चादाभेयसे पना जा० धांधनदे पुत्र मं० पासा मं० आसाच्यां पुत्र वठराजसहितो  
श्रीसंजवनाथर्षिबं का० प्र० खरतर० श्रीजिनजडसूरिजिः ॥

[ 2184 ]

॥ सं० १५११ वर्षे मार्गसु० ३ गुरो श्रीवंडेगढे श्रीयशोजडसूरिसंताने ऊ० झा० सीसो-

[ ५३ ]

दियागोत्रे सं० गेला पु० पेंता जा० कान्हू पु० धांधकेन जा० काज पु० नोदसहितेन  
पूर्वजपुण्यार्थं स्वश्रेयसे शीतसनाथबिं० का० प्र० । श्रीशांतिसूरिजिः ॥ श्रीः ॥

[ 2185 ]

ॐ ॥ संवत् १५१३ वर्षे ज्येष्ठवदि ११ दिने श्रीजकेशवंशे गोपत्रगोत्रे सा० कर्म जा०  
करमादे पुत्र सा० हेमाकेन पुत्र जावडसारंगादियुनेन श्रीमुनिसुव्रतबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं  
श्रीखरतरगढे श्रीजिनराजसूरिपट्टे प्र० ज० श्रीजिनचंद्रसूरियुगप्रधानागड ॥ श्री शुजं जवतु ॥

[ 2186 ]

संवत् १५१३ वर्षे ज्येष्ठसुदि ११ दिने जकेशवंशे लूणियागोत्रे सां आसवाल जार्या  
सावणदे पुत्र गेशकेन जार्या गोरदे नत्पुत्र नाथ सीहा सिवा । नाथू पुत्र सा० कुशनादि-  
परिवारयुतेन श्रीपार्श्वबिंबं कारितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2187 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५१३ वर्षे अषाढसु० २ दिने जकेशवंशे रांकागोत्रे सा० लखा जा०  
सुगुनी पुत्र श्रे० जावडेन पु० सोनारूपापदव्यादियुनेन श्रीकुंभुनाथबिंबं कारितं श्रीखरतर-  
गढे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरियुगप्रधानगुरुजिः प्रतिष्ठितं ॥ शुजं ॥

[ 2188 ]

॥ ॐ संवत् १५१३ वर्षे अषाढसुदि २ जकेशवंशे ज० गोत्रे सा० जेठा पुत्र मीधर जा०  
मंदोयरी पुत्र सोनाकेन ज्रातृ जोजा जा० सोनगदे पुत्र हेमामहिराजसहितेन श्रीआदि-  
नाथबिंबं कारितं ॥ श्रीखरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2189 ]

॥ सं० १५१० वर्षे ज्येष्ठवदि ४ दिने जकेशवंशे परीक्षि सोनी पुत्र सा० सुरपति  
सहिजा करमसिंह करमसी पु० जनदासदेवकर्णाच्यां सुरपति पु० वेलादियुतः पितृव्यराजा-  
पुण्यार्थं श्रीकुंभुनाथबिंबं का० प्र० श्रीजिनचंद्रसूरिजिः श्रीखरतरगढे ॥

[ ५४ ]

[ 2190 ]

संवत् १५१० वर्षे ज्येष्ठशुद्धि ४ दिने ऊकेशवंशे सूर्यश्यागोत्रे सा० आसकरण पुत्र सा० गजा सा० रता सा० तेजाश्रावकेः सपरिवारेः श्रोभ्रंयांसाविंशं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर-  
गढे श्रीजिनचंद्रसूरिपदे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2191 ]

॥ सं० १५१० वर्षे ज्येष्ठशुद्धि १० रवौ श्रीश्रोमा० श्रे० परवत जा० ऊबकू सु० नीसखेन  
त्रातृ ठाकुरसी सु० करमसी काड्हायुतेन मातृपितृश्रेयसे श्रीमुनिसुवतस्वामिभिंशं पूर्णिमा-  
पक्षे श्रीगुणधीरसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रति० च विधिना ।

[ 2192 ]

संवत् १५२३ वर्षे मार्गशीर्षशुद्धि १२ संखवासगोत्रे सा० देपा पुत्र केरुहा केरुहणदे पुत्र  
सा० सेखाकेन जार्या सखषणदे पुत्र देवराजादिपरिवृतेन स्वपुण्यार्थं श्रीचंद्रप्रजाविंशं कारितं  
प्रतिष्ठितं च श्रीखरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2193 ]

॥ संवत् १५२० वर्षे आषाढशुद्धि २ दिने ऊकेशवंशे संखवासगोत्रे सा० मेठा १२पुत्र सा०  
ऊधरणाश्रावकेण सपरिवारेण श्रीअजितनाथविंशं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिन-  
चंद्रसूरिपदे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2194 ]

सं० १५३३ वर्षे । पौषशुद्धि १० गुरू प्राग्वा० इमती व्य० लूणा जा० लूणादे सु० राजा  
जा० नीण सु० शकू श्रीसुमतिनाथविंशं कारितं तपागढे श्रीसोमसुंदरसूरि तत्पटे श्रीरत्न-  
शेखरसूरि तत्पटे श्रीलक्ष्मीसागरसूरि वीसखनगरवास्तव्य शुजं चूयात् ॥

[ 2195 ]

॥ ॐ ॥ सं० १५३६ वर्षे माघशुद्धि ५ दिने श्रीऊकेशवंशे जावकगोत्रे सा० हीरा जार्या

[ ५५ ]

श्री० होरू तत्पुत्र सा० थाहरूभावकेण चार्थं नयर्णी पुत्र सा० देवदत्त सा० सांगणादि-  
परिवृत्तेन श्रीविमलनाथर्षिबं स्वभेयोर्थं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनहंससूरिजिः ॥

[ 2196 ]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुणसुदि ३ वाफाणागोत्रे सा० मूसा जा० महगखदे पु० सा० धर्मा-  
केन जा० अमरी पु० पेधाकाजासांतलसामलसकृदुम्बयुतेन श्रीशांतिनाथर्षिबं कारितं प्रति०  
श्रीवृहद्गढे श्रीमेरुप्रजसूरिजिः ॥

[ 2197 ]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुणसुदि ३ दिने ऊकेशवंशे परीक्षगोत्रे प० हासा पु० जउण-  
पाल जा० रषणादे पु० रिम्माकुंटापरंपर्यावेन करणा पु० बीदादेवादिपरिवारयुनेन श्रीअजिन-  
नाथर्षिबं का० प्र० श्रीखरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिपढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2198 ]

संवत् १५३६ वर्षे फागुणसुदि ३ रवौ ऊकेशवंशे मोलवठागोत्रे सा० सखा चार्था सिंगा-  
रदे पु० रिषमा [ ल ] सा० राणा चार्था माकूयुतेन श्रीकुंथुनाथर्षिबं कारितं प्र० खरतरगढे  
श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2199 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५३६ वर्षे फा० सु० ३ ऊकेशवंशे दोसीगोत्रे सा० सरवण सिरिपादे  
पुत्र सा० जांडाकेन पुत्र रतनाषेतापाताप्रमुखपरिवारसहितेन श्रीसुमतिनाथर्षिबं कारितं  
प्र० खरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥ साधुशास्त्रार्था ॥

[ 2200 ]

॥ सं० १५३७ वर्षे ज्येष्ठवदि ४ चौमे श्रीसोनीगोत्रे जागूसंताने सा० हूंगर पु० सा०  
किरना जा० रहराही पु० सा० आजाकेन जा० रमू पु० नातृश्रीमहलयुतेन आत्मपुण्यार्थं  
श्रीचंद्रप्रजर्षिबं कारापितं प्र० जिनोदयसूरिपढे श्रीदेवसुंदरसूरिजिः ॥

[ ५६ ]

[ 2201 ]

सं० १५३० वर्षे फागुणसु० ३ श्रीउपकेशज्ञातौ । बाघमारगोत्रे । सं० कुशला जा० कमलादे नाम्न्या पु० रणधीरणवीरसूतासरवण सादाधरमाधिरासहितया स्वपुण्यार्थं श्री-सुविधिनाथर्षिबंधं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीउपकेशगण्डे ककुदाचार्यसंताने श्रीदेवगुरुसूरिजिः श्री-भृषीयाणाग्रामे ।

[ 2202 ]

॥ संवत् १५५१ वर्षे पौससुदि १३ शुक्रे श्रीश्रीमालज्ञा० दो० सीहा जा० बाबू सु० द्रो० जोला जा० रंगी सु० वर्द्धमानवस्तासूटाआत्मश्रेयोर्थं जीवितस्वामि श्रीशांतिनाथ-र्षिबंधं का० श्रीपूर्णिमाए० प्रधानशाखायां श्रीजयप्रजसूरिपट्टे श्रीजुवनप्रजसूरीणामु० प्र० पत्तनवास्तव्य ।

[ 2203 ]

॥ सं० १५५० वर्षे फागुणवदि ३ बुधे श्रीजावडारगण्डे उपकेशज्ञा० आसुत्रियागोत्रे सा० वेता जा० खेतसदे पुत्र मांडणमहिपाजीशकंन पितृमातृत्रातृपुण्यार्थं श्रीशांतिनाथर्षिबंधं कारा-पितं श्रीकालकाचार्यसं० ज० श्रीविजयासिंहसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥ सीरोहीवास्तव्य ॥ श्री ॥

[ 2204 ]

॥ सं० १५५-वर्षे पौषवदि ५ गुरुवामरे श्रीउपकेशज्ञातौ दिंडिजगोत्रे सा० मोरुस जा० हांसू पुस ३ सिधा सादा सिवा सिधा जा० रोहिणी. पु० देवाकेन जा० देवअदेसहितेन नाडा-मेघासहितेन च पूर्वजनिमित्तं श्रीअरनाथर्षिबंधं का० प्र० श्रीउपकेशगण्डे ककुदाचार्यसंताने श्रीककसूरिपट्टे श्रीदेवगुरुसूरिजिः ॥

[ 2205 ]

संवत् १५६६ वर्षे माहसुदि ४ गुरो ओसवानज्ञातीया बूमादेवागोत्रे सा० हांसा जा०



[ ५९ ]

हांसखदे पुत्र सा० होला जा० हीरादे पुत्रखोलासहितेन श्रीअजितनाथबिंबं का० प्र०  
श्रीवृहज्जे षोडशे वटंके श्रीमखयहंससूरिजिः ॥ श्री ॥

[ 2206 ]

संवत् १५६७ वर्षे वैशाखसुदि ५ दिने श्रीमख सा० दोसा जार्ग संपूरा पु० सा०  
उदयराज सा० राखाच्यां श्रीचंद्रप्रजबिंबं कारितं वृळ्ज्रातृडाखणपुण्यार्थ ॥ पु० ॥

[ 2207 ]

सं० १६०३ आसाढव० ४ जसखमेरवास्तव्य । को । साडुत्र । सुत देवराजकेन । श्री-  
मुनिसुव्रतस्वामिबिंबं कारितं । प्रतिष्ठितं । तपागछाधिराज ज० श्रीविजयदेवसूरिजिः ॥

[ 2208 ]

सं० १६०३ आषाढवदि ४ पु । त्रे । जेसखमेरवास्तव्य । को । रायसिंग । जार्ग सुहागदे  
सुत कोणू जर मखूसिंघ जतामानोत । पं । श्रीसंजवनाथबिंबं कारितं । प्र० तपागछाधिराज-  
श्रीविजयदेवसूरिजिः ॥

मूर्तियों पर ।

[ 2209 ]

॥ सं० इच्छाही ४० सं० १६५९ वर्षे वैशाखसित १३ बुधे कोः मि जा सुत कोः माता-  
त्मना कारितं श्रीविमखनाथबिंबं प्रतिष्ठिता छ तपागछे श्रीविजयसेनसूरिजिः प्रतिष्ठितं च ॥

[ 2210 ]

संवत् १६७२ वर्षे माहसुदि १३ श्रीपार्श्वनाथबिंबं

[ 2211 ]

संवत् १७५३ वर्षे ज्येष्ठसुदि ५ सोमे सागवाज (?) नगरे सा खगिया मेहनी डोसाः  
खगिया कोहीय सा० कुंथुदास ॥ ठ ॥ इत हजु श्रीपार्श्वनाथ [ प्र ] तिमा प्रणमति

[ ५७ ]

[ 2212 ]

श्रीपार्श्वनाथविंशं संवत् १७७४ ना श्रावणसुदि ४ श्रीतपागण्डस्य व आसकरण अमृतक

[ 2213 ]

संवत् १७७७ माहसुदि १३ बार्ह सरदारं...

यंत्र पर । ×

[ 2214 ]

ॐ सं० १६७३ वर्षे ज्येष्ठ सु० ६ गुरौ जेसखमेरुसंघ कारित पदः तपागण्डाधिराज-  
नहारकश्रीविजयदेवसूरिजः प्रतिष्ठितः ॥



## श्रीचंद्रप्रभस्वामी का मंदिर । \*

बौधीली पर ।

[ 2215 ]

ॐ ॥ संवत् १११७ वैशाखसुदि ७ श्रीमल्लोकेशसज्जे कुकुसर सती सुता अम्बिका  
कारयामास चतुर्विंशति पदकं ॥


[ 2216 ]

संवत् १४७६ वर्षे मार्गसुदि १० रवौ श्रीउसवालझातीथ सा० जड़ा जार्या रामी पुत्र  
सा० बीमा जार्या रूडी सुत सा नामसीह जार्या मटकू । जार्या नामलदे पुत्र रसनपालसहि-

× धातु के चतुष्कोण यंत्र पर यह लेख खुदा हुआ है ।

\* इस मंदिर के दो महल्लों के बायें तरफ की कोठरी में सर्वधातु की मूर्ति, बौधीली और पंचतीर्थियोंका बड़ा संग्रह है। इन सबों के लेख वहां अनुक्रम से दिये गये हैं ।

श्री चन्द्रप्रभोजी और ऋषभदेवजी के मन्दिर - जैसलमेर दुर्ग ।



SHRI CHANDRAPRABHA AND RISHAVADEVA TEMPLES.  
Jaisalmer Fort.

[ ५९ ]

तेन श्रीश्री अंचलगढे श्रीगणेशश्रीमेरुतुंगसूरीश्वरतत्पद्मे । श्रीजयकीर्तिसूरिउपदेशेन श्री-  
मुनिसुव्रतस्वामिर्षिबं चतुर्विंशतीर्थंकरसंयुक्तं कारितं ॥ सकप्रकृदुम्ब्यात्मश्रेयोर्थं ॥ प्रति-  
ष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥

[ 2217 ]

॥ सं० १५३५ वर्षे पौषसु० ६ बुधे श्रीजावडहरागढे उपकेशका० आसात्रागोत्रे सा०  
भाग पुत्र देवडे जा० नीनादे पु० तीळहा जा० तीळहाणदे पुत्र कुराकेन जा० धमाई सु०  
गिरराजयुतेन स्वश्रेयसे चतुर्विंशतिपद्मे श्रीमुनिसुव्र० का० प्र० श्रीजावदेवसूरिभिः ॥

मूर्ति और पंचतीर्थियों पर ।

[ 2218 ]

॥ संवत् ११६२ श्रीवापटीयस्थे वीरदेवेन प्रयाधननिमित्तं कारिता ॥

[ 2219 ]

सं० ११०१ वैशाखवदि २ सहजखी श्राविकया श्रीनेमिनाथप्रतिमा आत्मश्रेयोर्थं  
कारिता ॥

[ 2220 ]

ॐ सं० ११०८ श्रीसरवाखगढे श्रीजिनेश्वराचार्यैः वाल्मखंद किसुणभी मातृ महशी-  
श्रेयसे कारिता ॥

[ 2221 ]

ॐ संवत् १११० वर्षे वैशाखवदि ११ गुरौ श्रे० आसधरसुत जयताकेन मातृ आसदेवि  
आसमतश्रेयसे श्रीमहावीरर्षिबं कारितं ॥

[ 2222 ]

सं० ११५५ मार्गसुदि १५ रवौ श्रीसरवाखगढे श्रीजिनेश्वराजयसंताने व्य० साढदेव  
चार्या अत्रियदेविश्रेयोर्थं सुत वीकमेन प्रतिमा कारिता ॥

[ ६० ]

[ 2228 ]

ॐ ॥ सं० १२९२ फा० सु० २ सोमे मातामही विरिचांदेविभेयोर्थं उ० प्राज्ञकेन श्री-  
महावीरबिंबं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीपरमानंदसूरिजिः ॥

[ 2224 ]

ॐ संवत् १३१० वर्षे वैशाखवदि ११ गुरौ भे० आसधर सुत जयताकेन मातृआसादेवि  
श्रीसमतभेयसे श्रीमहावीरबिंबं कारितं ॥

[ 2225 ]

सं० १३१३ फागुणसुदि ६ बुधे भे० सूमण जा० गांगी पुत्र आसचंद्र तेजकाळ सकु-  
टुम्ब प्र० श्रीदेवेन्द्रसूरिसंताने श्रीअमरचंद्रसूरिजिः शांतिनाथबिंबं ॥

[ 2226 ]

सं० १३१४ वर्षे फागुणसुदि ३ शुके श्रीसडूके जार्या पन्नदे आढ्ह जार्या अजयसिरि  
पुत्र गणदेवजाळदेवाच्यां पितृमातृभेयोर्थं श्रीनेमिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीदेवगुप्त-  
सूरिजिः ॥

[ 2227 ]

सं० १३२५ ज्येष्ठवदि १ शुके उपकेशझा०.....पितृमातृभेयोर्थं श्रीशांतिनाथबिंबं  
का० प्रतिष्ठितं श्रीजिनदत्तसूरिपदे श्रीश्रीविजयप्रज्ञसूरिजिः ॥

[ 2223 ]

संवत् १३२५ वर्षे फागुणवदि ७ सोमे जावडरगळे भे० सडु जार्या सपिकया ज्ञाता  
भेयोर्थं श्रीपार्श्वनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीगुणरत्नसूरिजिः ॥

[ 2229 ]

सं० १३२७ वर्षे फागुणसुदि १२ हरिचंद्रपुत्र जठासीह जगिणि सोहिणि आत्मभेयोर्थं  
बिंबं कारितं ॥ प्रतिष्ठितं श्रीचैत्रगळे श्रीअजितसिंहसूरिसंताने श्रीकनकप्रज्ञसूरिजिः ॥

[ ६१ ]

[ 2230 ]

सं० १३२९ ज्येष्ठवदि ११ श्रीनाथकीयगठे श्रे० छाट्टहण.....श्रीशांतिनाथविंबं  
कारितं ॥ प्र० श्रीधनेश्वरसूरिजिः ॥

[ 2231 ]

ॐ ॥ सं० १३३७ वैशाखसु० १३ शनौ वा० पदव्या स्वभ्रेयोर्थ श्रीमहावीरविंबं कारितं  
प्रतिष्ठितं मलधारिभ्रीप्रजानंदसूरिजिः ॥

[ 2232 ]

सं० १३३८ ज्ये० व० १ वायटझातीय राजसाधार त० अजयासिंहपद्म्याच्यां पितामह  
त० जयताश्रेयसे श्रीशांतिनाथविंबं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीवापटीयगठे श्रीराशिखसूरिजिः ॥

[ 2233 ]

॥ ॐ ॥ सं० १३४१ ज्येष्ठसु० १५ रवौ सा० आसधरेण पितृव्य गुणचंद्रभ्रेयोर्थ श्री-  
शांतिनाथविंबं श्रीरामजडसूरिजिः ।

[ 2234 ]

सं० १३४३ माह० १० शनौ चोपडागोत्रे.....श्रीपार्श्वनाथविंबं कारितं प्र० ॥  
श्रीसूरिजिः ॥

[ 2235 ]

सं० १३४५ आसाढसु० ५ शुके श्रीमालझातीय पितृ थिरपाख मातृनाथिकिश्रेयसे सुत  
मूधाकेन विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिजिः ॥

[ 2236 ]

सं० १३४५ श्रीढपकेशगठे भोककुदाचार्यसंताने नाहड सु० अरसोहश्रेयसे पुड्या पुपा-  
दज (१) पंचसि (: ) श्रीशांतिनाथः का० प्र० श्रीसिद्धसूरिजिः ॥

[ ६२ ]

[ 2237 ]

सं० १३४६ वर्षे ज्येष्ठसुदि १४ श्रीशांतिनार्थिबि० दुर्घटान्वय सा० हरिचंद्र पुत्र भृणास  
पर्वतश्रेयसे प्र० श्रीदेवाचार्यसजातीयैः श्रीमुनिरत्नसूरिजिः ॥

[ 2238 ]

संवत् १३४६ वर्षे पोरवाड पहुंदेव जार्या देवसिरिश्रेयसे पुत्रै बुद्धरजांऊणकागडादिजिः  
श्रीआदिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीउव० श्रीसिद्धसूरिजिः ।

[ 2239 ]

सं० १३५२ वर्षे ज्येष्ठवदि.....सुत सुराकेन त्रातु जयनिमित्तं श्रीशांतिबिंबं कारितं  
प्रतिष्ठितं श्री.....

[ 2240 ]

॥ सं १३५५ प्रागवाट । श्रीकुमारपुत्रेण राजरु.....पित्रोः पुष्यार्थं श्रीरुषजाबिंबं का०  
प्र० श्रीपरमचंद्रसूरिजिः ।

[ 2241 ]

संवत् १३५७ वर्षे वैशाखवदि ५ शुके श्रे० इनेड जार्या नायबुदे पुत्र कलीबा पित्रा मात्रा

[ 2242 ]

सं० १३५८ श्रे० पूनू जा० देह्दी पु० अजीआकेन स्वपित्रोः श्रेयसे श्रीआदिनाथबिंबं  
कारितं प्रतिष्ठितं मडाह्डीय श्रीआणंदप्रजसूरिजिः ॥

[ 2243 ]

सं० १३६१ श्रीनारंगेडगळे श्रीपरसोपाष्यायीसंताने नानिकया कारिता ॥

[ ६३ ]

[ 2244 ]

सं० १३६२ वर्षे वैशाखसुदि १० शनौ जगसीह जार्या लषमसिरि पुत्र नरसीहश्रेयोर्थ  
वीरबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं ॥

[ 2245 ]

॥ सं० १३६७ वर्षे फागुणसु० २ रवौ नाहड सुत जोता जार्या वाणारकीश्रेयोर्थ सुत  
वरणिग सुत पदमज्यां बिंबं गुरु श्रीतपा.....प्रसादेन ॥

[ 2246 ]

सं० १३६८ वर्षे माघसुदि ए बुधे प्राग्वाटझा० जगसीह जार्या वेतुश्रेयोर्थ जार्या जासल  
सुत अलकेन श्रीलक्ष्मीतिलकसूरीणामुपदेशेन श्रीपार्श्वनाथबिंबं कारितं ॥

[ 2247 ]

संवत् १३७४ वर्षे वैशाखसुदि ४ बुधे आसवालझातीय सा लीबा सुत धांधा पुत्र नरपाल-  
आत्मश्रेयसे श्रीचंद्रप्रज का० प्र० श्रीधर्मघोषसूरिजिः ॥

[ 2248 ]

संवत् १३७४ वर्षे वैशाखसुदि ७ श्रीजावडागळे उपकेशझातीय तिहुणा जार्या तिहुणा  
देवि पु० महणाकेन श्रीरुषजदेवबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवीरसूरिजिः ॥

[ 2249 ]

सं० १३८१ वर्षे वैशाखसु० १ श्रीचैत्रगळे श्रीमालझातीय.....मातृश्रेयोर्थ चणसीवि-  
जाणेन श्रीपार्श्व कारितः प्रति० श्रीधर्मदेवसूरिजिः ॥



[ ६४ ]

[ 2250 ]

सं० १३०४ माघवदि ० गुरो प्रा० श्रे० आसचंद्र जीर्ण पारुष्य मातृपितृभेदोर्ष सुत  
ननसामाकेन श्रीमहावीर कारितं शाखिकर्मा तिलकसूरिजिः ॥

[ 2251 ]

सं० १३०४ वर्षे माघसुदि ५ श्रीकोरेटकगढे भावक कर्मण जीर्ण वसंतदे पुत्र जाचा-  
केन मातृव्य नाग पितृ कर्मणनिमित्तं श्रीमहावीरविषं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवज्रसूरिजिः ॥

[ 2252 ]

सं० १३०५ ज्येष्ठव० ४ बुध केकड़ा प्रमिला पितृ वीरि० रामामाठवाजासखिदेव्योः श्रे०  
सुत माजणेन श्रीसूरीणामुपदेशेन श्रीआदिनाथविषं कारितं ॥

[ 2253 ]

ॐ ॥ सं० १३०६ वर्षे ज्येष्ठव० ५ सोमे श्रीऊएसगढे वप्पनागगोत्रे मोल्हा जार्ण  
गुणादे पुत्र मोखटेन मातृपित्रोः श्रेयसे सुमतिनाथविषं कारितं प्र० श्रीककुदाचार्यसं०  
श्रीककसूरिजिः ॥

[ 2254 ]

सं० १३०७ वर्षे वैशाखसुदि १५ शनौ श्रीणाणकीयगढे श्रे० जोमा जा० सोहिणी पु०  
आंबड जा० शृंगारदे पितृश्रेयसे श्रीशांतिनाथविषं कारितं प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिजिः ॥

[ 2255 ]

सं० १३०८ महं रजड जा० रयणादे पु० ऊदाकेन श्रीशांतिनाथविषं मातृपितृश्रेयसे  
कारितं चैत्रगढे श्रीआमदेवसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ ६५ ]

[ 2256 ]

सं० १३०९ वैशाखवदि ७ शुक्ले श्रे० नावड जा० सेखल पुत्र चाहडेन जार्या लाङ्गकदे-  
सहितेन श्रीशांतिनाथविंबं का० प्र० श्रीयशोदेवसूरिपट्टे श्रीधर्मदेवसूरिजिः ॥

[ 2257 ]

ॐ ॥ सं० १३१० वर्षे श्रे० जाहा जा० साबुश्रेयसे पु० अजयसीहविजयसीहाज्यां  
श्रीपार्श्वनाथविंबं कारितं प्र० श्रीमल्लिषेणसूरिजिः ॥

[ 2258 ]

संवत् १३११ माहवदि ११ शनौ घाग्वाटझा० श्रे० ठक्क० जगधर जा० हांसी पुत्र गोस-  
लेन पित्रोः श्रेयसे श्रीपार्श्वनाथ श्रीजिनसिंहसूरीणामुप०

[ 2259 ]

सं० १३११ माहवदि ११ श्रे० महणी जार्या मोहणदे पुत्र धणसीहेन पित्रो श्रेयसे  
श्रीआदिनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिजिः ॥

[ 2260 ]

सं० १३११ फागुणवदि ७ वृहडझा० सहजपा [ ल ] जार्या लाषणदे पुत्रसहितया श्री-  
पार्श्वविंबं कारितं प्र० श्रीअजयदेवसूरिजिः ॥

[ 2261 ]

सं० १३११ श्रीककेशगळे श्रीकुकुदाचार्यसंताने सोमदेवजार्या सोहिणा आत्मार्थ श्री-  
सुमतिविंबं कारितं प्र० श्रीककसूरिजिः ॥

[ ६६ ]

[ 2262 ]

सं० १३९३ वर्षे फागुणसुदि ७ व्य० मागा जा० मांगसिरि पु० भीमधर जा० सोहग  
श्रीचंद्रप्रजर्बिंबं कारितं आत्मश्रेयसे श्रीकांतिलकसूरिजिः ॥

[ 2263 ]

संवत् १३९४ चैत्रवदि ६ शनौ । श्रीमालज्ञातीय श्रे० देवकुमार जार्या सल्लक्षण श्रे०  
तेजाकेन श्रीपार्श्वनाथर्बिंबं कारितं.....श्रीरत्नसूरिजिः ॥

[ 2264 ]

सं० १४०४ वैशा० सुदि १२ श्रीमालज्ञा० कुंरपाल जार्या कुंरदेवि सुत जूठलेन पित्रो  
श्रे० श्रीपार्श्वनाथः का० प्र० पिप्पलगळे श्रीत्रिबुधप्रजसूरिजिः ।

[ 2265 ]

सं० १४०५ वर्षे महं चांपा जार्या वींजलदे पुत्र जुवनपालेन जार्या पदमलदेवी पुत्र  
मुलायाकामेणादियुतेन पित्रो श्रे० श्रीशांतिनाथ का० प्र० श्रीहरिप्रजसूरिजिः ॥

[ 2266 ]

॥ सं० १४१० वैशाखसु०...शुके श्रीमालज्ञाती पितृ अरसी मातृ आह्णदेश्रे०  
श्रीआदिनाथर्बिंबं का० सुन सिहाकेन का० प्र० श्रीनागेंद्रगळे श्रीगुणाकरसूरिजिः ॥

[ 2267 ]

ॐ ॥ सं० १४१६ मागव० ५ सा० दहड पुत्र सा० हेमाश्रावकेण सपूना । श्रीपार्श्वनाथ-  
र्बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनोदयसूरिजिः ॥

[ ६७ ]

[ 2268 ]

सं० १४११ वैशा० वदि ५ शनौ उत्सव० माळा जा राषोणी पितृ महण दमादे नीतव्र-  
श्रे० वनहेडाकेन श्रीअजितनाथबिंबं का० श्रीधर्मतिळकसूरीणामु०

[ 2269 ]

सं० १४११ वैशाखसु० ११ बुधे श्रीवाहडगळे श्रीयशोज्ञसूरिसंताने उपकेशज्ञातीय जा०  
साळा सुत मोषसीहेन पित्रोः श्रेयसे श्रीसुमतिबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीईश्वरसूरिजिः ॥

[ 2270 ]

सं० १४११ वैशाखसुदि ११ जकेशज्ञा० श्रे० गीगदेव जा० जमल पुत्र ३ रणसीहतेजा-  
केन पित्रोः श्रेयसे श्रीशांतिबिंबं का० प्र० श्रीवृहजळे श्रीमहेंद्रसूरिजिः ॥

[ 2271 ]

सं० १४११ वर्षे चै० शु० ११ सु० श्रीसुराणागोत्रे सं० डीड जार्या सं० देवसिरि सुत  
सं० मेढही । कुमरारत्नसीहाच्यां श्रे० श्रीशांतिनाथबिंबं का० प्र० श्रीधर्मघोषगळे श्रीसामा-  
चंद्रसूरिशिष्यैः श्रीदेवचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2272 ]

सं० १४१३ फागुणसु० ७ सोमे उपकेशज्ञा० रामसिंह जार्या लषमादे पुत्री कमलाश्रे०  
श्रीशांतिबिंबं का० प्र० श्रीसिद्धसूरिजिः ॥

[ 2273 ]

सं० १४१६ वर्षे वैशाखवदि १ सोमे उपकेशज्ञा० सा० रुतलसिंह जा० रूपिणी पुत्र  
हापा जा० हांसलदे पु० भीमराजेन सर्वेषां पूर्वजेन । श्रे० श्रीश्रेयांसादिपंचती० का० प्र०  
श्रीसूरिजिः ॥

[ ६० ]

[ 2274 ]

सं० १४३० वर्षे उपकेशज्ञातीय श्रे० रद्विया ज्ञा० रद्वी पु० रूपजाकृष्णजोगापेतु  
पत्निः पितुः श्रे० वि० का० प्रतिष्ठितं श्रीदेवगुप्तसूरिजिः ॥

[ 2275 ]

सं० १४३३ वैशाखशु० ६ शनौ श्रीवृहज्जे उपकेशज्ञा० व्य० वीमा ज्ञा० कमणि मु  
तेजसीषेतसीहयोर्निमित्तं ज्ञा० पूना तेन श्रीविमलनाथार्थिभं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीनरदेव-  
सूरिजिः ॥

[ 2276 ]

सं० १४३४ वर्षे वैशाखव० ३ (?) बुधे उकेश.....मातृक.....श्रीश्यादिनाथ  
का० श्रीधर्मतिलकसूरीणामु० श्रीधनतिलकसूरीणा.....

[ 2277 ]

सं० १४३६ वर्षे वैशाखवदि ११ सोमे उपकेशज्ञा० पितृ पाखला मातृ बुडीश्रेयसे सुत  
श्यासधरेण श्रीवासपूज्यार्थिभं कारितं श्यांचलग्ने सूरीणामुपदेशेन प्र० श्रीसूरिजिः ॥

[ 2278 ]

सं० १४४० वर्षे पौषसुदि १२ बुधे श्री । स । ज्ञातीय पितृ नामा नामलबेश्रेयसे सु०  
सादाकेन श्रीपार्श्वनाथपंचतीर्थी कारापिता प्र० विद्याधरग्ने प्र० प श्रीगुणप्रजसूरि ( जिः )

[ 2279 ]

सं० १४४५ वर्षे फा० वदि १० २० श्रीवृहज्जे श्री [ प्रा० ] ग्वटज्ञातीय श्रीरत्नाकर-  
सूरिणा जार्या साऊ सुत० धीणकेन ज्ञातृधारानिमित्तं श्रीमुनिसुवतस्वामिार्थिभं कारितं  
प्रतिष्ठितं वडगुहा आचार्येन ॥

[ ६९ ]

[ 2280 ]

॥ सं० १४५३ वर्षे अषाढवदि १३ डीसावाखझातीय व्य० चांपाकेन जा० संसाहदे  
पुत्र आसादियुतेन पु० राजाश्रेयसे श्रीवासुपूज्यविंबं का० प्रति० श्रीसूरिजिः ॥

[ 2281 ]

सं० १४५५ वर्षे फागुणवद १ श्रीऊरकेशझातीय आंचलग्ने व्य० सोमा जार्या मह-  
गलश्रेयोर्थं ज्ञातृपु० चाणाकेन श्रीशांतिनाथ कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिजिः ॥

[ 2282 ]

संवत् १४५७ वर्षे वैशाखसुदि ए बुधे का० जांऊण सुत कां गुणधर सुत का० ईसर-  
सुभ्रावकेन निजपुण्यार्थं श्रीअजितनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनराजसूरिजिः । श्रीखर-  
तरगणे ॥

[ 2283 ]

ॐ ॥ संवत् १४५९ वर्षे माघसु० ११ तिथौ चो० दीतापुत्राज्यां साहइकर्मणश्चाज्ञाज्यां  
पूर्वजपुण्यार्थं श्रीपार्श्वविंबं का० प्रति० श्रीजिनराजसूरिजिः ॥ शुभं भवतु ॥

[ 2284 ]

॥ सं० १४६१ वर्षे वैशाखसु० ४ ऊ० सा० राजा पु० खेता जार्या सखी पुत्र पामू  
जार्या पामनसिरि पुत्रसायरेण स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथविंबं कारितं प्र० श्रीषंडेरगणे श्री-  
सुमतिसूरिजिः ॥

[ 2285 ]

ॐ ॥ संवत् १४६१ शंखवासीय सा० सादासुभावेन धर्माकर्मपथारतादिपुत्रसहितेन  
श्रीअजितनाथविंबं कारितं प्र० श्रीजिनराजसूरिजिः ॥

[ १० ]

[ 2286 ]

सं० १४६५ वैशाखसुदि ३ गुणै दि० उपकेशज्ञातीय श्रे० आका जा० सजखणदे पु०  
मोकल जाण्या साढ्हणदे रानूसहितेन पित्रोः श्रे० सुमति० विं० कारितं प्र० श्रीवृहज्जे श्री-  
धर्मसिंहसूरिजिः

[ 2287 ]

ॐ ॥ सं० १४६६ वर्षे माघसुदि ६ दिने ज्जकेशवंशे दा० आसला सुत फमणेन ज्ञा०  
साढ्हकृसलाउरुणयुतेन श्रीमहावीरविं० कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगळे श्रीजिनवचन-  
सूरिजिः ॥

[ 2288 ]

सं० १४९३ वर्षे चैत्रसुदिपूर्णिमादिने सो० जीविंद सो० कूपाश्रावकाच्यां श्रीअजित-  
विं० कारि० प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनवर्द्धनसूरिजिः ॥

[ 2289 ]

सं० १४९३ वर्षे चैत्रसु० १५ वा० सता पुत्र पांचाकेन पुत्र सिवराजमहिराजादियुतेन  
श्रीअजितनाथाविं० कारितं प्रतिष्ठितं खरतर श्रीजिनवर्द्धनसूरिजिः ॥

[ 2290 ]

सं० १४९६ वर्षे वैशा० वदि १ अञ्जेल० म० चडका सुत म० राजाकेन प्र० श्रीपार्श्वना०  
कारितं

[ 2291 ]

सं० १४९६ वर्षे वैशाखसुदि १० सोमे श्रीनाणकीपगळे मं० कर्मसिंह जाण्या कस्मीरदे  
पुत्र साहकेन पित्रोश्रे० श्रीआदि० विं० का० प्र० श्रीधनेश्वरसूरिजिः

[ ११ ]

[ 2292 ]

सं० १४७६ वर्षे चैत्रवदि १ शनौ श्रीश्रीमालज्ञातौ सिद्धशाखायां पितृ साह्या मातृ साह्यगदेश्रेयोर्थं ज्ञातृ सोमानिमित्तं च श्रे० सिधाकेन श्रीअजितनाथपंचतीर्थी का० प्र० पिप्पलग्णे श्रीधर्मप्रज्ञसूरिजिः ॥

[ 2293 ]

॥ सं० १४७१ वर्षे वैशाखवदि १२ रवौ सा० सारंग पुत्र वीरधवल पु० डाजासाह्या-  
सहसासलक्षणप्रभृतिजिः श्रीवासपूज्यबिंबं पुण्यार्थं वीरधवल्लेन कारितं प्र० श्रीजयप्रज्ञ-  
सूरिजिः श्रीशुभं ज्ञयात् ॥

[ 2294 ]

सं० १४७१ वर्षे वैशाखवदि १३ (?) रवौ सा सारंग जार्या सिंगारदे पुत्र वीसलेन  
पितृमातृश्रेयसे श्रीयुगादिबिंबं कारितं श्रीपूर्णिमापक्षे श्रीदेवेन्द्रसूरिपदे ज० श्रीजयप्रज्ञ-  
सूरिजिः ॥

[ 2295 ]

सं० १४७२ वर्षे वैशाखवदि १० गुरू जप० झा० सा० वेता जार्या कीदृहणदे पुत्र पूना-  
केन जार्या पूनादेपुण्यार्थं श्रीअदिनाथबिंबं कारितं प्र० जोनमालगणे ज० श्रीरामदेव-  
( सू ) रिजिः ॥

[ 2296 ]

॥ संवत् १४७३ वर्षे द्वि० वैशाखवदि ५ गुरौ श्रीश्रीमालज्ञा० माहाजनीय महं सांगा  
जार्या सुहडादे पुत्र नीबांकेन स्वपितृनाना श्रीसुमतिनाथबिंबं श्रीअंचलग्णे श्रीजयकीर्ति-  
सूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन ॥ श्री ॥



[ ११ ]

[ 2297 ]

सं० १४०४ व० वैशाखवदि ११ रवौ श्रीश्रीमालङ्का० व्य० श्रीमल जा० मेलावेआत्म-  
श्रेयोर्ष श्रीसञ्जनाथबिंबं कारितं प्र० पिप्पलगच्छे त्रि । ज० श्रीधर्मशेखरसूरिजिः ॥ आमेचाम्ये ।

[ 2298 ]

सं० १४०६ वर्षे महासुदि ४ शनौ प्राग्वाटज्ञतीय म० दूदा जा० प्रीमलदे पुत्र म०  
कान्हाकेन जा० बाबू पुत्र राजायुतेन स्वश्रेयोर्ष श्रीमहावीरबिंबं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री-  
सोमसुंदरसूरिजिः ॥

[ 2299 ]

संवत् १४०६ वर्षे माघसुदि ५ सोमदिने सत्यकिशाखायां साधु सारंग जार्या सिंगारदे  
पुत्र मूलदेव जा० देवलदे पुत्र पेयडेन श्रीसुमतिनाथबिंबं कारितं प्र० श्रीजयप्रजसूरिजिः ॥श्री॥

[ 2300 ]

सं० १४०९ वर्षे कार्तिकवदि ५ गुरौ श्रीश्रीमालङ्का०.....तृ श्रीकलदेश्रेयोर्ष सुत  
राजलकेन श्रीसुमतिनाथबिंबं श्रीपूर्णि० श्रीसाधरत्नसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना ॥

[ 2301 ]

संवत् १४०९ वर्षे मार्गशीर्षसुदि १० गुरुवासरे सत्यकिशाखायां सा० देदा जा० देवलदे  
पुत्र केसवः तेन श्रीपद्मप्रजबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं पूनिमगच्छे श्रीदेवेन्द्रसूरीणांपद्मे श्रीजय-  
प्रजसूरिजिः ॥

[ 2302 ]

सं० १४०० वैशाखसुदि ६.....संताने श्री.....जार्या रतन श्री.....सहज० सहितेन  
मातृपितृश्रेयसे श्रीपार्श्वबिंबं का० प्र० श्रीककसूरिजिः ॥

[ ७३ ]

[ 2303 ]

सं० १४७७ व० फा० व० १ श्रीमालववंशे.....गोत्रे ठा० कामा जार्या मानी.....  
कारिता.....श्री.....ज...राजसूरिपट्टे जिनचंद्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2304 ]

सं० १४७८ वैशाखसुदि ३ श्रीब्रह्माणगढे सूनेधरा० श्रीश्रीमा० व्यव सायरक० रोज  
सुत देवसीपर्वतडुंगरराघवदेवकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीविमलनाथबिंबं का० प्रतिष्ठितं श्री-  
पजूनसूरिजिः ॥

[ 2305 ]

॥ सं० १४७९ वर्षे फा० सु० ३ शुके श्रीमाली श्रे० लाडण जा० मंदोउरि पु० कमूआ  
केडा सुसा मरगाद (?) पितृमातृश्रेयोर्थं श्रीसंजवनाथबिंबं का० प्रतिष्ठितं श्रीपूर्णिमागढे  
श्रीसाधुरत्नसूरिजिः ॥

[ 2306 ]

सं० १४८० वर्षे वैशाखसुदि ९ शनौ प्रा० व्य० पांदा पुत्र बाहडेन बिंबं श्रीचंद्रप्रज-  
स्वामि का० सा० पू० श्रीहीराणंदसूरीणामुपदेशेन ॥

[ 2307 ]

॥ सं० १४८१ व० वैशाखव० ११ शुके उ० पितृ जं० कूपा मातृ कमलादेभ्यसे पुत्र  
नामसीचांचांचुंडाकैः श्रीवासपूज्य पंचतीरथी कारापितं प्र० संडेरगढे श्रीशांतिसूरिजिः ॥श्रीः॥

[ 2308 ]

॥ सं० १४८२ वर्षे मार्ग० वदि ५ गुरौ ० श्रीषंडेरकीयगढे ऊ० झा० सा० पूनसी पु० रामा

[ ७४ ]

पु० खूटा जा० वाखा पु० सारंगेन जा रोहि पु० जयगसहितेन पितृपुण्यार्थं श्रीवासपूज्यार्थिबं  
का० प्र० श्रीयशोजडसूरिसं० श्रीशांतिसूरिजिः ॥

[ 2309 ]

सं० १४९२ वर्षे चैत्रवदि ५ शुके श्रीश्रीमासज्ञातीय श्रे० तोलासुतेन पितृव्य साक्षा  
संसारवेभ्रेयोर्थं सुत ददाकेन श्रीशीतलनाथमुख्यपंचतीर्थी कारापिता पूर्णिमापके श्रीजीम-  
पल्लीय श्रीपासचंद्रसूरिश्रीजयचंद्रसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठिता ॥

[ 2310 ]

संवत् १४९५ वर्षे ज्येष्ठवदि १ शुके उपकेशज्ञातीय आसठत्रागोत्रे म० जोपाल जा०  
नीतु पु० मे० कडूआकेन पित्रो भेयसे श्रीनमिनाथर्षिबं कारितं । श्रीजावठारगठे श्री-  
काळिकाचार्यसंताने प्र० श्रीवीरसूरिजिः ॥

[ 2311 ]

॥ सं० १४९६ वैशाखसुदि १२ उ० चित्रवाखगोत्रे सा० सितराज पु० मीढ्हा जा०  
तेजूआत्मपुण्यार्थं पु० वरदेवदेवदत्तसूणायुतेन ॥ श्रीशांतिनाथर्षिबं कारितं प्र० श्रीधर्म-  
घोषगठे श्रीमहीतिलकसूरिजिः ॥

[ 2312 ]

॥ सं० १४९७ वर्षे ज्येष्ठसुदि २ धांघूगोत्रे सा० लषमण सा० कुसला पु० सा० सोना-  
केन सा० सीतादेयु० स्वभेयसे श्रीआदिनाथर्षिबं का० प्र० मलधारिगठे श्रीगुणसुंदरसूरिजिः ॥

[ 2313 ]

ॐ ॥ सं० १४९७ वर्षे मार्गवदि ३ दिने जकेशवंशे म० हरराज जार्या होरादे पुत्र ।

[ ७५ ]

सिंघा जार्या सुहागदे पुत्र म० मासासुभावकेन पितृ सिंहापुण्यार्थं श्रीश्यादिनाथबिंबं कारितं  
प्रतिष्ठितं खरतरगढे जिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2314 ]

॥ सं० १४९८ वर्षे फादुणवदि १० सोमे श्योसवंशे चंडास्रियागोत्रे सा० ठीइलसंताने  
सा० रेठा जार्या माहिणि पुत्र मांडणजांडाज्यां श्रीसुमतिबिंबं कारि० प्र० श्रीकृष्णार्पिग[हे]  
श्रीजयसिंहसूरिअन्वये श्रीनयचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2315 ]

सं० १४९९ फा० व० ८ प्रा० झा० सं० मांडण जा० मादुणदे सुत पासा जा० वरजू  
सुत सं० वस्ताकेन पितृव्य कोलाकेन जा० मटकू स्वजा० अरथूकुटुंबयुतेनात्मधेयसे श्री-  
संजवनाथबिंबं तपा श्रीसोमसुंदरसूरीणामुपदेशेन का० प्र० श्रीसोमचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2316 ]

॥ सं० १५०० वर्षे.....म ( माघ ) सु० ५ सोमे सांडशाखायां सा० ऊदा जा० पूनादे  
पु० तिहुणाबहुआकडूआसादाकेन त्रातृपितृनिमित्तं धर्मनाथबिंबं का० प्र० पूर्णिमाप० श्री-  
जयचंद्रसूरिजिः ॥ शुभं भवतु ॥ तस्य एहे

[ 2317 ]

संवत् १५०१ वर्षे ज्येष्ठसुदि १० रवौ श्रीअंचलगढेश श्रीजयकेशरीसूरीणामुपदेशेन  
श्रीजयकेशवंशे सासनशाषार्यां सा० हेमा जार्या हीपादे पुत्र सा० जयवडुश्रावकेण जयतलदे  
जार्या सहितेन स्वधेयसे श्रीधर्मनाथबिंबं कारितं स्वश्रावकैः प्रतिष्ठितं ॥

[ ७६ ]

[ 2318 ]

सं० १५०३ वर्षे आषाढवदि १३ सोमे प्रा० सा० मांजू सुत सा० बीमा रणमख जा०  
केत श्रीपद्मप्रजर्षिभं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजयचंद्रसूरिजिः

[ 2319 ]

सं० १५०३ वर्षे आषाढवदि — सोमे प्रा० सा० सामख जा० मांजू सुत सा० खीमा-  
केन श्रीपद्मप्रजर्षिभं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजयचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2320 ]

सं० १५०३ वर्षे मागसिरसुदि ६ चित्रावखगठे श्रीमात्रज्ञातीय माखा जा० मुगती पुत्र  
साह्वा जा० सखखू पुत्र हापा कापा देपा स्वधेयसे श्रीसुप्रतिनाथर्षिभं का० श्रीमखचंद्र-  
सूरिजिः ॥ शुभं भवतु ॥

[ 2321 ]

सं० १५०३ वर्षे माघ० पूर्ण सोमे उप० झा० व जगैमाखेन ज्ञातृ डामरपुण्यार्थ श्री-  
अजितनाथर्षि० का० खरतरग० ज० राजितधर्मसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2322 ]

संवत् १५०३ वर्षे जांगड़गोत्रे सा० हांसाश्राद्धेन पुत्र जेसासामतपूनाघरुसीहैः श्री-  
संजवनाथर्षिभं का० प्रति० श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2323 ]

॥ ॐ ॥ सं० १५०७ वर्षे ज्येष्ठसुदि १ दिने श्रीऊकेशवंशे खोढागोत्रे सा० देवराजसंताने  
सा० खेडा जार्या जरमी पुत्र मूखा राणा सा० नयणाश्राद्धैः मूखापुत्रखषमथयुतैः पुण्यार्थ श्री-  
पार्श्वनाथर्षिभं कारि० प्रति० खरतरगठे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिगणधरैः ॥धोः॥

[ 99 ]

[ 2324 ]

॥ सं० १५०९ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ दिने ऊकेशवंशे वरहङ्गियागोत्रे सा० देवा श्रावकेण पुत्र काकमादिसहितेन चार्या सोखी श्रेयोर्थ श्रीचनंतनाथविंशं कारितं प्रति० श्रीखरतर- गढे श्रीजिनजद्रसूरिजिः ॥

[ 2325 ]

संवत् १५०९ वर्षे चैत्र व० ५ शनौ उपकेशङ्गा० कोरंटगोत्रे सा० वीसन्न जा० नीतु पु० साखिग सत्रसद्वे जेसा चार्यासहितेन आत्मश्रेयसे श्रीसुमतिनाथविंशं का० ऊपस- गढे प्रतिष्ठितं श्रीककसूरिजिः ॥ श्री ॥

[ 2326 ]

॥ सं० १५०७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ बुधे श्रीश्रोमालङ्गातोय श्रे० चरमा सु० श्रे० असाईन जा० धारू सु० श्रे० सोढाकेन जा० वर्जयुतेन पितृमातृश्रेयोर्थ श्रीअजितनाथ विंशं पूर्णि० श्रीगुणसमुद्रसूरीणामुद्देशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना ॥ उ ॥ बडीग्रामे ॥

[ 2327 ]

॥ सं० १५०७ वर्षे माह सुदि ५ गुरो उ० ज्ञातोय.....करणाच्यां श्रेयसे श्रीउप- केशगढे कुकुदाचार्यसंमाने श्रीसंजवनाथविंशं कारितं प्रतिष्ठितं.....सूरिजिः ॥

[ 2328 ]

॥ ॐ ॥ सं० १५०९ वर्षे कार्तिक सुदि १३ ऊकेशवंशे जणसखिगोत्रे सा० जैसिंह चार्या राजसद्वे सुत सा० वीदाकेन चातृढ्य सं० मेरा सा० रणधीराण्यां पुत्र देवराज वरसराज प्रमुखपरिवारयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीचंद्रप्रजविंशं कारितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनराज- सूरिपढे श्रीजिनजद्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ १७ ]

[ 2329 ]

॥ संवत् १५०९ वर्षे फागुण सु० ३ गुरो श्रीश्रीमासङ्गातीय गांधिक जावड़ जा० गुटी नाम्न्या सुता रही श्रेयसे श्रीधर्मनाथबिंबं कारितं पू० पक्षे जीमपह्लोय ज० जयचंद्र-सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥

[ 2330 ]

सं० १५११ वर्षे ज्येष्ठ सु० ५ प्राग्वाट श्रे० जांपर जा० ऊनी पुत्र समराकेन स्वश्रेयसे श्रीआदिनाथबिंबं का० प्र० तथा श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्य श्रीरत्नशेषरसूरिजिः ॥ श्रीः ॥

[ 2331 ]

॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ वदि ९ उकेशवंशे श्रेष्ठ रांकासंताने सं० धन्ना पुत्रेण सं० जगपाल आवकेण जार्या नायकदे पुण्यार्थं श्रीशांतिबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनराजसूरिपदे श्रीजिनजद्रसूरिजिः ॥

[ 2332 ]

॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ वदि ९ उकेशवंशे श्रेष्ठ रांकासंताने सं० धन्ना पुत्रेण सं० जगपाल आवकेण जार्या नायकदे पुण्यार्थं श्रीशांतिबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनराजसूरिपदे श्रीजिनजद्रसूरिजिः ॥

[ 2333 ]

॥ संवत् १५१२ वर्षे वैशाख सु० ३ श्रीमास मूसस्रगोत्रे सा० देवहा पु० मोहण जार्या त्रिपुरादे पु० सिंघा आत्मश्रेयसे श्रीकुंथनाथबिंबं का० प्र० श्रीधर्मघोषगढे श्रीपद्मसेखर-सूरिपदे श्रीपद्मानंदसूरिजिः ॥ श्री ॥

[ १९ ]

[ 2334 ]

॥ सं० १५१२ वर्षे फागुण सु० ८ शुके श्रीउपकेशज्ञातौ श्रेष्ठिगोत्रे वैशशा० सा०  
धना० जा० सखखू पु० ऊगम जा० ऊगमदे पु० जादाकेन जा० जावलदे युतेन आत्मश्रेयसे  
मातृपित्रर्षं श्रीविमलनाथर्षिबंधं कारितं उपकेशगण्डे श्रीककुदाचार्यसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2335 ]

॥ संवत् १५१४ वर्षे फागुण सुदि १० सोमे उपकेशज्ञातौ श्रेष्ठिगोत्रं महाजनीशा०  
म० मद्यसी पु० म० मोषा जा० महिगलदे पु० नीवा धन्नाच्यां पितुः श्रे० श्रीश्रेयांसार्षि०  
का० प्र० उपकेशग० श्रीककुदाचार्यसं० श्रीककसूरिजिः पारस्कर वास्तव्य

[ 2336 ]

॥ संवत् १५१५ वर्षे फागुण सु० ८ शनौ श्रीश्रीमालज्ञा० रिसहा पितृ षीमाना कमी  
सु० डाहाकेन पितृमातृश्रेयसे श्रीनमिनाथर्षिबंधं कारितं श्री पू० श्रीमुनिर्षिघसूरीणामुप-  
वेशेन प्रतिष्ठितं विधिना वानिक वास्तव्य ॥

[ 2337 ]

॥ संवत् १५१६ वर्षे आ० सु० ए शुके उपकेशज्ञातीय विनाकीयागोत्रे सा० थिरू  
सुत सा० महणा आत्मश्रेयसे सुमतिनाथर्षिबंधं श्रीरुद्रपल्लीये श्रीदेवसुंदरसूरिपट्टे श्री-  
सोमसुंदरसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2338 ]

सं० १५१६ वर्षे मार्ग वदि ५ उपकेशज्ञातौ डूगडूगोत्रे सा० सिवराज पु० सं० जिबला  
झांसा जड्दयुतो घ्रातृ सोहिल पुण्यार्थं श्रीपद्मप्रजार्षिबंधं का० वृहद्गण्डे श्रीसागरचंद्रसूरिजिः ॥



[ १० ]

[ 2339 ]

संवत् १५१६ वर्षे मार्गसिर सु० १ प्रा० झा० श्रे० नरसी सुत श्रे० रावव पत्न्या द्य०  
कर्मसी जा० लीकी पुत्र्या भीखवी नाम्या ज्ञातृ द्य० इतिहा ज्ञातृज द्य० सहिरसक्त ज्ञातृ  
राजादिकुटुंबयुतया स्वभ्येयसे श्रीसंजवाबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं तया श्रीरत्नशेखरसूरिजिः ॥

[ 2340 ]

सं० १५१७ वर्षे वैशाख सुदि ४ रवौ उ० सुचीगोत्रे सा० भीसल जा० विमलादे पु०  
धना जा० धाधलदे सामा जा० श्रीआदे आत्मभ्येयसे श्रीशीतलनाथबिंबं कारितं श्री-  
पूर्णिमापदी ज० श्रीजयजडसूरिमुपदेशेन ॥

[ 2341 ]

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ठ त्रिदि ४ दिने श्रीऊकंशवंशे नानहड़गोत्रे सा० धना जार्या रेणी  
पुत्र सा० साक्षिय भाद्रेन जईता मासा पाना जगमासादियुतेन श्रीभर्मनाथबिंबं कारितं  
प्र० खरतरगछे श्रीजनचंडसूरिजिः ॥

[ 2342 ]

॥ संवत् १५१७ वर्षे माह सुदि १३ गुरौ प्राग्वाट झातीय द्य० मूजा जा० जासु सुत  
द्य० बाढाकेन जा० बाढू पुत्र मेला कुरपाळ युतेन स्वभ्येयसे जीवित स्वामि श्रीचंडप्रज-  
बिंबं कारितं कुञ्जक्रमायात् गुरुजिः श्रीपूर्णिमापदे जीमपल्लीय जहारक श्रीजयचंडसूरिजिः  
प्रतिष्ठितं ॥...पुरवास्तव्य ।

[ 2343 ]

॥ सं० १५१८ वर्षे वैशाख व० ११ शुके उरवाळकातोप हारगोत्रे सं० रामा पु० सामंत

[ ७१ ]

चार्या सहजदे पु० सं० सिवाकेन आत्मश्रे० श्रीकुंभुनाथविंशं का० वृहज्जीय प्रत० श्रीदेव-  
चंद्रसूरिजिः ॥

[ 2344 ]

सं० १५१९ वर्षे वैशाख सुदि ३ गुरौ श्रीश्रीमालज्ञा० श्रे० सखण जा० वासू सु०  
ससधरेण आत्मश्रेयसे ॥ श्रीकुंभुनाथादि पंचतीर्थी आगमनश्रे श्रीहेमरत्नसूरीणामुपदेशेन  
कारिता प्रतिष्ठिता च विधिना ॥ धूंधूका वास्तव्य ॥

[ 2345 ]

संवत् १५१९ वर्षे ज्येष्ठ सु० ए शुक्रे श्रीब्रह्माणगढे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे० आसा  
चार्या मेघू सुत गांगा चार्या गंगादे सतवीरा धारा ऊश सहितेन पितृपूर्विजश्रे० श्री-  
विमलनाथविंशं का० प्रतिष्ठितं श्रीविमलसूरिजिः ॥ जांजरू(जू?)या ग्रामे ।

[ 2346 ]

सं० १५२२ वर्षे ज्येष्ठ वदि ७ सोमे श्रीश्रीमालज्ञाती व्य० समरा जा० माकू सु०  
व्य० धनपाल जा० रंगार्ई सु० सिंघा जा० मटकु तथा लघु त्रा० कामा काढहा प्र०  
कुटुम्बयुतेन श्रीनमिनाथविंशं कारितं प्र० पूर्णिमापक्षे । श्रीसाधुरत्नसूरिजिः ॥

[ 2347 ]

सं० १५२५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ए शुक्रे श्रीश्रीमालज्ञातीय व्य० हेमा सुत व्य० मेहा  
चार्या कमी स्वपुत्रपौत्रसहितेन दंपत्योः स्वात्मश्रेयोर्थं श्रीजीवतस्वामि श्रीसुमतिनाथ-  
विं० पूर्णिमापक्षीय ॥ श्रीराजतिलकसूरीणामुप० प्रतिष्ठितं ।

[ ७२ ]

[ 2348 ]

संवत् १५१७ वर्षे माघ व० ७ श्रीज्ञानकीयगठे उपकेशझातीय बाघसीण गोष्ठिक  
सा० नरजा जा० नायकदे पुत्र धरणा जा० धारसदे पु० दीता सहितेन स्वपुण्यार्थं श्री-  
शीतलनाथविंबं कारितं प्रति० ज० श्रीधनेश्वरसूरिजिः शुभं श्रीनाणगणीयः श्री ॥

[ 2349 ]

संवत् १५१७ वर्षे कार्तिक सुदि १२ शुके श्रीश्रीमालझातीय गा० व्यव जगमाल  
सुत सूर जा० राजसदे सुत ५ व्यव० जाणु राणु मोडु कुंगर लषमणजिः पितृमातृ-  
श्रेयसे श्रीश्रीसुविधिनाथविंबं कारितं श्रीपूर्णि० प्रधानशाखा श्रीजयप्रजसूरीणामुपदेशेन  
प्रतिष्ठितं कारेरी वास्तव्य ॥

[ 2350 ]

संवत् १५१७ वर्षे माघ वदि ६ शुके श्रीश्रीमालझा० व्य० बाठा जा० वजसदे  
सुत जोजा जा० रही ॥ ज्ञातृ धर्मसी सहितेन पि० विरू थान० सा० पि० श्रे० श्री-  
शांतिनाथविंबं का० प्र० श्रीपिप्पलगठे श्रीउदयदेवसूरिपठे श्रीरत्नदेवसूरिजिः ॥ १ ॥  
मांडळी वास्तव्य

[ 2351 ]

संवत् १५२१ वर्षे वैशाख सुदि ५ सोमे ॥ श्रीश्रीशिवशंशे ॥ लालनशाखायां ॥ श्रे०  
मेळीग जार्या मणकदे पुत्र श्रे० मांका सुभावकेण जार्या भुरावे पुत्र वेपाल हरदास  
परवत सहितेन स्वश्रेयोर्थं श्रीशंभुगठेश्वर श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीसुमति-  
नाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं ॥ श्रीसंघेन ॥

[ ७३ ]

[ 2352 ]

॥ संवत् १५३३ वर्षे वैशाख वदि ५ रवौ उषवाखडातीय नंरवाणेवागोत्रे जिनदे  
जा० हीरावे पु० कन्ह्या जा० प्रेमा भाविकया आत्मपुण्यार्थं श्रीसुविधनाथार्षि० का०  
प्र० श्रीसावदेवसूरिजिः ॥

[ 2353 ]

॥ संवत् १५३४ वर्षे वै० व० १० सुरतवासि प्राग्वाट वय० धर्मा जा० राजू सुत  
वद्यवीर चा० जरी नाम्न्या सुत महाकेन कुंडुंबयुतेन श्रीसुमतिर्विंबं का० प्र० तथा  
श्रीलक्ष्मीसागरसूरिजिः ॥

[ 2354 ]

॥ संवत् १५३४ वर्षे ज्येष्ठ सु० १० सोमे श्रीजकेशवंशे लूणियागोत्रे सा० सांजा  
चार्या लासू पुत्र सा० मेहाजन्न सा० मेशा सा० तोला सा० धर्मसी प्रमुखैः स्वपुण्यार्थं  
श्रीवासुपुज्यार्षिंबं का० प्र० श्रीखरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिपढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2355 ]

संवत् १५३५ वर्षे वैशाख वदि ७ सो० श्रीश्रीमालडातीय श्रे० वस्ता जा० नाकू  
सुत श्रे० जेसा बीमा नागा पितृमातृश्रेयोर्यं श्रीश्रेयांसनाथार्षिंबं कारितं प्रतिष्ठितं  
श्रीनागेंद्रगढे श्रीगुणदेवसूरिजिः ॥ ताल्लध्वजे ॥

[ 2356 ]

सं० १५३५ वर्षे माघ सु० ५ गु० डीसा० श्रे० जूठा जा० अमकू सु० म० जोजा-  
केन जा० अमकू सु० नाथा जा० बदूयादिकुंडुबधेयसे श्रीश्रीअनंतार्षिंबं का० प्र० लक्ष्मी-  
सागरसूरिजिः ॥

[ ७४ ]

[ 2357 ]

संवत् १५३६ वर्षे फा० सुदि २ दिने ऊकेशवंशे आयरीगोत्रे । सा० महिराज सा० ह्यू पुत्र धणदत्त सुश्रावकेण सा० वीढू पुत्र कर्मा पासादियुतेन श्रीशीतलनाथविंबं कारितं । श्रीखरतरगछे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं । चेला लिषि ॥

[ 2358 ]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने श्रीऊकेशवंशे सा० जारा जार्या वरसणि पुत्र सा० जयसिंघ जार्या करमाई युतेन श्रीवासुपूज्यविंबं कारितं । प्रतिष्ठितं श्री । खरतरगछे श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः । श्रीः ।

[ 2359 ]

संवत् १५३७ वर्षे वैशाख सुदि ७ दिने श्रीऊकेशवंशे सुब्रह्मगोत्रे सा० उदयसी सुश्रावकेण पुत्र सूरु जार्या हानू प्रमुख परिवारयुतेन श्रीवासुपूज्यविंबं कारितं प्र० श्रीखरतरगछे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टाशंकार श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः ॥ श्रीवगतटमरौ

[ 2360 ]

॥ संवत् १५५६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ७ शुके श्रीश्रीमद्वंशे सा० जीमसी जा० । गांगी पुत्र सा० मेहाजल सुश्रावकेण जा० । जावल पु० सा० पूना कीकायु ज्ञातु साह वाहड सहितेन ज्ञातुः सा । वीका कंसा पुण्यार्थ श्रीमदंचलगछेश्वर श्रीतिळांतसागरसूरीणा-मुपदेशेन श्रीसुमन्निनाथविंबं कारितं श्रीसंघेन श्रीपारस्कर नगरे ॥

[ 2361 ]

॥ संवत् १५५७ वर्षे माघ सुदि ५ गुरौ ऊकेशवंशे सा० देपा जा० हांपू पुत्र सा०

[ ८५ ]

समधरेण जार्या कीनाई पु० रीडा प्रमुख परिवारसहितेन ज्ञातु जाना पुण्यार्थ श्री-  
कुंथुनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनहंससूरिजिः ॥ श्री ॥

[ 2362 ]

संवत् १५५८ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरौ श्रीऊकेशवंशे कांकरीयागोत्रे सा० लूजा  
जा० गंगादे पुत्र सा० हर्षा जार्या रोहिणि पु० । सा० केला वेला विसल परिवार-  
युतेन श्रीअजितनाथबिंबं कारितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनहंससूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2363 ]

॥ सं० १५९३ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीश्रीमालझानोय श्रे० चुधा जा०  
अधकू सुत तेजा जा० माई सुत गोरा कडुआ सहितेन पितृमातृनिमित्तं आरम-  
श्रेयसे श्रीआदिनाथबिंबं का० प्र० श्रीब्रह्माणगळे श्रीबुद्धिसागरसूरिपट्टे गडनायक श्री-  
विमलसूरिजिः बाजणुआ वास्तव्य ॥

[ 2364 ]

॥ संवत् १५९५ वर्षे आसोज सुदि ९ दिने ऊकेशवंशे गोलवठागोत्रे सा० वीरम  
जार्या श्रीधर्मा पुत्र वयरा चोला सूजादिपुत्रपौत्रादिपरिवृतेन श्रेयार्थं श्रीशांतिनाथबिंबं  
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनहंससूरिजिः ॥

[ 2365 ]

सं० १५९९ वर्षे फागुण वदि ६ सोमे ओलशाषा हूगड । .....पुत्र सुरजण जार्या  
स्वरूपदे पुत्र । म० करणा पोसा आंबा पितृ श्रेयसे श्रीआदिनाथबिंबं कारापितं श्री  
श्रीजयः..... ॥

[ २६ ]

[ 2366 ]

॥ संवत् १५७० वर्षे माघ वदि ७ रवौ श्रीउसवासकातीय ज० जगू ज० सहस्र-  
मह सुकुटुंबयुतेन श्रीमुनिसुव्रतविंबं कारितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनसमुद्रसूरिपदे श्री-  
जिनहंससूरिजिः प्रतिष्ठितं जेसखमेर वास्तव्य ॥

[ 2367 ]

ॐ ॥ संवत् १५७९ वर्षे माघ सुदि ४ श्रीऊकेशवंशे सा० ताडहण पुत्र सा०  
चोजा पुत्र सा० वणरा सहितेन सा० वडाकेन त्रातृ कम्मा पुत्र हांसा धन्ना सहसा  
परिवृतेन स्वपुष्पार्थं श्रीनेमिनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनराजसूरि-  
पदे श्रीजिनजडसूरिजिः ॥

[ 2368 ]

॥ संवत् १५७१ वर्षे माघ वदि षष्ठी बुधे श्रीउपकेशवंशे ठाजहडगोत्रे मंत्रि काळू  
जा० करमादे पुत्र मं० रादे ठाहडा नयथा सोना नोडा पितृ । मातृभेयसे श्रीसुमति-  
नाथविंबं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनहंससूरिजिः ॥

[ 2369 ]

ॐ ॥ सं० १५९३ वर्षे शाके १४५७ प्रवर्त्तमाने महासाङ्गव्यप्रद श्री माह व० प्रति-  
पदादिने गुरौ पुष्यनक्षत्रे ॥ श्रीवापनागोले सा० माखा पु० वरहवा जा० तिरियादे  
निमित्ते श्रीकुंभुनाथविंबं कारितं ज० श्रीजिनमाणिक्यसूरिजिः ॥

[ 2370 ]

संवत् १६१७ वर्षे माघ सुदि १३ रवौ श्रीसुमतिनाथ राईधानपुर वास्तव्य श्रीश्री-

[ ७९ ]

माझीक्यातीय मुद्दवणा नातरंगा जार्या बमह(?)बाई सुत करमसी धरमसी करत धी-  
तपागळे श्रीविजयदानसूरिजिः ॥

[ 2371 ]

संवत् १६१७ वर्षे माघ सुदि १३ रवो श्रीवासुपूज्य राधनपुर वास्तव्य श्रीधीमाझ-  
क्यातीय महं आना जार्या वा० अहिवदे प्राता दत्ता जार्या वा० देमा सु० पुपति  
जाणा साणा कारितं धीतपा श्रीविजयदानसूरिजिः ॥

[ 2372 ]

संवत् १६१६ फागुण वदि ७ सोमे उसवंशे धीयागोत्रे सा० दोना जार्या .....  
सा० पेवा जार्या मनरंगदे सुत नरबद धीतपागळे सिरोमणि श्रीहीरविजयसूरि प्रति-  
ष्ठितं श्रीसंजवनाधिविं कारितः धीस्तंजतीर्थ धीसंजाते नगरं प्र०..... ।

[ 2373 ]

॥ संवत् १६४६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ९ सोमे उकेशवंशे सा० धीरजी नान्हा सुत  
सूरजी युतेन धीअचिनंवनधिवं प्रतिष्ठितं..... ।

[ 2374 ]

संवत् १६७३ वर्षे आसाढ व० ४ जेसुधमेरु वास्तव्य को । देवा सुत कोकवाकेन  
धीधर्मनाधिविं कारितं प्रतिष्ठितं च तपायुष्मधियज न्हारक धीविजयदेवसूरिजिः ॥

[ 2375 ]

.....धीनाणकीवगळे सा० धीमड जा०.....पुत्र कीकन.....पितृधेयसे धी-  
शांतिनाथः का० प्र० धीसिद्धसेनसूरिजिः ॥



[ ७७ ]

[ 2376 ]

सं०.....पितृमातृश्रेयोर्थं श्रीसुमतिनाथबिंबं का० प्र० श्रीनगेंद्रगण्डे  
श्रीगुणदेवसूरिजिः ॥ कमरामी वास्तव्य

[ 2377 ]

.....नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिंबं कारितं श्रीरत्नसिंहसूरिजिः  
प्रतिष्ठितं ॥

[ 2378 ]

.....श्रीचंद्रप्रजबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविजयसेनसूरिजिः तपागण्डे ॥

[ 2379 ]

सं०.....अषाढ व० ८ कोरंटकगण्डे जांषदेव जार्या जासू पुत्र चाहड़देव गीदा  
जगदेव पासदेव पार्श्वनाथप्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्रीककसूरिजिः ॥

[ 2380 ]

श्रीब्रह्माण्डगण्डे.....सा उत्तम सुत सा० आहूष सा०.....दुर्लभ  
देव्या कारिता ॥

[ 2381 ]

.....श्रीसुविधिनाथबि० प्र० श्रीदेवगुप्तसूरिजिः ॥



[ ७८ ]

## श्री शीतलनाथजी का मंदिर ।

मूर्तियों पर ।

[ 2382 ]

संवत् १५१० वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ दिने उकेशवंशे संखवाल्लगोत्रे सा० केदहो जार्या केदहणदे श्राविकया.....चं० धन्ना पुत्र मालादिपरिवारसहितया शांतिनाथबिंबं कारितं प्र० श्रीजिनचंद्रसूरिजिः । श्रीकीर्तिरत्नसूरि प्रमुख परिवारसहितैः ॥

[ 2383 ]

सं० १५१० वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ दिने संखवाल्लगोत्रे सा० जेठा पुत्र ..... चांपादि-परिवारस० स्वमातृ जसमादे पुण्यार्थं श्रीसुमतिबिंबं कारितं.....खरतरगळे श्री-जिनचंद्र .....

[ 2384 ] \*

ॐ संवत् १५१० वर्षे वैशाख मासे धवलपक्षे १० दिने श्रीजिनचंद्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं । संखवाल्ल सा० लषा पुत्र कुंझा जार्या चो० ठाकुरसी पुत्र्या नभ्यकदे श्रा० नेमिबिंबं कारितं ॥

\* पोले पाषाण की मूर्ति के चरणबौकी पर का यह लेख है ।

[ ९० ]

पट्टिका पर ।

[ 2385 ] †

ॐ संवत् १६७९ वर्षे माघ सु० ४ दिने शनिवासरे श्रीचतुर्विंशति जिनेन्द्रपट्टकः  
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छावतंस श्रीजिनदत्तसूरि क्रमेण श्रीजिनदत्तसूरि तदंशे मुक्ता-  
मणि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनकुशलसूरि श्रीजिनपद्मसूरि श्रीजिनस्रब्धिसूरि श्रीजिन-  
चंद्रसूरि श्रीजिनोदयसूरि श्रीजिनराजसूरि तत्पट्टास्रंकारहारैः श्रीजिनचंद्रसूरिजिः  
कारितं श्रीजकेशवंशे कागाशाषायां सा० करमा पु० सा० लूणा साहड़ मूखू महणा  
देव्याः तन्मध्ये साहड़ पुत्राः पंचाचवन सा० जोजा जगसिंह हेमा मोहण आढहाख्याः  
ततः मूखू पुत्राः पंच .....

[ 2386 ]

.... स्वचार्या शृंगारदे पुण्यार्थं शत्रुंजयगिरनारावतारपट्टिका .....

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2387 ]

सं० १३३३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शुके प्राग्वाटकातीय व्य० पूनपास सुत लूह-  
वयणकेन पितृ ..... प्र० ..... सूरिजिः ॥

[ 2388 ]

सं० १३४९ वैशाख सु० १ प्राग्वाटकातीय सा गेढहा ..... चतुर्विंशतिपट्टः.....  
..... प्र० ..... सूरिजिः ॥

† श्वेत पाषाण की २४ मूर्तियों सहित पट्टिका पर यह लेख है ।

जैसलमेर - श्री शीतलनाथ मंदिर ।  
श्री शत्रुञ्जय गिरनारावतार पट्टिका ( नं० २३८६ )



SHATRUNJAYA GIRNARAVATAR PATTIKA.  
SHRI SHITALNATH TEMPLE - JAISALMER

[ ९१ ]

[ 2389 ]

ॐ संवत् १३९९ मार्ग० वदि ५ प्रभु श्रीजिनचंद्रसूरिशिष्यैः श्रीजिनकुशलसूरिजिः  
श्रीशांतिनाथबिंबं प्रतिष्ठितं कारितं च सा० पूना पुत्र सा० सहजपाल पुत्रैः सा०  
बाबल गवधर धिरचंद्र सुभ्रावके स्वपितृ पुण्यार्थं ॥

[ 2390 ]

संवत् १४५६ वर्षे माघ सुदि ३ शनौ उपकेशज्ञातीय पितामह सीहा पितामही  
स्त्रीमिणी पितृ कमूच्या मातृ नादह श्रेयसे पुनपाल साहिनीराजैः श्रेयसे श्रीपद्म-  
प्रजबिंबं कारितं प्र० श्रीसूरिजिः ॥ शुभं ॥

[ 2391 ]

सं० १४७५ वर्षे वैशाख सुदि ३ बुधे उपकेशज्ञातौ बप्पनागगोत्रे सा० कुडा  
पुत्र सा० साजणेन पित्रोः श्रेयसे श्रीचंद्रप्रजबिंबं का० प्र० श्रीउपकेशगळे ककुदा-  
चार्यसंताने श्रीसिद्धसूरिजिः ॥

[ 2392 ]

सं० १४९३ वर्षे फा० वदि १ दिने श्रीज्जकेशवंशे बहुरागोत्रे सोमण सुत धनसा  
श्रेयोर्थं श्रीश्रेयांसबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2393 ]

सं० १५१९ वर्षे कार्तिक सु० १३ जौमे श्रीश्रीमालज्ञा० श्रे० केदहा जा० गांगी  
पु० जसा चार्या मेचू सुत गणीच्या निरिच्या मेहा सहितेन पि० मा० चातृ श्रेयोर्थं  
श्रीधर्मनाथबिंबं का० प्र० पिप्पलग० ज० श्रीश्रमरचंद्रसूरिजिः सिरधरग्रामे वास्तव्य ॥

[ ९१ ]

[ 2304 ]

संवत् १५३५ वर्षे मार्ग० सुवि ६ शुक्रे ॥ श्रीश्रीवंशे श्रे० रामा चार्या रंजसदे पुत्र श्रे० नीनाकेन चार्या गोमती च्रातृ श्रे० नंग महाराज सहितेन पितुः पुण्यार्थ श्रीशंवलगणेश्वर श्रीजयकेसरीसूरीणामुपदेशेन श्रीश्रेयांसनाथविंशं का० प्रतिष्ठितं संज्ञेन वीचीयाडी ग्रामे ॥

[ 2305 ]


सं० १५३५ वर्षे माघ वदि ९ शनौ प्राग्वाट ककरावासी व्य० वस्ता जा० वीढ्द-णदे सुत पूजाकेन जा० सोजागिनी पुत्र पर्वत जा० छाया धृतादिकु० स्वश्रे० श्री-शंजवर्षिषं का० प्र० तपा श्रीलक्ष्मीसागरसूरिजिः ॥

[ 2306 ]

सं० १५३६ वर्षे फा० सु० ३ दिने श्रीजकेशवंशे कूकड़ाचोपड़ागोत्रे श्रे० लाखण जा० लखमादे पु० स० महणाकेन सामहि० जा० माणिकदे पु० धन्ना वन्नादिसुतेन श्रीसुमतिनाथविंशं कारि० प्रति० श्रीखरतरगणेशे श्रीजिनजडसूरिपट्टे । श्रीजिनचंद्र-सूरिजिः ॥ श्रीजिनसमुद्रसूरिजिश्च ॥

[ 2307 ]

॥ संवत् १५६० वर्षे माह सु० ४ दिने जकेशवंशे कांकरियागोत्रे सा० रुमा पुत्र सा० मूका जा० तारादे पुत्र राउल जा० रगीदे पुत्र हमीरादिपरिवारसहितेन श्रीनमिनाथविंशं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगणेशे श्रीजिनहंससूरिजिः ॥



[ ९३ ]

## श्री ऋषभदेवजी का मंदिर ।

मूर्तियों पर ।

[ 2398 ] \*

सं० १५२२ माघ सु० १२ श .....

[ 2399 ] †

संवत् १५३६ फागुण सु० ५ दिने श्रीजकेशवंशे गणधरगोत्रे सं० सच्चा पुत्र सं० धन्ना जा० धारसदे पुत्र सं० क्षाषाकेन पुत्र रत्ना युतेन जा० साठसदे पुण्यार्थं सुपार्श्व विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखर० गढे श्रीजिनचंद्रसूरिपदे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः ॥

[ 2400 ] ‡

॥ ॐ ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीजकेशवंशे गणधरचोपड़ा गोत्रे सा० पासड जार्या प्रेमसदे पुत्र सं० जीवंद सुश्रावकेण जार्या जीवादे पुत्र सा० सद्धा धीरा । श्यावा । हरषा प्रमुख परिवार सश्रोकेण श्रीमरुदेवा स्वामिनो मूर्तिः कारिता प्रनि० श्रीखरतरमढे श्रीजिनचंद्रसूरिपदे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥ श्रीजेससमेरु महादुर्गे ॥ श्रीदेवकर्णविजयराज्ये ॥

\* यह एक छोटी मूर्ति पर का लेख है ।

† दीडे पाषाण की मूर्ति पर यह लेख है ।

‡ संवत् १५३६ के बार्हस्पत्ये तर्क पीले पाषाण के हाथी पर श्रीमरुदेवी माता की हाथ जोड़े बेटी हुई मूर्ति के पीठ पर यह लेख खुदा हुआ है ।

[ ९४ ]

[ 2401 ]\*

- ( १ ) ॥ संव० १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ जौमवासरे श्रीउपके
- ( २ ) शवंशे ठाजहड़गोत्रे मंत्रि फलधरान्वये मं० जूठिख पुत्र मं० का-
- ( ३ ) लू जा० कर्मादे पु० नयणा जा० नामखदे तयोः पुत्र मं
- ( ४ ) सीहा जार्यया चोपडा सा० सगा पुत्र सं० जिनदत्त जा० लषाई
- ( ५ ) पुश्या श्राविका अपुरव नाम्न्या पुत्र समधर समरा संडू सहि
- ( ६ ) . तथा स्वपुण्यार्थ श्रीआदिदेव प्रथम पुत्ररत्न प्रथम चक्रवर्ति
- ( ७ ) श्रीजरतेश्वरस्य कायोत्सर्गस्थितस्य प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठि
- ( ८ ) ता श्रीखरतरगण्डमंडन श्रीजिनदत्तसूरि श्रीजिनकुशलसू-
- ( ९ ) रिसंतानीय श्रीजिनचंद्रसूरि पं० श्रीजिनेश्वरसूरिशाखायां । श्री ॥
- ( १० ) जिनशेखरसूरिपदे श्रीजिनधर्मसूरिपहालंकार श्रीपूज्य
- ( ११ ) ( श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥ श्रीः ॥ श्राविका सूरमदे कारापिता )

[ 2402 ]†

- ( १ ) सं० १५३६ फा० सु० ५ श्री जकेशवंशे
- ( २ ) वैदगोत्रे मं० सुरजण पुत्र मं० कठझा-
- ( ३ ) केन जा० रत्नु पुण्यार्थ मु० शिवकर युते-
- ( ४ ) न श्रीबाहूबलिमूर्तिः कायोत्सर्गस्था
- ( ५ ) कारिता प्रति० श्रीजेसलमेरुडुर्गे गण-

\* यह लेख दाहिने तर्फ विशाळ मूर्ति के वरण चौकी पर खुदा हुआ है ।

† यह लेख बाईं तर्फ श्रीबाहूबलजी की कायोत्सर्ग मुद्रा में बड़ी विशाल मूर्ति के वरणचौकी पर खुदा हुआ है ।



[ ७५ ]

- ( ६ ) धर चोपड़ा से० धर्मा कारिन प्रतिष्ठायां  
( ७ ) श्रीखरतरगळे श्रीजिनचंद्रसूरिपटे  
( ८ ) श्रीजिनचंद्रसूरिजिः श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः.....

पट्टिका पर ।

[ षट्तिने तर्क ]

[ 2403 ]

संवत् १५३६ वर्षे फागु० सुदि ५ दिने श्रीऊकेशवंशे गणधरचोपड़ागोत्रे सं० पासड  
जार्या प्रेमछदे पुत्र सं० जीबंद सुश्रावकेण जार्या जोवादे पुत्र सा० सद्धा सा० धीरा  
सा० आंबा सा० हरषा पौत्र सा० रायमह्व सा० आसकर्ण सा० उदयकर्ण सा०  
पारसादिपरिवारसहितेन जगिनी आ० पूरी पुण्यार्थ श्रीछाससतिजिनवरेंद्रपट्टिकां  
कारिता प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगळे श्रीजिनचंद्रसूरिपटे पूर्वाचक्षसहस्रकरावतार श्रीजिन-  
चंद्रसूरिजिः ॥ तत् शिष्यराज श्रीजिनसमुद्रसूरिजिश्च ॥ श्रीशुभं चूयात् ॥

[ 2404 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीमहूकेशवंशे । श्रीवांठियागोत्रे  
सा० गांगा जार्या । आविका सोहग पुत्र धाडी वाहा सा० रडिया जार्या आविका  
देवछदे पुण्यार्थ पुत्र सा० हांमा सुश्रावकेण जार्या आविका हांसखदे पुत्र सा० मंड-  
लिक सा० ईसर सा० कूरां प्रमुख सारपरिवार सश्रीकेण ससतिशतजिनवरेंद्रपट्टिका  
कारयांचक्रे । प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे । श्रीवर्द्धमानसंताने । श्रीजिनदत्तसूरि श्रीजिन-  
चंद्रसूरि श्रीजिनपत्तिसूरि श्रीजिनेश्वरसूरि श्रीजिनप्रबोधसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्री-

[ ७६ ]

जिनकुशलसूरि श्रीजिनपद्मसूरि श्रीजिनव्रद्धिसूरि श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनोदयसूरि  
श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनजडसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजेसखमेरुमहापुर्गे श्रीदेव-  
कर्ण राजस विजयराज्ये श्रीगणधरचोपड़ा प्रासादे स्वपुत्रि .....  
..... शुभं जवतु

[ 2405 ]

ॐ संवत् १५३६ वर्षे फागुण वदि ५ दिने श्रीजकेशवंशे श्रीगणधरगोत्रे सं० पासड  
चार्या प्रेमलदे पुत्र सं० जीवंद सुभावकेण सं० समधर जा० वरजू पुण्यार्थं द्विसति  
जिनपट्टिका कारिता प्रतिष्ठिता खरतर श्रीजिनजडसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्र .....

[ बाईं तर्फ ]

[ 2406 ]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीजकेशवंशे श्रीगणधरचोपड़ागांत्रे सा०  
नाथू पुत्र सं० लक्षा चार्या सं० सिंगारदे पुत्र सं० जीमसी सुभावकेण चार्या  
श्रा० राजलदे पुण्यार्थं पुत्र सा० सूरु सा० सामन्न सा० सरवण सा० कर्मसी जा०  
सुरजदे चार्या सांमलदे प्रमुखे संसार परिवारसहितेन श्रीविंशतिविरहमाण श्रीजिन-  
वरेन्द्रपट्टिका कार्याचक्रे । प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगठे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीमत् श्री-  
जिनजडसूरिपट्टाखंकार सार श्रीजिनचंद्रसूरिजिः । तद्विष्य श्रीजिनसमुद्रसूरि श्रीगुण-  
रत्नाचार्य श्रीसमयजक्तोपाध्याय वा० मुनि सोमगणि प्रमुख साधु परिवार सहितेन  
श्रीजेसखमेरुपुर्गे श्रीदेवकर्णेश्वरराज्येदं कारितं प्रासादे मंडिता पूज्यमाना चिरं  
नेदतु ॥

[ ९७ ]

चौबीसी पर ।

[ 2407 ]

सं० १५०६ वर्षे माघ वदि ७ बुधे श्रीश्रीमालहातीय व्य० वरपात्र जा० वीरह-  
णदे सु० व्य० लाडण जा० मामूं सु० व्य० पासाकेन जा० जांऊण जा० थिरपा-  
लादि सर्वकुटुम्बसहितेन श्रीत्रिमलनाथादिचतुर्विंशतिपटं स्वपितृश्रेयोर्थं श्रीपूर्णिमापक्षे  
श्रीवीरप्रचसूरोणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च त्रिभिना ॥ श्रीः ॥ तरजद्र ॥

पंचतीर्थी पर ।

[ 2408 ]

॥ सं० १५६४ वर्षे वैशाख वदि ७ शनौ उपकेशज्ञा० ठा० गोत्रे जूठिल वं० मं०  
निणा जा० नामलदे पु० मं० सीहा जा० सूरमदे पुत्र मं० समधर जा० सकादे पुत्र  
सदारंग कीका युते पुण्यार्थं श्रीश्रेयांसनाथबिंबं का० श्रीख० गछे श्रीजिनचंद्रसूरिपटं  
श्रीजिनमे० सूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

समोसरण पट्ट पर ।

[ 2409 ]\*

( १ ) ॥ ॐ ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीऊकेशवंशे श्रीगणधर-  
चोपडागोत्रे सं० नाथू पुत्र सं० सखा जार्या शृंगारदे पुत्र सं० जिनदत्त  
सुश्रावकेण जार्या सखाई पुत्र अमरा श्रावर पौत्र हीरादियुतेन श्रीसमव्रसरणं  
कारितं

\* मंदिर के दाहिने तरफ स्तंभ पर तीसरे प्राकार सहित यह पट्ट है । इसके प्रत्येक प्राकार में यह लेख खुदे हैं ।

[ ९७ ]

- ( २ ) प्रतिष्ठितं भीमत् भीखरतरगठे भोजिनेश्वरसूरिसंताने भीजिनकुशसूरि  
भीजिनपद्मसूरि भीजिनसम्भिसूरि भोजिनराजसूरि भीजिनजडसूरिपठे भी-  
जिनचंडसूरि शिष्य  
( ३ ) भीजिनसमुद्रसूरि प्रमुल सहितैः भीदेवकर्ष राज्ये ॥



## श्री महावीरस्वामी का मंदिर ।

शिखाखेल ।

[ 2410 ] †

ॐ सं० १४९३ वर्षे सं० कीहट स० देवदत्त ठसजदत्त धामा कान्हा जीवद  
जगन्मास स० कपूरी माड्दणदे कर्मी प्रमुल परिवारेण स्वपुण्यार्थ देवसहिहा कारिता ॥

चौबीसी पर ।

[ 2411 ]

संवत् १४९४ वर्षे ठ० चा प्र ... दीता जा० देवस पु० गुणसेन जा० शुद्धे  
निमित्तं भीसुविधिनाथविषं कारापितं प्रतिष्ठितं उपकेशगठे जडारक भीसिद्धसूरिजिः ॥  
बापमार ज्ञातीय ॥

† बापल जिलास्य के द्वार के ऊपर के भाग पर यह लेख है।

[ ७७ ]

[ 2412 ]

सं० १५१५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीसूराणागोत्रे सा० मुखिचंद पु० सं०  
जिह्वदेव चार्या जयतल्लदे पुत्र रा० कामाकेन आत्मपुण्यार्ष श्रीकुंथुनाथादिचतुर्विंशति-  
जिनपट्टः कारितः प्रति० श्रीधर्मघोषगठे श्रीपद्मशेखरसूरिपट्टे श्रीपद्मानंदसूरिजिः ॥

[ 2413 ]

सं० १५११ वर्षे वैशाख सु० ३ श्रीश्रीमाहझातीय मं० बीका जा० बाबू सुत  
समभर जा० सूहृषदे सुत देवदासेन ज्ञातृ अदा घोषर कुटुम्बयुतेन स्वभ्रेयोर्ष श्री-  
सुमतिनाथादिचतुर्विंशतिपट्टः कारितः प्रतिष्ठितः पूर्णिमापक्षे श्रीमहीतिलकसूरिपट्टे श्री-  
गुणतिलकसूरिजिः वाराही वास्तव्य ॥ श्रीः ॥

बंधतीर्थियों पर ।

[ 2414 ]

ॐ सं० ११७१ ज्येष्ठ वदौ ६ शुक्रवारे श्रीअजितदेवाचार्यैः प्रतिष्ठिता भे० प्रमत्त  
पाहिगणि डुहिता जिहा सुत ब्रह्मदत्त चार्या सोहिधि भाविका निमित्तं प्रयत्नेन  
...दानेन कारिता ।

[ 2415 ]

ॐ सं० १११६ माघ सुदि १३ गुरौ सरवाखगठे श्रीवर्द्धमानाचार्यसंताने रावड  
पुत्र माण्डू तथः चार्या वाखेवि(?) सहितेन सुत वेदा कवडि आक्षयकेन आत्मभ्रे-  
योर्ष कारिता ॥

[ १०० ]

[ 2416 ]

सं० १३३९ वर्षे श्रे० सोमसीह जाया हांसल पु० जयतसीह जमसीह कुथरसीह-  
प्रभृतिजिः पितृश्रेयोर्थ श्रीनेमिनाथबिंबं कारितं प्रति० श्रीचैत्रगणीय श्रीधर्मदेव-  
सूरिजिः ॥

[ 2417 ]

॥ सं० १४९३ वर्षे । माघ व० २ खोढागो० मूंगर पु० सा० हादाकेन सयणाकेन  
स्वश्रेयोर्थं प्र० रुद्र० श्रीहर्षसुंदरसूरिजिः ॥

[ 2418 ]

संवत् १४५२ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरौ श्रीआंचलग्हे श्रीनेरुतुंगसूरीणामुपदेशेन  
सं० आढहा सुत सं० लषमासीह युतेन सं० वोडाकेन पितृ...सं० पासड़ श्रेयोर्थं श्री-  
वासपूज्यबिंबं कारितं श्रीसूरिजिः प्रतिष्ठितं च ॥

[ 2419 ]

सं० १५०० प्राग्वाट् व्य० रुदा ज० ऊझी पु० रणसिंहेन जा० पूरी ज्ञा० धणसी  
गुणा च तथादि कुटुंबवृत्तेन निज श्रेयसे श्रीसुमतिबिंबं कारि० प्र० तथा श्री-  
रत्नशेखरसूरिजिः ॥

[ 2420 ]

सं० १५१२ वर्षे माघ सुदि ५ सोमे ऊकेशवंशे सा० मूला जा० जामणि पु०  
उठर आङ्गेन जा० अहिवदे पु० महिपाल तेजसी रोहा सहितेन स्वश्रेयसे श्री-  
अंचलग्गनायक श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीविमलनाथबिंबं कारितं ॥ प्रतिष्ठितं  
संधेन ॥

[ १०१ ]

[ 2421 ]

॥ सं० १५१९ आषाढ वदि १ (?) मंत्रिदलीयवंशे काणागोत्रे उ० लीधू जा० धरमणि  
पु० सं० अचलदासेन स्वपुण्यार्थं श्रीनमिनाथर्षिबंधं का० उसीयडगोत्रे उ० वीरनाथ  
जा० तिलोकदे पु० उ० करणस्य दत्तं च प्र० श्रीखरतरगण्डे श्रीजिनहर्षसूरिजिः ॥

[ 2422 ]

॥ सं० १५१९ मा० व० ५ शुके नागरह्यति गोठी लषमा चार्या सारू युतया  
वाट्टही नाम्न्या स्वभ्येसे श्रीमुनिसुव्रतर्षिबंधं कारितं प्रति० श्रीतपापदे श्रीउदयवल्हज-  
सूरिजिः श्रे० समधर धीरा विराडा वासी ।

[ 2423 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५२० वर्षे आषाढ सुदि २ सोमे ऊकेशवंशे सांढूशाखायां सा०  
बोहिस्र जा० रोहिणि पुत्र सा० शिवराजेन जा० सूइवादे पुत्र सा० माळा सा०  
वाळादियुतेन श्रीकुंथुनाथर्षिबंधं कारि० प्र० श्रीखरतरगण्डेश्वर श्रीजिनचंद्रसूरिपदे श्री-  
जिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2424 ]

॥ संवत् १५३० वर्षे चैत्र वदि ६ गुरौ ॥ श्रीऊपलवंशे सा० धीरण चार्या आनू  
पुत्र बोमाकेन चार्या पोमादे चातृ सुरा सीहा सहितेन चा० चापा भ्येसे श्रीध्वंवल-  
गण्डेश्वर श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीसुविधिनाथर्षिबंधं कारितं प्रतिष्ठितं संघेन ।

[ 2425 ]

संवत् १५३५ वर्षे फा० सु० ३ दिने ऊकेशवंशे तातहडगोत्रे सा० धन्ना जा०

[ १०२ ]

रथणा पुत्र सा० मूखकेन जा० रत्नाई नांगू पुत्र रिक्खा तपुत्र ऊदा सूदा प्र०  
परिवारयुतेन श्रीपार्श्वनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीखरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरि-  
पढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2426 ]

॥ संवत् १५३६ व० फा० सुदि २ दिने चोपडाकूकडागोत्रे स० खाखा जार्या  
खीखादे पुत्र रत्नपाखाजिधेन जार्या वाड्हादे पु० देवदत्तादि पुत्र परिवार स० श्रीकेण  
श्रीअजितनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनचंद्रसूरिपढे श्रीजिनचंद्र-  
सूरिजिः ॥ श्रीजेसखमेरो ॥ चोप० प्रतिष्ठायाः ॥

[ 2427 ]

सं० १५३६ वर्षे फा० सुदि ३ दिने जकेशवंशे जणसाखी सा० रहिया जार्या  
रूपिणि पु० सा० शिषरेण जार्या पाई युतेन श्रीकुंधुनाथविंबं कारितं श्रीखरतरगढे  
श्रीजिनचंद्रसूरिपढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2428 ]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने जकेशवंशे कूकडाचोपडागोत्रे सं० खाषण  
जार्या खषमादे पुत्र सा० सहणकेन जार्या आ० सोहागदे पुत्र सामंता परिवारयुतेन  
श्रीआदिनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनचंद्रसूरिपढे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः शिष्य  
श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः श्री श्री नमः ॥

[ 2429 ]

॥ संवत् १५६३ वर्षे चैत्र वदि ५ शुके श्रीश्रीमाखडा० मं० देपा सुत म० सहिजा



[ १०३ ]

जा० गोमति सु० मं० धर्मण जा० पद्मती सहितेन मातृपितृनिमित्तं आत्मभेयसे  
श्रीपार्श्वनाथविंशं का० प्रतिष्ठितं मधुकरगढे ज० श्रीमुनिप्रजसूरिजिः ॥ धीणगोत्रेय ॥

[ 2430 ]

॥ सं० १५७७ वर्षे वैशाख सुदि ११ गुरौ श्रीश्रीमासज्ञातीय श्रे० हरराज जा०  
हांसी सुत सीमा इर्षाज्यां मातृपितृनिमित्तं श्रीशांतिनाथविंशं श्रीब्रह्माणगढे श्री-  
विमलसूरिजिः जांजरुआ ।

[ 2431 ]

॥ संवत् १६४६ वर्षे मार्गशर सुदि (?) शुके श्रीश्रीमासज्ञातीय मंत्रि वीरधवल  
जा० वारू सु० वेसु सहिजठ वेसा जा० रायाने सु० देषठ जा० गोमति सु० वसु  
स्वपितृमातृनिमित्तं आत्मभेयसे श्रीजीवतस्त्रामिंशं श्रीशीतलनाथचतु० पट्टः कारा-  
पिता श्रीपिप्पलगढे श्रीशुषसागरसूरिपट्टे ज० श्रीश्रीशांतिसूरिजिः ॥

पट्ट पर ।

[ 2432 ] †

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ संवत् १४७३ वर्षे चैत्र सुदि १५ दिने जकेशवंशे डागा जोजा पुत्रेण  
सा० मेहाकेन स्वचार्या सन्नषण पुण्यार्थं ॥
- ( २ ) श्रीचतुर्विंशति तीर्थंकर मातृ पट्टिका कारिता प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगछाखंकार  
श्रीजिनराज-
- ( ३ ) सूरिपट्टाखंकरणेः श्रीजिनवर्द्धनसूरिजिः ॥ जाग्यसूरि प्रजावसूरिजिः ॥

† देवकुलिका में पीछे पाषाण की चतुष्कोण चौकोल जिन माता के पट्ट पर यह लेख है । पट्टकी शिला २ फुट का है ।

[ १०४ ]

गणधर की मूर्ति पर ।

[ 2433 ]\*

- ( १ ) संवत् १६०६ वर्षे पोस वदि ७ दिने
- ( २ ) श्रीगोतमस्वामिमूर्ति कारिता सक-
- ( ३ ) स्र संघेन प्रति० श्रीविजयदेवसूरिजि-
- ( ४ ) रुपदेशात् गर्णि ०० सोमविमस्रगणिजिः ।


पाडुका पर ।

[ 2434 ]\*

संवत् १५७९ वर्षे निगसर सुदि ७ ..... श्रीसंघेन कारितं प्रति०

[ 2435 ]†

संवत् १६७६ वर्षे आश्विन मासे शुक्लपक्षे १५ तिथी सोमवार श्रीजिनकुशलसूरि  
पाडुका वर .....



---

\* समामंडप के दक्षिणे तरफ हाथ में जपमाला सहित सुखासन में बेठी हुई पीले पाषाण की मूर्ति के करणचौकी पर यह लेख है ।

‡ समामंडप के बांये तरफ श्वेत पाषाण के करण पट्ट पर यह लेख खुदा हुआ है ।

† यह लेख दक्षिणे तरफ है ।

[ १०५ ]

## बड़ा भंडार ।

मूर्ति पर ।

[ 2436 ] \*

ॐ संवत् १४०७ वर्षे मार्गसिर वदि ३ दिने श्रीसुमतिर्बिंबं प्रतिष्ठितं श्रीजिनचंद्र-  
सूरिजिः कारितं सं० सहसा जार्या मसी श्रे०


[ 2437 ]

संवत् १५३३ वर्षे फागुण सुदि ३ रवौ उपकेशवंशे ठाजहड़गोत्रे सं० बेगड़ा श्रेयोर्थं  
देवदत्त पुत्र मंत्री गुणदत्त जा० सोमसदे तयोः पुत्रेण धर्मसिंहेन पु० समरथादि  
परिवारस० जा० पुण्यार्थं श्रीनमिनाथर्बिंबं का० प्र० खरतर श्रीजिनधर्मसूरिपदे श्री  
जिनचंद्रसूरिजिः ॥

पट्ट पर ।

[ 2438 ]

सं० १४९३ वै० सु० ३ ऊकेश सा० देवदत्त जार्या देवसदे पुत्र सा० नगराज  
जार्या यशो० रामदे जार्या परमादे पुत्र्या श्रा० लामू नाम्ना श्रीशांतिनाथचतुर्विंशति-  
पट्टः कारितः प्रतिष्ठितः श्रीसूरिजिः ॥



\* यह लेख श्रीसंनमनाथजी के मंदिर के बीच बड़े भंडार में रखी हुई अद्विष्ट पाषाण की मूर्ति के खरण चौकी पर  
लुप्त हुआ है ।

[ १०६ ]

शहर में ।

## श्री विमलनाथजी का मंदिर ।

मूर्तियों पर ।

[ 2439 ] \*

॥ संवत् १६६६ वर्षे पौष वदि ६ भृगुवासरे वृद्धशाखायां ऊकेशजातीय .....  
श्रीविमलनाथबिंबं का० प्र० च श्रीत० श्रीविजयसेन .....

[ 2440 ]

सं० १६१५ वर्षे वैशाख वदि ६ श्रीओसवंशे संखवासगोत्रे सा० राजा पुत्र पंचा-  
येण श्रीपार्श्वनाथबिंबं का० खरतरगछे श्रीज्ञानचंद्रसूरिजिः

[ 2441 ] †

सं० १७३१ वर्षे माघ सुदि ५ बिंबं पदमावती पार्श्वनाथ ..... श्रीवि .. देव  
सूरी जरी ठै ।

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2442 ]

संवत् १५१३ वर्षे मार्गशीर्ष मासे ऊकेशवंशे चौपड़ागोत्रे सा० करमण सुत सा०  
जेसा चार्या मदी पुत्र सा० खोखाकेन चार्या हरषू पुत्रपौत्रादिपरिवारसहितेन श्री-  
धर्मनाथबिंबं कारितं प्र० श्रीखरतरगछे श्रीजिनराजसूरिपद्मे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥ ठ ॥

\* यह मंदिर श्रीमाचार्यगच्छ के उपासने में है और श्रीमूलनाथजी की कथर की मूर्ति पर यह लेख खुदा हुआ है ।

† देवी की मूर्ति पर यह लेख है ।

[ १७७ ]

[ 2443 ]

संवत् १५६७ वर्षे वैशाल सुदि १० ऊकेशवंशे चोपडागोत्रे सा० महणा चार्या  
मेलावे पुत्र सा० धन्नाख्येन सा० सांगणादि पुत्रपरिवारपरिवृतेन श्रीशांतिनाथर्षिबं  
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे श्रीजिनहंससूरिजिः ॥ जेसखमेर वास्तव्य ॥

रौप्य के यंत्रों पर ।

[ 2444 ]

श्री संवत् १७४३ मिति मार्गशीर्ष तृतीयांतिथौ श्रीमद्वृहत्खरतरगळे साहजी  
श्रीतिलोकचंद्रजित्कस्यात्मज सा० श्रीजह्नुर्षिघदासजी श्रीसिद्धचक्र कारापितं । जंगम-  
युगप्रधान चट्टारक श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥ लिखितं पं० ॥ चातुर्यनंदि मुनिना ॥

[ 2445 ]

गट्टो श्रीसिद्धचक्रजी को उमावचंद्र जंदानी की बहू ने आचारजगड का उपासरे  
में चढायो बनायो ठबड़ा में संवत् १७५३ माह सु० १५



## बेगड़गच्छ का उपासरा ।

शिलालेख ।

[ 2446 ] \*

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ ॐ नमः श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ श्रीबागकेशाय नमः
- ( २ ) ॥ संवत् १७०१ वर्षे शाके १६४६ प्रवर्त्तमाने महामांगल्यप्रदो
- ( ३ ) मासोत्तम चैत्र मासे खीलविलासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां ।
- ( ४ ) गुरुवारं उत्तरा फाल्गुनीनक्षत्रे हृद्भिनामयोगे एवं शुभदि-
- ( ५ ) ने श्रीजेसलमेरुगढ़ महादुर्गे राउल श्री ५ अर्षेसिंहजी विजैराज्ये
- ( ६ ) श्रीखरतरबेगड़गछे जहारक श्रीजिनेश्वरसूरिसंताने जहारक
- ( ७ ) श्रीजिनगुणप्रभुसूरिपट्टे ज० श्री जिनेशरसूरि तत्पट्टे जहारक श्री ५
- ( ८ ) जिनचंद्रसूरिपट्टे जहारक श्रीजिनसमुद्रसूरि तत्पट्टाखंकारहार सा-
- ( ९ ) रजहारक श्री १०७ श्रीजिनसुंदरसूरि तत्पट्टे युगप्रधान जहारक श्री
- ( १० ) ७ श्रीजिनउदयसूरि विजयराज्ये प्राज्यसम्राज्ये ॥ श्रीरस्तुः ॥ श्रीः ॥

[ 2447 ] †

- ( १ ) ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १६ चैत्रादि ७३ वर्षे जेठ सुदि
- ( २ ) १५ सोमवारं मूषनक्षत्रे । श्रीजेसलमेरुनगरे राउल श्रीक-

\* उपासरे के बाहर बायें दीवार पर यह शिलालेख लगा हुआ है । G. O. S. के परिशिष्ट में यह प्रथम छपा था परन्तु भ्रमग्रस्त दो नंबर में प्रकाशित किया गया है । नीचे का अंश नं० २० में तथा ऊपर का नं० २१ में है ।

† यह शिलालेख भी वहीं बाहर के दीवार पर लगा है और बीच से टूट गया है । यह G. O. S. के नं० १६ में छपा है ।

जैसलमेर—श्री वेगड़गच्छ उपासरा प्रशस्ति (नं० २४४६)

॥ पु. १३२५०॥ श्री य. घनाशायनमः॥ श्री वाणेश्याकृतः॥  
॥ सन् १००१ वर्षे साकेतं ध्वंसवर्तमाने नल्लक्ष्मीरत्नप्रदे  
मसौ तमचैत्रमासे लीलाविलासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां  
शुक्लपक्षे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रे वृद्धिनामयोगे एयं शुभदि  
ने श्री जेसलमेरगढमहाद्वयैरात्मश्रीयश्वेसंघजीविजैरजे  
श्री च्यतरवेणरगच्छे चहारकश्रीजिनेश्वरसरसंताले चहारक  
श्रीजिनशरणप्रभुसरिपेटे स० श्रीजिनेश्वरसरि तत्वहे चहारक श्रीय  
जिनचैत्रसरिपेटे चहारक श्रीजिनसमुद्रसरित्तगढलक्षारमसरा  
रचहारक श्रीश्रीजिनसुंदरसरित्तत्वहे युगप्रभावसहारकश्री  
श्रीजिनउदयसरि विजयराज्यपादमश्रीत्या॥ श्रीरसु० ॥ श्रीः

SHRI BEGARH GACHHA UPASARA PRASHASTI—JAISALMER.

जैसलमेर - श्री बेगाड़गच्छ उपासरा प्रशस्ति ( नं० २४४७ )

श्रीगणेशाय नमः ॥ संवत् १९६४ ॥ श्री ७२ ववर्षे इति सदि  
 यत्संस्कारस्य नन्दते श्रीजैसलमेरनगरगउलश्रीवर्ष  
 त्याजोदिकययोगे श्रीवर्षनगडगलेदिस्रिजिनेसरादि  
 तिजयराजनाजडुभोचैकुंठलधरावयामरीवेगड ७२३७  
 सरा नसुत्रमदपरम ७२३७ श्रीगणेशाय नमः ७२३७ ७२३७  
 पकमाधुरस्य ७२३७ श्रीगणेशाय नमः ७२३७ ७२३७  
 स्त्रीया ७२३७ श्रीगणेशाय नमः ७२३७ ७२३७  
 वीकरसीप्रदेक रमणीयसी ७२३७ ७२३७  
 सदिगजापिया ७२३७ श्रीगणेशाय नमः ७२३७  
 नउम ७२३७ श्रीगणेशाय नमः ७२३७ ७२३७

SHRI BEGARH GACHHA UPASARA PRASHASTI - JAISALMER.



[ १०९ ]

- ( ३ ) छायाजी विजयराज्ये । श्रीखरतरवेगङ्गोत्रे । ज्ञ० श्रीजिनेश्वरसूरि  
( ४ ) विजयराज्ये । राजहङ्गोत्रे । मं० कुसुधरान्वये । मंत्री वेगङ्ग । पुत्र मं०  
( ५ ) सूर । तत्पुत्र मं० देवदत्त । पुत्र मंत्री गुणदत्त । तत्पुत्र मं० सुरजन । मं०  
( ६ ) बकमा । धरमसी । रत्ना । सप्तमसी । मंत्री सुरजन पुत्र । मं० जीआदे  
( ७ ) सू । जीया पुत्र मंत्री पंचाङ्ग । पुत्र मं० चांपसी । मं० उदयसिंह मं०  
( ८ ) बांकुरसो । मं० टोडरमह्व । चांपसी पुत्र देवकर्ण । उदयसिंह पुत्र  
( ९ ) महिराज । प्र० राक्का मंत्री टोडरमह्वेण पुत्र सोनपास सहिते-  
( १० ) न उपासरा छारं सुघटं कारितं ॥ चिरं जयतु ॥ श्रीसंघस्य ॥  
( ११ ) ॥ सूत्रधार पांचाकेन कृतं ॥ अंबाणी ॥

## सेठ थीरूसाहजी का देरासर ।

मूर्तियों पर ।

[ 2448 ]

संवत् १६१० वर्षे फागुण वदि २ दिने ७५० अदाकेन आरामश्रेयोर्थं श्रीआदिनाथ-  
विंशं कारितं प्र० श्रीविजयदानसूरिजिः ॥

[ 2449 ]

सं० १६३६ श्रीपार्श्वनाथ व श्रीबाई.....

[ ११० ]

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2450 ]

॥ सं० १४९० वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमे गूजरहाती मंत्री० सामञ्ज सुत मं० साय-  
रेण निज ज्येष्ठ ज्ञातुः मंती सदाकस्य श्रेयसे श्रीअजिनंदन पंचतीर्थीप्रतिमा कारिता  
प्रति० श्रीसर्वसूरिजिः ॥ श्रीहर्षतिलकसूरिजिः ॥

[ 2451 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १४९७ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ दिने ऊकेशवंशे चो० दीता पुत्र  
चो० पांचा पुत्र चो० महिराज भावकेण पुत्र सहस साजण प्रमुख परिवारसहितेन  
श्रीशांतिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगछे श्रीजिनजडसूरिगुरुजिः ॥

[ 2452 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १४९७ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ दिने बुधे उपकेशवंशे चो० दीता  
पुत्र चो० पांचा पुत्र सा० लोळा भावकेण पुत्र सहजपाल चूरा प्रमुख परिवारसहितेन  
श्रीधर्मनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगछे श्रीजिनजडसूरिजिः ॥

[ 2453 ]

॥ संवत् १५०३ वर्षे मार्ग० सुदि २ रवौ सुंचियागो० सा० सीरंग जा० सिंगारदे पु०  
वीरधवल जा० वीजलदे पु० साहहा सहसा लाखाकेन ज्ञातृ काजल निमित्तं श्री-  
कुंथुनाथबिंबं कारि० प्रतिष्ठि० श्रीपूर्णिमापक्षीय श्रीजयप्रजसूरिपदे श्रीजयजडसूरिजिः ॥  
॥ शुभं ॥

[ 2454 ]

॥ संवत् १५१९ वर्षे फागुण सुदि २ शुके । श्रीउपसवंशे ॥ मीठाढपागोत्रे व्य०

[ १११ ]

सायर जा० चमकू पुत्र व्य० धनाकेन जा० धनादे पुत्र जेता सहितेन स्वश्रेयोर्थ  
श्रीशंखलगणेश श्रीजयकेशरिसूरीशामुपदेशेन श्रीशीतलनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं संघेन  
पारकर नगरे

[ 2455 ]

॥ संवत् १५३२ वर्षे वैशाख सुदि १३ सोमे उपकेशज्ञा० जामूनोत्रे सा० सज्जन पु०  
जरहू जा० मेहिणी पु० देवा जा० देवसदे त्रातृ मयाऊदा सं० देवाकेन स्वपुण्यार्थ  
स्वश्रेयसे श्रीवासपूज्यमुख्यविंबं चतुर्विंशतिपहः कारितः प्रतिष्ठितः श्रीरुद्रपल्लीयगळे  
श्रीजिनोदयसूरिपदे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥ मूळताण

[ 2456 ]

सं० १५४२ वर्षे फागुण वदि २ शनौ श्यो० पलडेवागोत्रे सा० माळा जार्या मोहिणदे  
पुत्र देजा जार्या दाडिमदे पुत्र मांडण मेरा कर्मसी युतेन आत्मश्रेयसे श्रीसंजवनाथ-  
विंबं कारितं प्र० मडाहडागळे श्रीनयचंद्रसूरिजिः अरहटवाडा ग्रामे ।

[ 2457 ]

॥ सं० १५७७ वर्षे वैशाख सुदि १२ रवौ वृद्धप्राग्वाटज्ञातीय श्रे० सिवा जा०  
धर्मिणी सु० श्रे० हांसा जा० हांससदे त्रातृ श्रे० वडा जा० माणिकी सुत श्रे० रवा  
जा० हरषादे सुत मूळा युतेन स्वश्रेयसे श्रीआदिनाथचतुर्विंशतिका कारिता । प्रति-  
ष्ठिता साधुपूर्णिमापक्षे जहारक श्रीउदयचंद्रसूरि तत्पदे जहारक श्रीमुनिचंद्रसूरिजि-  
विंधिना ॥ श्रीचंपकनगर वास्तव्य ॥ कल्याणं च

[ ११२ ]

चौबीसी पर ।

[ 2458 ]

सं० १५१० द्वि० ज्ये० सु० ३ गुरौ । श्रीसिद्धपुर वास्तव्य थोसवालझातीय सा०  
सद्दे सुत सा० सोना जा० गोरी पुत्र सा० साधारण लघु ज्ञातृ सा० देपाखेन जार्या  
करमी सुत श्रीवह्म भीचंद्र प्रमुख कुटुंबसहितेन स्वभेयसे श्रीविमलनाथविंबं कारितं  
प्रतिष्ठितं च श्रीवृहत्पापके जहा० श्रीरत्नसिंहसूरिभिः ॥ शुभं ॥

## सेठ केशरीमलजी का देरासर ।

( रंशेवाल्लों की हवेली )

शिलालेख ।

[ 2459 ]

॥ श्री गुरवे नमः ॥ संवत् १७०७ शाके १७७२ जाडवा सु० ७ गुरुवारे श्रीदेरासर-  
जी को जानत पिता घरासिंघवी प्रतापचंद्र हनतराम जेठमल्ल नथमल सागरमल्ल  
आदिमल्ल कारापितं ॥

मूर्तियो पर ।

[ 2460 ] •

सं० १९०२ वर्षे पौ० सु० १५ गुरौ पुष्ये श्रीपार्श्वजिनविंबं बाफण श्रीजोरावरमल्ल

• यह लेख बांदी की सफण मूलनाथजी की मूर्ति पर खुदा हुआ है ।

[ ११३ ]

सपरिकरः कारितः प्रतिष्ठितं बृहत्स्वरतरंगहाधीश्वर अंगमयुज त्र० श्रीजिनमहेंद्रसूरिजिः  
रतस्वाम ।

[ 2461 ]

सं० १५ आ० ७९ वर्षे आ० सुदि ७ सोमे । श्रीमाञ्जीका० मं० चांपा जा० अंगी  
पु० मु० अनाभ्रेयसे श्रीपार्श्वनाथविंशं कारितं

[ 2462 ] •

सं० १९९२ वर्षे चैत्र..... रगवते (?) गांधी सहस्रमह्व..... जार्था जायणा का०  
पंचतीर्थियों पर ।

[ 2463 ]

॥ सं० १५१५ वर्षे आषाढ वदि ३ शुके उकेशवंशे परीक्षमोत्रे पं० सारंग सुत  
पं० अजा जार्था आमलदे पु० पं० पर्वत सुभावकेण युशस जगमास... परिवारसहि-  
तेन श्रीसुमतिविंशं कारितं प्र० श्रीस्वरतरंगे श्रीजिनजद्रसूरिपदे श्रीजिनबंद्रसूरिजिः ॥

[ 2464 ]

॥ संवत् १५३३ वर्षे कात्तिक सुदि ५ शुरो गौतममोत्रे श्रीश्रीमासकातीय पासड  
जार्था बरजू सुत नागा जार्था नागलदे सुत मुंघा सहितेन श्रीशांतिनाथविंशं का०  
प्र० श्रीधिराद्रागठे (?) श्रीविजयासिंहसूरिपदे श्रीश्रीशांतिसूरिजिः ॥



\* सर्वपातु की सकल कृतिं पर का कर देव है ।

[ ११९ ]

## सेठ चांदमलजी का देरासर ।

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2465 ]

सं० १२०५ आषाढ वदि ५ सा० सूहवदेन प्र० कारितं ।

[ 2466 ]

सं० १५३९ वर्षे वै० सु० ५ बुधे पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटझातीय व्य० सहसा जा०  
संपूरी नाम्ब्या पुत्रमेळा जा० फदकू द्वि० पुत्र सिंघादिकुटुंबयुतया स्वभेयसे भीसुम-  
तिनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं तपागठनाथक श्रीब्रह्मीसागरसूरिजिः ॥

## अखयसिंहजी का देरासर ।

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2467 ]

सं० १४७९ वर्षे माघ सुदि ४ दिने श्रीपार्श्वनाथबिंबं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगठे श्री-  
जिनजङ्गसूरिजिः कारितं दा० सा० सादा पुत्र बरसिंह युतेन ।

[ ११५ ]

[ 2468 ]

सं० १५११ वर्षे पौष वदि १ गुरो श्रीमाधवातीय सा० सामल जार्या माकू सुत  
हरपतिना श्रीशांतिनाथबिंबं कारापितं भीतरापके ज० श्रीविजयसूरिपदे ज० श्री-  
विजयरत्नसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2469 ]

॥ सं० १५७५ वर्षे फागुण वदि ४ गुरो ... झातीय व्य० गुणाल ज० देवणी  
पु० दोसी अस्ता ज० उत्तिमदे पु० जैवंत जैमल भेयोर्य पहीरा पत्नीकनिमित्तं श्री-  
भेयांसबिंबं कारापितं प्र० पूर्णिमापके ज० श्री श्री श्रीमुनिचंद्रसूरिजिः जन्मनामा  
हासी जार्या श्रीः ॥

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## रामसिंहजी का देशसर ।

मूर्तियों पर ।

[ 2470 ]

श्रीशांतिनाथ प्र० श्रीहीरविजयसूरि सा० । देवचंद्र

[ 2471 ]

॥ सं० १७०५ वर्षे भा० गुलाब वदि



[ ११६ ]

## धनराजजी का देरासर ।

चंद्र पर ।

[ 2472 ] •

सं० १७९३ माह । सु० । १० वरडिआ जोरावरमहोन्न का० ज० भीजिनमहेंद्र-  
सूरिनिः प्रतिष्ठितं श्रीवृहत्स्वरतरगच्छे ॥



## वृहत्स्वरतरगच्छ उपासरा ।

मूखनायकजी पर ।

[ 2473 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १६७० वर्षे वैशाल सु० ५ सोमे श्रीअहमदा[बाद]वास्तव्य वा०  
तेजबाई नाम्ना श्रीपार्श्वनाथविंशं कारितं प्र० तपागच्छे जहारक श्रीविजयसेनसूरिनिः ॥

पाषाण की मूर्तियों पर ।

[ 2474 ]

सं० १७१५ वर्षे पमातसम (?) संघे कारापितं

\* यह लेख ताज के चंद्र पर सुरा हुआ है ।



[ ११७ ]

[ 2475 ]

॥ सं० १९१७ माघ सुदि १३ प्र० । श्रीजिनमुक्तिसूरिजिः कारापितं जेसखमेरस्य  
श्रीसंघेन

धातु की मूर्ति पर ।

[ 2476 ]

ॐ ॥ संवत् १७१६ वर्षे मिति वैशाख सुदि १२ सोमे श्रीनेमिनाथबिंबं कारापितं  
गुफेठा सा० तिलोकसी सुत हेमसी तत्पुत्र साडुखसी पूजार्थ देहरे बढाई है ।

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2477 ]

सं० १३९२ वर्षे फादगु० वदि १० गुरौ साह हरपाल जार्या पांइणि पुत्र बीजड  
जा० लषमादे सोमा जा० संसारदे ज्ञातृ विरुया श्रेयोर्थे श्रीशांतिनाथबिंबं ॥

[ 2478 ]

संवत् १४६२ वर्षे माघ वदि ४ शुक्रवारे उ० झा० ठाजहड़गोत्रे सं० जइतकर्ण  
जार्या डुखहदे पुत्र सं० लषमणेन पितृमातृभेयसे श्रीशांतिनाथबिंबं कारितं प्र० श्री-  
पद्विगळेश्वर श्रीशांतिसूरिजिः ॥

[ 2479 ]

सं० १४७३ वर्षे चैत्र पूर्णिमा वो(?)दीता पुत्रेण वो० गुणदेवेन पुत्र चण्डा ईसरादि-  
मुनेन श्रीशांतिबिंबं कारितं प्रति० श्रीस्वरतर श्रीजिनवर्द्धनसूरिजिः

[ ११७ ]

[ 2480 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ वदि ए जकेशवंशे रीहड़गोत्रे रतनसी संताने सा० पासड़ जार्या हीरू पुत्र साह धर्मा श्रावकेण त्रातृ हेमा पु० साह्वा पद्या युनेन श्रीआदिनाथर्षिषं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्टे जिनराजसूरिपट्टाक्षंकार श्रीजिनचन्द्र-सूरिजिः ॥

[ 2481 ]

॥ सं० १५१६ वर्षे ज्येष्ठ वदि ए शुक्ले श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे० बोडा जा० लाठि सु० वाह्या जार्यया वासु नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीविमलनाथजीवितस्वामिर्षिषं पूर्णिमापदे श्रीगुणधीरसूरीणामुप० कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना अहिछाडा वास्तव्य ॥

[ 2482 ]

॥ संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ दिने जकेशवंशे साडसाषे पा० जेसा जार्या जेसादे पुत्र साधारण तेजसी समर सिंहैः कारितं श्रीकुण्डुनाथर्षिषं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्टे श्रीजिनचन्द्रसूरिजिः ॥ श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2483 ]

सं० १५१९ वर्षे ज्येष्ठ सु० ३ रवौ श्रीजावडारग० श्रीमालज्ञा० म० त्रासण जा० गोमति पु० कःरूआ काला चांदा सहितैः पितृमातृनिमित्तं श्रीनमिनाथर्षि० का० प्र० श्रीकालिकाचार्यसंताने श्रीजावदेवसूरिजिः ॥ गांछी वास्तव्यः ॥

[ 2484 ]

॥ संवत् १५५३ वर्षे माघ वदि ५ रवौ श्रीमालज्ञा० मंत्रि जांवर जा० भाउं सु०

[ ११९ ]

रत्ना जा० धरणी स्वजत्रुश्रेयसे श्रीशीतलनाथबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपूर्णिमाप० श्री-  
देवसुंदरसूरीणामुपदेशेन विधिना वीरमग्राम वास्तव्य श्रीः ॥

[ 2485 ]

संवत् १५५५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ९ रवौ श्रीश्रीमाखझार्तीय सं० कान्हा सु० सं० धारा  
जा० पांचु सु० सं० कर्मसी पांचु आत्मश्रेयोर्थं श्रीमुनिसुव्रतस्वामिबिंबं श्रीश्याम-  
गळे श्रीश्रमररत्नसूरिपट्टे श्रीसोमरत्नसूरिगुरुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना  
धंधुका वास्तव्य ॥

[ 2486 ]

संवत् १५६१ वर्षे वैशाख वदि ११ शुक्रे श्रीमूलसंधे ज० श्रीज्ञानचूषण स्त० ज०  
श्रीविजयकीर्ति गुरुपदेशात् हुं० श्रे० गोंदा जा० पाडहू सु० साजण जा० जोंसी सु०  
जोजा धरणा धांगा श्रीसुमतिनाथ नित्य प्रणमति

[ 2487 ]

॥ संवत् १५६१ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमे ऊकेशवंशे साखणशाषायं सा० वेसा  
जार्था विद्धणदे सुत सा० जेसा सुश्रावकेण जा० जसमादे पु० सुदा वियजा जग-  
माख सहितेन स्वश्रेयोर्थं श्रीश्रंचलगळे श्रीजावसागरसूरिणामुपदेशेन श्रीसुमतिनाथ  
बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंधेन श्रमरकोटं नगरे ।

[ 2488 ]

॥ संवत् १५६५ वर्षे वैशाख सुदि ७ गुरौ उसवालझार्तीय श्रीसुंधागोत्रे सा०  
ऊगडा पु० सा० होला जा० हीमादे पु० रामा रिणमा पित्रोः पुष्यार्थे श्रीश्रजितनाथ-  
बिंबं कारापितं प्र० श्रीकोरंटगळे ज० श्रीककसूरिजिः

[ ११० ]

देवी की मूर्ति पर ।

[ 2489 ] †

ॐ सौहिक पत्न्या मासिकया कारिता सं० ११०१

तपगच्छ उपासरा ।

सौम्य के यंत्रों पर ।

[ 2490 ]

संवत् १७५१ मिते आषाढ सुदि १० दिने । शुक्रवारे । पद्मादेव्युपाश्रये सस्क  
समस्त श्राविकाजिः श्रीसिद्धचक्र यंत्रोद्धारः कारितः प्रतिष्ठापितश्च ॥ ज० ॥ जिनचंद्र-  
सूरिबिजयराज्ये । पं० । कृपाकल्याणगणिना प्रतिष्ठितः ॥

[ 2491 ]

श्री । सहसां बाई करायो सं० १७९९ ... ठाकुरदास कस्तूरे चढ़ायो


[ 2492 ]

॥ संवत् १७०० मिते माघ सुदि ५ दिने वरडिया रे उपाश्रय सस्का श्राविकाजिः

† यह चक्रेश्वरी देवी की बहुत प्राचीन धातु-प्रतिमा पर का लेख है। मस्क पर भगवान की प्रतिमा के साथ यह देवी सिंहवाहन में सुवासन से बैठी हुई है। इनके कक्षिण-जानु के समीप बड़ी पुख्य मूर्ति तथा बाई जानु पर सुवासन से बिना बालक मूर्ति है। यहां बालक की मूर्ति के रहने का कारण समझ में आया नहीं।



जैसलमेर का दृश्य - गढ़ीसर की तरफ से।



VIEW OF JAISALMER.  
*FROM GADHISAR.*

[ १११ ]

श्रीसिद्धचक्रयंत्रः कारितः प्रतिष्ठितश्च । ज० । श्रीजिनचंद्रसूरिजिः । श्रीजेसलमेहनगरे  
॥ श्रीरस्तु ॥ शुभं जवतु ॥

ताम्र के यंत्र पर ।

[ 2493 ]

॥ सं० १९५२ का माघ सुदि २ गुरुवासरे यंत्र प्रतिष्ठापितं वृ० । ज० । श्रीजिन-  
मुक्तिसूरिजिः । रतखाम नगरे कारितं । पं० । प्र० सरूपचंद्रजी स्वश्रेयार्थ ॥



## दादा वाड़ी ।

श्रीजिनकुशलसूरिजी का स्थान । \*

प्रशस्ति x

[ 2494 ]

- ( १ ) ॥ संवत् १६५० वर्षे आषाढ मासे शुक्लपक्षे युत नवमीदिने
- ( २ ) रव(वि)वारे चिन्नानक्षत्रे रावख श्रीजोमजीविजयिराज्ये श्री
- ( ३ ) श्रीजिनकुशलसूरीणां पांडुके कारिते युग प्र-
- ( ४ ) धान श्रीजिनचंद्रसूरीश्वराणां आचार्य श्रीजिनसिंहसूरि
- ( ५ ) समलत्क(कृ)तानामादेशेन श्रीपुण्यसागर महोपाध्यायैः

\* जेसलमेर शहर से उत्तर की तरफ एक मील पर देवानसर तालाब के पास यह स्थान है ।

x यह शिलालेख श्रीजिनकुशलसूरिजी के स्थान पर भाले में लगा हुआ है ।

[ १११ ]

- ( ६ ) प्रतिष्ठिते तत्प्रतिष्ठोत्सवश्च सं० पासदत्त सुश्रावकेण  
( ७ ) जार्या क्षीलादेः पुत्र सं० शालिजद्र केवना चंद्रसेन-  
( ८ ) प्रमुख पुत्रादि परिवार सं० श्रीकेण कारयांचक्रे । कट्या-  
( ९ ) णस्तः(स्तु) ॥ श्रीः संजावंश नारंङ्ग वेमणी लिखतं ॥

पाडुका पर ।

[ 2495 ]

॥ संवत् १६५० वर्षे आषाढ शुक्लपक्षे चंद्रवासरे द्वितीयांतिथौ पुष्यनक्षत्रे सिद्धि-  
योगे जहारक श्री श्री श्रीजिनकुशलसूरिपाडुका प्रतिष्ठितं .....

[ 2496 ]

॥ संवत् १६७१ वर्षे वैशाख सुदि ए सोमवारे जहारक सवाई युगप्रधान श्री श्री  
श्री श्री श्रीजिनचंद्रसूरिपाडुका प्रतिष्ठिता

स्तंज पर ।

[ 2497 ] •

- ( १ ) ॥ संवत् १६७१ वर्षे वैशाख सुदि ए दिने सोमवारे श्रीजेसलमेरु  
( २ ) वास्तव्य राउल श्रीकट्याणदासजीविजयराज्ये कुंथर श्रीः  
( ३ ) मनोहरदासजी । सवाई युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरीश्वर ।  
( ४ ) पाडुके कारिते युगप्रधान जहारक श्रीजिनसिंहसूरि ॥ श्रीख  
( ५ ) रतरसंधेन तैव सर्वदा श्रीसंधस्य समुन्नतिमुख श्रेयोवृद्धि कृ-  
( ६ ) ते । वाचयेतामिति ॥ पं० उदयसिंघ लिपी कृतं ॥ श्री श्री श्रीः ॥

• दादाजी के स्थान से पूर्व की तरफ स्तंभ के आले में यह लेख है ।



[ १२३ ]

[ 2498 ] •

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ संवत् १६७७ फादगुण सित ५ दिने । श्रीजेसप्रमेरु महा-
- ( २ ) दुर्गे ॥ महाराजाधिराज महाराज महाराज श्रीकल्याणदास
- ( ३ ) जीविजयिराज्ये ॥ कुमार श्रीमनोहरदासजी जाग्रथौवराज्ये ।
- ( ४ ) सकल श्रीजैनदर्शन रक्षाकर युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टप्र-
- ( ५ ) चाकर श्रीजाहंगीर शातिसाहि श्रीसखेम साहि प्रदत्त युगप्रधान वि-
- ( ६ ) रुद्धर श्रीजिनसिंहसूरिराजानां चूपतिवेशः कारितः श्रीजेसल-
- ( ७ ) मेरुवास्तव्य सकल श्रीखरतरगणीय श्रीसंघेन । प्रतिष्ठितश्च । यु-
- ( ८ ) गप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिपट्टाक्षंकार । श्रीखोद्रपुरपत्तन मण्डन
- ( ९ ) सहस्रफणामणि चिंतामणिपार्श्वनाथ श्रीशत्रुंजय मौलश्रृंगमौली-
- ( १० ) य मानाष्टमोद्धार प्रतिष्ठाकार । श्रीताणवडनगर प्रवर श्रीशांतितीर्थक-
- ( ११ ) र प्रतिष्ठा वसरप्रसरञ्ची सूरिमंत्र स्मरण प्रकटित पे(पी)यूषयूषवर्षि श्री-  
पार्श्वर्षिबा-
- ( १२ ) वल्लोकन जनित जगजन चमत्कार । यवनराज्य मध्य विदित श्रीमेदतट
- ( १३ ) प्रकट मम्माणीमय जिनालय प्रथ[म] श्रीशांतिनाथ प्रभृति प्रतिमा प्रतिष्ठान
- ( १४ ) समधिष्ठान विधान लब्ध प्रधानातिशय मुंनार । जाग्रदिष्टदेव सान्नि-
- ( १५ ) ध्यविहित पंचपीराद्यनेक यवनदेवाधिष्ठान दुर्गम सिन्धु देश-
- ( १६ ) विहार । बोहित्यवंशमुक्ताप्रकार । सा० धर्मसी धुरल्लदे कुमार । मंड-
- ( १७ ) ल जट्टारक वृंदवृंदारक पुरंदरावतार श्रीजिनराजसूरिसूरिराज्ये ॥

\* यह लेख यहाँ के दूसरे स्तंभ पर है ।

[ ११४ ]

[ 2499 ]

॥ संवत् १९०१ रा वर्षे शाके १९६६ । प्रवर्तमाने मासोत्तममासे आषाढमासे शुक्र-  
पक्षे सप्तम्यांतिथौ भृगुवासरे महाराजाधिराज महाराजराजजी श्रीगणेशिंहजीविजय-  
राज्ये प्रधानजहारक श्रीजिनचंद्रसूरि वृहत् शिष्य पं० जीतरंगगणि पाहुका कारापितं  
श्रीसंभेन प्रतिष्ठितं श्रीजिनमहेंद्रसूरिजिः ॥

पटसाख में । ●

[ 2500 ]

- ( १ ) ॥ संवत् १६९४ वर्षे मार्गशीर्षे वदि ५ शुक्रवार श्रीजेसखमेरो श्रीवृहत्
- ( २ ) खरतरगणाधीश सवाई युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरिपाहुके श्रीधर्मनिधानो
- ( ३ ) पाध्याये । गणधरगोत्रे । हरष पुत्र सा० तिन्नोक साकेत पुत्र राजसा धिरसा  
जामसा
- ( ४ ) ह तेन प्रतिष्ठा कारिता ॥ विनेयपंडित धर्मकीर्त्तिगणि वंदते गुरुपादानां श्री ।
- ( ५ ) प्रमुख सुखसागरगणि पं० समयकीर्त्तिगणि पं० सदारंगमुनि प्रमुखाः वंदते
- ( ६ ) पं० उदयसंघ लि०

[ 2501 ] †

- ( १ ) ॥ श्री सर्वज्ञाय नमः ॥
- ( २ ) ॥ स्वस्ति श्रीजयोमंमलाच्युदयश्च । श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज ।
- ( ३ ) श्रीत्रिकमादित्यराज्यात् संवत् १९६९ वर्षे श्रीशासिवाहन कृ-

● यह लेख भीत पर है ।

† यह लेख दक्षिणमुक्तो पटमाल में भीत पर लगा हुआ है ।

[ १३५ ]

- ( ४ ) त राज्यात् शके १६३४ प्रवर्त्तमाने महामांगल्यप्रदे मार्गसिरे मासे  
 ( ५ ) कृष्णपक्षे पंचम्यां पुण्यतिथौ शुक्रवारे पुनर्वसुनक्षत्रे शुक्रयोगे  
 ( ६ ) महाराजाधिराज महाराज श्रीबुधसिंहजीविजयराज्ये जहारक  
 ( ७ ) श्रीजिनसुखसूरिविजयमानेषु श्रीजेलमेरुपहाडुर्गे ॥ सा०  
 ( ८ ) जणसात्रीगोत्रिया सा० हाथी तत्पुत्र हेमराज ज्ञातृ जयरा  
 ( ९ ) ज तत्पुत्र धारसी ज्ञातृ देवजी तत्पुत्र गंगाराम सगरिवारेण  
 ( १० ) दादा श्रीजिनकुशसूरि प्रासाद पार्श्वे प्रतिशाखा कारिता  
 ( ११ ) प्रतिष्ठिता च ॥ वाणारस श्रीनरसुंदरगणि उपदेशात् ॥ श्रीः ॥  
 ( १२ ) ॥ शुक्रं चक्रुः श्रीरस्तु ॥ सिद्धावट्टा धिराकेन कृता ॥

[ 2502 ]

- ( १ ) ॥ स्वस्ति श्रीरस्तु ॥ संवत् १७४० मिति । मार्गशीर्ष मासे । बहु-  
 ( २ ) लपक्षे । पंचम्यांतिथौ शुक्रवारे जेलमेरुडुर्गे म-  
 ( ३ ) हाराजाधिराज महाराज श्रीमूषराजजीविजयरा-  
 ( ४ ) ज्ये । कुंभर श्रीरायसिंहजीवराज्ये । श्रीवृद्धतखर-  
 ( ५ ) तरगढाधीश्वर । जहारक श्रीजिनसाजसुरीश्वर पहाडका-  
 ( ६ ) र । ज० । श्रीजिनचंद्रसूरीणामुपदेशात् सकल श्रीसंवेन श्री  
 ( ७ ) जिनकुशसूरिसद्गुरुस्तूप पार्श्वे पूर्वस्यां पश्चिमायां च  
 ( ८ ) अजिमुखं प्रतिशाखाद्वयं कारितं च । तथा ।  
 ( ९ ) अग्रतः श्रीजिनसाजसूरि गुरुस्तूपः कारितः स्वभेषो-

[ १२६ ]

- ( १० ) र्च । सर्वमेतत् श्रीसद्गुरुप्रसादात्त्रिविधं संजातं ॥ श्रीः ॥  
( ११ ) उस्ता । कम् वीकानेरया

## श्री जिनचंद्रसूरिजी का स्थान ।

[ 2508 ]

- ( १ ) ॥ श्रीवषतकुंथरी नाम्नी माऊजी श्रीसोढीजीतः पुण्यकृतमिदं लि  
( २ ) ॥ ॐ ॥ संवत् १७२५ वर्षे शाके १६९० प्रवर्तमाने । मा-  
( ३ ) र्गशीर्षासित पंचमी सोमे । श्रीजेसलमेरुमहादुर्गे म-  
( ४ ) हाराजाधिराज महारावल श्रीमूलराजजीविजयरा-  
( ५ ) ज्ये । सकलसूरिशिरोमणि जहारक श्रीजिनकीर्ति-  
( ६ ) सूरिराजानांपहप्रजाकर श्रीजिनयुक्तिसूरींजाणां ।  
( ७ ) स्तूपनिवेशः कारितः श्रीजेसलमेरुवास्तव्य श्रीवृहत्-  
( ८ ) स्वरतराचार्य श्रीसंघेन । प्रतिष्ठितश्च श्रीजिनयुक्तिसूरि  
( ९ ) पहालंकार जहारक वृंदवृंदारकावतार श्रीजिनचंद्र ।  
( १० ) सूरिराजैर्लिपी कृतं । पंडित जीमराज मुनिजिश्च ॥ श्रीः ॥  
( ११ ) दरवारसूं ऊपर ठाठ सिपाही भीरनदे ईदानांणी दरोगां ॥  
( १२ ) सिखावटां दरवाररां गडर गोदङ्क नरसंगिाणी ॥ ध्या

[ ११७ ]

- ( १३ ) डाके विरंते च सर्वदा श्रीसंघस्य सुकृतं सुखं श्रेयो वृद्धिं कृते च-  
( १४ ) वेत्यमिति ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीः ॥

[ 2504 ] •

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ संवत् १७७५ वर्षे शके १७४० प्र० । मासोत्तममासे ।  
( २ ) कार्तिक मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमा १५ तिथौ चौमवारे श्रीम-  
( ३ ) जेसलमेरुमहादुर्गे महागजाधिगज महागवस-  
( ४ ) जी श्रीमूलराजजीविजयराज्ये जहागक यंगमयुगप्रभा-  
( ५ ) न श्री १०० श्रीजिनशुक्सूरिजी तस्पष्ट प्रजाकर सक-  
( ६ ) ल जैनदर्शनागम । रक्षाकर । यंगमयुगप्रधान । ज० । श्री १००  
( ७ ) श्रीजिनचंद्रसूरिजी स्वर्ग प्राप्तः तस्पष्टे स्तंज-  
( ८ ) युता शाखापादन्यासश्च कारापितः ॥ श्रीजेसलमेरु वास्त-  
( ९ ) इय सकल श्रीवृहत्स्वरतराचार्यगण्डीय श्रीसंघेन सं० १७७  
( १० ) ६ व० । शा० १७४१ प्र० मासोत्तममासे महामासे शुक्लपक्षे ५ तिथौ  
( ११ ) गुरुवारे महासजाधिराज महाराज रावल श्रीगजसिंहजी-  
( १२ ) विजयराज्ये तस्पष्टे प्रजाकर यं० । यु० । ज० । श्री १०० श्रीजिनउदय ।  
( १३ ) सूरिजिः प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन कृतमहोत्सवेन शिखावट अ-  
( १४ ) लीलषाणी लिपीकृतारिं पं० । प्र० । अजयसोमगणिना । श्रीर-  
( १५ ) स्तु शुजं जवतु कल्याणमस्तु ॥

## श्मशान भूमि ।

शिलालेख । ●

[ 2505 ]

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथप्रसादात् । यंज प्रतिष्ठा करावणहारना नाम ॥ प्रशस्ति  
स्रपियइंठइं । ऊकेशवंश ठाजहड़गोत्रे । पूर्वइं कप्रिय ।
- ( २ ) ॥ राठौडवंशे । तिहां आस्थाम राजा । तिहनइ पुत्र थांधसादि १३ । थांधस  
नो पुत्र ऊदिसा तिहनो पुत्र रामदेव । तत्पुत्र काजसाते
- ( ३ ) ॥ संग्रति श्रेष्ठिनइं षोत्रे आप्यो । जिणइं श्रावकउ धर्म आदखउ । तेह-  
नइ अनुक्रमी ऊधरण हुवो । तेहनउ पुत्र कुमधर । कुमधर पुत्र अ
- ( ४ ) ॥ जित । अजित पुत्र सामंता । तेहनो पुत्र हेमसज । हेमसज पुत्र बावा  
तत्पुत्र माळा मस्यसिंह नामइ । माळा पुत्र जूठिप्र । जूठिप्र पुत्र ।
- ( ५ ) ॥ काखू प्रधानः । बहुआष धडती राजारइ । राज्यनइ त्रिषइ मंत्रीश्वर  
हुवो । रायपुर नगर माहे देहरउ काराव्यउ । तत्पत्नी सीळासंकार ध-
- ( ६ ) रिणो । कर्मादे नामतः । तेहनि कुहि संभूत पांष पुत्र । राये । ठाहड नेणा ।  
सोनपास । नोडराजाः । अरघू नामी बहिन । तेह माहे सोनपा-
- ( ७ ) ॥ स मंत्रीश्वर तेहनी जार्यो सं० आहूरू तर्षी पुत्री । सहजसदे नामता । पुत्ररत्न  
त्रयं प्रसूता । मंत्री सतोपास । तत्प्रिया चांपसदे । द्विती-

- ( ४ ) यो देपालः । तस्य प्रिया दाडिमदे । तृतीयो महिराज । तत् प्रिया महिगलदे ।  
तन् मध्ये मंत्रीश्वर देपाल । देपाल जार्या दाडिमदे । पुत्र ३
- ( ९ ) ॥ उदयकर्ण । श्रीकर्ण । सहस्रकिरण । द्विर्द सहस्रकिरण जार्या सिरियादे ।  
तत् कुक्षिसंचूत । मंत्रीश्वर सूर्यमल्ल । मंत्री दीदा । सूर्यम-
- ( १० ) ल्ल जार्या मूलादे । कुक्षिसमुत्पन्न मं० हरिश्चंद्रः । मंत्रीश्वर विजयाल नाम  
धेयः । मं० दीदा जार्या श्रा० सवीरदे । पुत्र त्रयं प्रसूता । आद्यो मंत्री
- ( ११ ) श्वर हम्मीरः । द्वितीयो कर्मसिंहः । तृतीयो धर्मदासादयः(रूपः) मं०  
हमीर जार्या श्रा० चांगलदे । तत् कुक्षिसंचून देवीदास पुत्रो विजयते
- ( १२ ) ॥ मं० विजयाल जार्या श्रा० विमलादे तत् कुक्षिसंचून मंत्रीश्वर तेजया-  
लनेन तेजयाल जार्या श्राविका कनकादे प्रसूति समस्त परिवार-
- ( १३ ) ॥ सहितेन ॥ संवत् १६६३ वर्षे । मार्गशीर्ष मासे बहुव्रतके । षड्यां तिथौ ।  
सोमवासरे । पुष्यनक्षत्रे । ब्रह्मयोगे । श्रीमत्खरतरवेग-
- ( १४ ) ॥ ढगळे । श्रीजिनेश्वरसूरि तत्पदे श्रीजिनशेषरसूरयः । तत्पदाञ्जकार श्रीजिन-  
धर्मसूरयः । तत्पदे श्रीजिनचंद्रसूरयः । तत्पदप्र-
- ( १५ ) जाकर श्रीजिनमेरुसूरीश्वराः । तत्पदां जोजविकासदिनमणिहृदाः ॥ श्री-  
जिनगुणप्रज्ञसूरयः । तेषां गुरुणां स्तूपे पाडु-
- ( १६ ) ॥ का प्रतिष्ठा कारिता । शुचमुहूर्ते प्रतिष्ठिता च श्रीजिनेश्वरसूरिजिः ॥  
सपरिकरः ॥ श्रीजेसलमेरुमहाडुर्गे राउल श्रीजी-

- ( १७ ) मसेनविजयराज्ये । श्रीपार्श्वनाथादिचैत्यविराज्यमाने । चिरंनंदतादाचंद्रार्क  
यावत् । श्रीसंघसमयायस्य कल्याणं ज्ञेयात् ॥
- ( १८ ) श्रीजिनगुणप्रज्ञसूरीश्वराणां शिष्य पं० मतितागरेण पषां पट्टिका खिखिता ॥  
मंत्री जीमा पुत्र मं० पदा तत्पु० मंत्री माणिके
- ( १९ ) ॥ न रूपीया १० देहरीनइ दीधा ॥ तथा यंज सिखावट अषो सिखावट  
सिवदास हेमांणीए कीधा । चिरं नंदतु ॥ श्रीः ॥
- ( २० ) ॥ पं० विद्यासागर । पं० आणंदविजय । पं० उद्योतविजयादिपरिवारसहितैः  
शुभं ज्ञेयात् ॥ सिखावट जसा वधू आणी ॥ कीधा
- ( २१ ) समस्त लघुवृद्धि संघनइ कल्याणं ज्ञेयात्

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १६७४ चैत्रतः अषाढात् ७५ वर्षे मार्ग-  
सिर मासे धवलपक्षे
- ( २ ) राउल श्रीकल्याणजीविजयराज्ये श्रीमत् श्रीठाजहड़गोत्रे । काजत्र पुत्र ऊध-  
रण । तत्पुत्र कुलध-
- ( ३ ) र । पुत्र अजित । पु० माधव पु० .....
- ( ४ ) .....
- ( ५ ) .....
- ( ६ ) .....
- ( ७ ) .....



[ १३१ ]

[ 2507 ]

- ( १ ) संवत् १६७५ वर्षे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे
- ( २ ) द्वितीया[यां] तिथौ चंद्रवारे रोहिणी नक्षत्रे शुभ-
- ( ३ ) योगे श्रीमत्स्वरतरवेगडगळे श्रीजिनेश्वरसूरि
- ( ४ ) .....
- ( ५ ) .....
- ( ६ ) .....
- ( ७ ) ..... राठस श्रीमनोहरदास विजयते

[ 2508 ]

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १७०६ वर्षे शाके १६
- ( २ ) ७१ प्रवर्त्तमान्ये महामांगल्यप्रदे मासोत्तममासे पौष मासे शुक्लपक्षे
- ( ३ ) षष्ठीतिथौ जौमवासरे उत्तराज्ञाद्रपदानक्षत्रे एवं शुभदिने श्रीजेसल
- ( ४ ) मेरगड महापुर्गे राठस श्री ५ श्रीअखौसिंहजीविजयराज्ये श्रीस्वरतरवे
- ( ५ ) गडगळे जहारक श्रीजिनसुंदरसूरजी तत्पदे विद्यमान जहारक श्री
- ( ६ ) जिनउदयसूरिजिः तत् त्रात् वां० श्रीमुनिसुंदरजी तेषां गुरुणां
- ( ७ ) स्तंभेन पाडुका प्रतिष्ठितं शिष्य पंडित जसोबद्धन पं० मानसिंघ पं०
- ( ८ ) जवहाट(?) पं० जगमी पं० वर्धमान सपरिकरैः सिखावटा इथा जांफुवांणी
- ( ९ ) थंजेन मंडिता चिरं नंदतु शुभं श्रेयात्

[ १३१ ]

[ 2509 ] \*

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १८११ वर्षे मार्गशीर्ष मासे बहुसप्तके
- ( २ ) त्रयोदश्यां तिथौ सोमवासरे स्वातिनक्षत्रे शुभयोगे एवं शुभदिने महाराजन्न श्रीश्र.
- ( ३ ) षयसिंहजीविजयराज्ये वृहत्खरतरवेगडगढे वेगडाशाष जंगमयुगप्रधान जहारक श्रीजिने.
- ( ४ ) श्वरसूरिपट्टे जहारक श्रीजिनचंद्रसूरि तत्पट्टे जहारक श्रीजिनसमुद्रसूरि तत्पट्टे श्री
- ( ५ ) जहारक श्रीजिनसुंदरसूरि तत्पट्टाखंकार श्री जहारक श्रीजिनउदयसूरीश्वराणा
- ( ६ ) तत् ॥ पूज्यपादुकानि जहारक श्रीजिनचंद्रसूरेण सुपेष स्थापितानि प्रतिष्ठानि च
- ( ७ ) .....

[ 2510 ]

- ( १ ) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १८४३ वर्षे शाके
- ( २ ) १९०८ प्रवर्त्तमाने मार्ग० मासे कृष्णपक्षे नवम्यां ए तिथौ शुके
- ( ३ ) स्वातिनक्षत्रे धृतियोंगे तैत्तिलकरणे एवं पंचांग शुद्धौ ॥ श्रीजेसन्न.
- ( ४ ) मेरुदुर्गे । रावसज्जो श्री १०५ श्रीमूलराजजीविजयराज्ये श्री.
- ( ५ ) मखरतरवेगडगढे जहारक श्री १०९ श्रीजिनेश्वरसूरिविजय.
- ( ६ ) राज्ये । महोपाध्याय श्री १०५ श्रीजयोवसुजजो गणीनां शुंन पा.

\* इस स्तंभ के उत्तर की तरफ महारक श्रीजिनचंद्रसूरिजी की पादुका, पृथक् की तरफ पूज्य महारक श्रीसमुद्रसूरि जी की पादुका और दक्षिण पूरव भ० श्रीजिननुम्बरसूरिजी की पादुका प्रनिष्ठित है ।

[ १३३ ]

- ( ७ ) दुका कारारितं प्रतिष्ठितं च पंडित । रूपचंद्रेष तद्विष्य  
( ८ ) चिं तिस्रोक्तचंद्र किसनचंद्र सहिताज्यां ॥ शुभं जवतु ॥  
( ९ ) ॥ सिखावट जेसा तत्पुत्र सिवदानकेन कृतं

[ 2511 ]

- ( १ ) ॥ श्रीपार्श्वजिनं प्रणम्य ॥ सं० १८४६ वर्षे शाके १९११ प्रवर्तमाने मह-  
( २ ) मांगल्यप्रदे मासोत्तममासे मिंगसर मासे शुक्लपक्षे तिथि ९ दिने ॥ वार  
गुरु श्री-  
( ३ ) मत्सरतर श्रीवेगडगडशाषे । श्री १०० श्रीजिनेश्वरसूरीश्वरान्(णां) विजय-  
राज्ये ५० ।  
( ४ ) श्रीवधमानजी उपरे शुभ कारापिता प्रतिष्ठिता ॥ श्रीमहाराजाधिराज महारा-  
( ५ ) ज श्रीरावसजी श्री १०० श्री श्रीमूसराजजी । कुंअरजी श्रीरायसिंघजीविजय  
( ६ ) राज्ये ॥ दुहा ॥ जब लग मेरु अडग है । जब लग ससि हर सूर । जब  
लग या शुभ ... । १-  
( ७ ) दिगो सदा जरपूर ॥ शुभं जवतु ॥  
( ८ ) श्रीकल्याणमस्तु ॥

[ 2512 ]

- ( १ ) ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ संवत् १८६१ वर्षे शाके १९२६ मिते वैशाख वदि द्विती  
( २ ) [या]यां तिथौ श्रीजेसलमेरुदुर्गे रावसजी श्री १०५ श्रीमूसराजजीविजय-

[ १३४ ]

- ( ३ ) राज्ये पं० ५० श्री १०० श्रीगांगजीगणिनां शुंजपाडुके काराधि-  
✓ ( ४ ) तं प्रतिष्ठितं च दिश्य । पं० रूपचंदेन त्रातृव्य पं० बलता सहते-  
( ५ ) न ॥ शुंजं चवतु ॥ सूत्रधार आजमेन कृतं

[ 2513 ] •

संवत् १६४४ वर्षे आषाढ वदि ए सनवारे शुद्ध पापा धनाधी देवघोक मत्ता  
कासपस गोत्रं

[ 2514 ] †

- ( १ ) ॥ संवत् १६९९ वर्षे शाके १५४१ [ प्रवर्त्तमा ]  
( २ ) ने ज्ञाड्व मासे शुक्लपक्षे २ तिथौ श्रीवाचना  
( ३ ) चार्य श्रीवर्णदत्त श्रीकमलोदयगणि त-  
( ४ ) त् शिष्य शिरोमणि प० वर्षकीर्त्ति प० श्री  
( ५ ) देवसार वृ(?)त्ति पाडुका ॥

[ 2515 ] †

- ( १ ) ॥ संवत् १६०३ वर्षे मगसिर वदि २ दिने श्रीजे-  
( २ ) सखमेरुकोट्टे रावख श्रीकल्याण-  
( ३ ) जीविजयराज्ये ॥ श्रीखरतरगढे ।  
( ४ ) जहारक श्रीजिनराजसूरिविजय-

\* यह कालानसर के मत्तान की छतियों का लेख है । इस छतरी में हाथ जोड़े हुए कहीं की-मूर्ति है ।

† † ये दोनों लेख भी कालानसर के मत्तान के हैं ।

[ १३५ ]

- ( ५ ) राज्ये । आचार्य श्रीजिनसागरसूरि-  
( ६ ) विजयराज्ये ॥ श्री .....  
( ७ ) .....  
( ८ ) .....  
( ९ ) .....  
( १० ) .....

पाडुका पर ।

[ 2516 ]

सं० १६८३ वर्षे सिंगसर ..... श्रीजिनचंद्रसूरि पाडुका .....



[ १३६ ]

## स्तंभ पर ।

[ 2517 ]\*


॥ ॐ ॥ स्वस्ति धीर्जयोऽयुदयश्च पातुवो जलदश्यामाः सार्ङ्गं ज्याधात कर्कशाः  
त्रैलोक्य मंडप स्तंजाश्चत्वारो हरि बाहवः ॥ १ ॥ संवत् १४ चतुर्दशनृपविक्रमार्कं समया-  
तीत संवत्सरे ए४ प्रवर्त्तमाने महामांगड्यरक्ताक्ष संवत्सरे माघ मासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां  
तिथौ शुक्रवारे महाराजाधिराज श्रीलक्ष्मण सुत राठल वयर सिंहेन कूपः प्रतिष्ठापितः  
सेठी सासु युतेन छिषितं प्रधान हरा सुत जोजा सुत जयतसी.....रूप ..... ।  
जैतसी शिवदासेन



\* यह लेख किले में कोट के भीतर कूप के पास चतुष्कोण स्तंभ पर खुदा हुआ है ।



अमरसागर -- सेठ हिमतरामजी का मंदिर ।



SETH HIMATRAM TEMPLE - AMARSAGAR.





## श्री आदिनाथजी का मंदिर ।

प्रशस्ति ।

[ 2518 ] \*

( १ ) ॥ श्रीआदिनाथाय नमः ॥

( २ ) ॥ ॐ ॥ प्रीयात्सदा जगन्नायकजैनचन्द्रः सदा निरस्ताखिन्नशिष्टतन्द्रः । स

( ३ ) दिष्टशिष्टोक्तसाधुधर्मा सत्तीर्थकृत्त्रिश्रितदृष्टिरागः ॥ १ ॥ पूज्यं श्रीजिनराजि-

( ४ ) राजिचरणां जोज्ज्वयंनिर्मलं ये ज्वयाः स्फुरद्गुज्ज्वलेनमनसा ध्यायन्ति सौ-

\* जेसलमेर से अमरसागर अठारह कोस पच्छिम की ओर विशाल मरुभूमि के मध्य भाग में फल पत्र सुशोभित एक चित्त-राचक स्थान है । यहाँ दरवार का एक राज-प्रासाद सहित रमणीय उद्यान है । यहाँ कई एक जैन मंदिर हैं परन्तु जैनियों का एक भी घर नहीं है । श्रीस्वरतरगच्छ पंचायती के श्रीआदिनाथजी के मंदिर का यह प्रशस्ति पीले पाषाण में खुदा हुआ है ।

- ( ५ ) ख्यार्थिनः । तेषां सर्वसमृद्धिवृद्धिरनिशं प्रादुर्नवेत्मंदिरे कष्टादीनि परिव्रजंति  
 ( ६ ) सहसा दूरे दुरंतानि च ॥ २ ॥ सकलार्हत्प्रतिष्ठानमधिष्ठानंशिवश्रियः ।  
 चूर्णवः

- ( ७ ) स्वस्वयीशानमार्हत्त्वप्रणिदध्महे ॥ ३ ॥ नामाकृतिद्रव्यजावैः पुनंतस्त्रिजगजनं ।  
 क्षेत्रेका-

- ( ८ ) खे च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्म्यहं ॥ ४ ॥ आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निः प  
 ( ९ ) रिग्रहं । आदिमं तीर्थनाथं च कृषजस्वामिनंस्तुमः ५ इति मंगलाचरणं ॥

- ( १० ) स्वस्ति श्रीविक्रमादित्यराज्यात्संवत् १९०३ शालवाहन कृत शाके १९६८ प्रव-  
 ( ११ ) र्तमाने मासोत्तममासे फाद्व्युण मासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ शुक्रवारे घट्य ।  
 ( १२ ) ५४ पलानि ३४ रेवतीनक्षत्रे घट्य १४ पलानि ३८ तत्समये । महाराजा-  
 धिराज म

- ( १३ ) हारावलजी श्री १०८ श्रीरणजीतासिंहजीविजयराज्ये । जं० । यु० । ज० । श्री-  
 जिनचं

- ( १४ ) डसूरि तत्पट्टे श्रीजिनहर्षसूरि तत्पट्टप्रजाकर श्रीजिनमहेन्द्रसूरि धर्म-  
 राज्ये श्री

- ( १५ ) जिनचंद्रसूरि । बृहत्शिष्य । पं० । श्रीजीतरंगगणिना उपदेशात् श्रीआदिनाथ-

- ( १६ ) मंदिरं कारितं श्रीसंघेन । प्र० । कुंगरसी मुनिना प्रतिष्ठं च । सि० । पं० ।  
 दानमन्त्रेण । श्रीरस्तु ।

[ १३९ ]

मूत्त पर ।

[ 2519 ]

सं० १७०३ ..... श्रीश्रेयांसबिंबं

[ 2520 ]

सं० १७०३ ..... पार्श्वनाथ ठोटी

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2521 ]

ॐ ॥ सं० १५१५ वर्षे ... श्रीउकेशवंशे परिक्रिगोत्रे प० जयता जरमादे पुत्र प०  
डूंगरसिंहेन जा० प्रेमसदे पुत्र नगराज गांगा नयणा नरपाल सहितेन स्वश्रेयसे श्री-  
सुविधिजिनबिंबं का० प्र० श्रीखरतरगछे श्रीजिनचन्द्रसूरिनिः ।

[ 2522 ]

॥ सं० १५३३ वर्षे वैशाख वदि ५ सोमे श्रीश्रीमालझा० सं० वेलाउल जा० वेउ-  
सदे सु० सं० कर्षूणेन जा० नानू सु० स० सामल पोमादि कुंडंबयुतेन सुत गहिला  
श्रेयसे श्रीधर्मनाथबिंबं श्रीपूर्णिमापक्षे श्रीगुणधीरसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं  
च विधिना । जांधरीघ(?) ग्रामे ॥

[ 2523 ] :

संव० १५३६ वर्षे फागुण सु० ५ दिने उकेशवंशे गणधरचोपड़ागोत्रे सं० सच्च  
चार्या शृंगारदे पुत्र सं० जिणदत्त सुश्रावकेण चार्या लषाई पु० अमरा थावर पौ०  
हीरादि परिवारयुतेन । श्रीशांतिनाथबिंबं का० प्र० श्रीखरतरग० श्रीजिनचन्द्रसूरिपट्टे  
श्रीजिनचंद्रसूरिनिः ॥ श्री ॥

## बाफणा सवाईरामजी का मंदिर ।

प्रशस्ति ।

[ 2524 ]

- ( १ ) ॥ श्रीमहृषज्जिनेन्द्रदेवानुग्रहात् ॥ संवत् १७९९ वर्षे शाके १९
- ( २ ) ६२ प्रमिते फादगुण मासे धवलपक्षे तृतीयायां तिथौ बुधवासरे म-
- ( ३ ) हाराजाधिराज महारावलजो श्री ५ श्रीगजसिंघजी महाराणीजी श्री
- ( ४ ) राणावतजी सहितेन विजयराज्ये श्रीमजेसन्नमेरुवास्तव्य श्योसवं-
- ( ५ ) स बाफणागोत्री सिंघवी सेठजी श्रीगुमानमल्लजी तत्पुत्र बाह्दर-
- ( ६ ) मल्लजी सवाईरामजी मगनीरामजी जोरावरमल्लजी प्रतापचंदजी
- ( ७ ) दानमल्लजी सपरिवारयुतैः आत्मपरकल्याणार्थं श्रीसम्यक्त्वो दीपना-
- ( ८ ) र्थं च श्रीजेसन्नमेरु नगर सत्का अमरसागर समीपवर्तिना समीचीना
- ( ९ ) श्यारामस्थाने श्रीजिनमंदिरं नवीनं कारापितं तत्र श्रीश्यादिनाथविं-
- ( १० ) बं प्राचीन वृहत्खरतरगणनाथेन प्रतिष्ठितं तत्र श्रीमज्जिनहर्षसूरि प-
- ( ११ ) द पंकजसेविना वृहत्खरतरगणाधीश्वरेण चतुर्विधसंघसहितेन श्री-
- ( १२ ) जिनमहेंद्रसूरीणा विधपूर्वकं महता महोत्सवेन शोजनसमे स्थापि-
- ( १३ ) तं पुनर्मायाबीजं शिक्षापट्टशं (सं) स्थितं तत्रैव चैत्ये स्थापितं श्रीसंघ-
- ( १४ ) स्य सदा मंगलमाहाः समुल्लसंतुतराम् ॥ झूहा ॥ अचक्ष चैत्य इक्ष

[ १४१ ]

( १५ ) उपरै जब लग ग्रहण वृंद बरतो त्रि समकित करण कहत के-

( १६ ) सरीचंद ॥ १ ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥

मूलनायकजी पर ।

[ 2525 ]

( १ ) संवत् १५२४ वर्षे मार्गशीर्ष वदि १२ दिने श्रीजकेशवंशे श्रीशंखवासेचागोत्रे  
सा० देवा जार्या देवस्रदे पु० सा० लखा सा० जादा सा० केव्हा सा० लषा  
जा० सोनस्रदे

( २ ) पुत्र सा० मणगरेन जा० हर्षू पुत्र सा० जांऊण सा० जयता प्रमुख परि-  
वारयुनेन स्वपितुः पुण्यार्थं श्रीआदिनाथर्विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगळे  
श्रीजिनचंद्रसूरि

( ३ ) शिष्य श्रीजिनचंद्रसूरिः सा० नगराज कारितं प्रतिष्ठयां

मूर्ति पर ।

[ 2526 ]

ॐ ॥ संवत् १५२४ वर्षे मार्गशीर्ष वदि १२ दिने सोमे श्रीजकेशवंशे श्रीशुद्ध(?)गोत्रे  
सा० पदमा सुन सा० तणीया जा० नोडा सा० धणपति नामानः तेषु सा० धणपति  
जा० छाडस्रदे पुत्ररत्न सा० शिवदत्त सा० नगराज सा० लखराज सा० जीवराजायाः  
तेषु सा० जवदत्त जा० धरमाई वरजू सा० न ..... ज ..... पु० .....  
श्रीविक्रमपुर महानगरे राजाधिराज श्रीरणमह्वविजयराज्ये राजं श्रीअरडकमह्व युव-

[ १४१ ]

राज्ये सा० धणपति इत्यादि पुत्रपौत्रादि सत्परिवार सहितेन सा० नगराज सुभ्राव-  
केण श्रीखरतरगढे श्रीजिनचन्द्रसूरियुगवरशिष्यैः श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2527 ]

॥ सं० १५३४ वर्षे आषाढ सुदि ७ जौमे ओशवंशे चांपशाषायां सा० नेता जा०  
श्रा० धानी स्वपुण्यार्थं श्रीआदिनाथविंशं कारितं प्र० श्रीमलधारिगढे श्रीगुणनिर्मल-  
सूरिजिः ।

[ 2528 ]

सं० १५३६ फा० सु० ३ ऊकेशवंशे ज० आंधु संताने ज० मादहा जा० कब पुत्र  
ज० हराकेन जा० न्यमलदे पुत्र हर्षा रामा चूंमा नर जमादि परि० युतेन श्री-  
अजितनाथविंशं का० प्र० श्रीखर० श्रीजिनचन्द्रसूरिपदे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

यक्षमूर्ति पर ।


[ 2529 ]

॥ श्रीपार्श्वयक्षमूर्ति प्रतिष्ठिता ॥





अमरसागर – हिम्मतारामजो के मंदिर के सम्मुख का दृश्य



NETWORK AND CARVINGS IN HIMMATRAMJI TEMPLE  
AMARSAGAR



## बाफणा हिम्तरामजी का मंदिर ।

प्रशस्ति नं० १

[ 2530 ]\*

- ( १ ) ॥ ॐ नमः ॥ छूहा ॥ कृषत्रादिक चौबीस जिन पुंडरीक गणधार । मन  
वच काया एक कर प्रणमूं वारंवार ॥ १ ॥ त्रिघन हरण संप-
- ( २ ) तित करण श्रीजिनदत्तसूरिद । कुसल करण कुसलेस गुरु वंडूं खरतरइंद ॥  
२ ॥ जाके नाम प्रजावतें प्रगटै जय जय-
- ( ३ ) कार । सानिधकारी परम गुरु रहौ सदा निरधार ॥ ३ ॥ सं० १७९१ रा मिति  
श्राषाढ सुदि ५ दिने श्रीजेसलमेरु नगरे महारा-
- ( ४ ) जाधिराज महारावसजी श्री १०७ श्रीगजसिंघजी राणावतजी श्रीरूपजी  
बापजी विजयराज्ये वृहत्खरतर नट्टारक
- ( ५ ) गच्छे जंगमयुगप्रधान नट्टारक श्रीजिनहर्षसूरिजिः २ पट्टप्रजाकर जं० । यु० ।  
ज० । श्री १०७ श्री जिनमहेंद्रसूरिजिः २ उपदेश

\* श्री जैन श्वेताम्बर ओसवाल समाज में पट्टुआ वंश प्रसिद्ध है । इनका आदि गोत्र तो बाफणा है परन्तु ये लोग पट्टुआ नाम से परिचित हैं । इनके पूर्वजों का निवास-स्थान जेसलमेर था । वहां बहुत ही सुन्दर कोढ़नी के काम से सुसज्जित राज-प्रासाद तुल्य इन लोगों का उच्च और विशाल वास-भवन विद्यमान है । अमरसागर के उद्यान सहित प्रस्तर में जाली खुदे हुए इन लोगों का मंदिर भी दर्शनीय है । इस मंदिर के बायें तरफ बाहर की दालान में पच्छिम दीवार पर लगे हुए लम्बे पीले पाषाण पर यह प्रशस्ति खुदी हुई है । पुरानत्ववेत्ता मुनि जिनविजयजी संपादित "जैनसाहित्य संशोधक" नामक पत्रिका के प्रथम कंड के पृ० १०८-१११ तक "जेसलमेर के पट्टुओं के संघका वर्णन" शीर्षक लेख में यह शिलालेख प्रथम प्रकाशित हुआ है । इस में शिलालेख की पंक्तियां नहीं दी हुई हैं और पाठ भी स्थान २ में मूल लेख से कुछ भिन्न है ।

- ( ६ ) त् श्रीवाफणागोत्रे सा० श्रीदेवराजजी तत्पुत्र गुमानचंदजी चार्या जैता तत्पुत्र  
५ बहादरमह्वजी चार्या चतुरा । सवाईगंम
- ( ७ ) जी चार्या जीवां मगनीरांमजी चार्या परतापां जोगवरमह्वजी चार्या चौथां  
परतापचंदजी चार्या मांनां एवं बहादरमह्वजी त-
- ( ८ ) त्पुत्र दांनमह्वजी सवाईगंमजी तत्पुत्र सामसिंघजी मांणकचंद । सामसिंघ  
पुत्र रतनलाल । मगनीरामजी तत्पुत्र जभूतसिंघ तत्पुत्र २
- ( ९ ) पूनमचंद दीपचंद । जोरावरमह्वजी तत्पुत्र २ सुभ्रतानमह्व चंणमह्व सुल-  
तानमह्व पुत्र २ गंजीरचंद इंद्रचंद प्रतापचंदजी पुत्र ३ हिमतरा-
- ( १० ) म जेठमह्व नथमल । हिमतराम पुत्र जीवण जेठमल पुत्र मूखो गुमानचंदजी  
पुत्र्यां २ ऊबू बीजू सवाईरामजी पुत्र्यां ३ सिरदारी सिणगारी नानूमी
- ( ११ ) मगनीरामजी तत्पुत्र्यां २ हरकवर हसतू सपरिवारसहितैः सिद्धाचलजीरो  
संघ कढायो जिणरी विगत जेसलमेरु उदयपुर कोटे सुं कुंकुमपत्र्यां सर्व दे-
- ( १२ ) सवरां में दीवी । च्यार २ जीमण कीया नाखेर दीया पठै संघ पात्री  
जेसो हुवो उठै जीमण ४ कीया संघ तिसकरा संघतिसकर मिति माह  
सुदि १३ दिने
- ( १३ ) ज० । श्रीजिनमहेंद्रसूरिजी श्रीचतुर्विधसंघसमके दीयो पठै संघ प्रयाण कीयो  
मार्ग में देसना सुणतां पूजा पडिकमणादिक करतं सातैं
- ( १४ ) क्षेत्रां में द्रव्य खगावतां जायगा २ सामेत्रो हुतां रथजात्रा प्रमुख महो-  
त्सव करतां श्रीपंचतीर्थीजी बंजणवाडजी थाबूजी जिराबखोजी तारं-

- ( १५ ) गोजो संखेसरोजी पंचासरोजी गिरनारजी तथा मार्ग में सहारा गा-  
वांरा सर्व देहरा जुहाया इणजांत सर्व ठिकाणें मंदिर २ दीठ चढायो कीयो
- ( १६ ) मुकुट कुंडल हार कंठी जुजबंध कडा श्रीफक्ष नगदी चंद्रवा पुठिया इत्या-  
दिक मोटा तीर्थमाथे चढावतो घणो हुवो गहणो सर्व जडाऊ हो सर्व
- ( १७ ) ठिकाणें छाहण जीमण कीया सहसा वनरा पगथ्या कराया उठै सूं सात  
कोस ठरै गांव सूं श्रीसिद्धगिरिजी मोछ्यां सूं बधायनें पालीताणें बड़ा  
हंगाम
- ( १८ ) सूं गाजा बाजतां तलेटी रो मंदिर जुहार डेरां दाखल हुवा पूजे दिन  
मिती वैशाख सुदि १४ दिने शांतिक पुष्टिक हुतां श्रीसिद्धगिरिजी पर्वत  
पर चढ्या
- ( १९ ) श्रीमुखनायक चौमुखोजो खरतरवसीरा तथा पूजी वस्यां सर्व जुहारी  
मास १ रखा उठै चढायो घणो हुवो अढाई साख जात्री जेखो हुवो । पू-
- ( २० ) रव मारवाड मेवाड गुजरात दूंडाड़ हाडोती कठचुज मालवो दक्षण सिंध  
पंजाब प्रमुख देसारा उठै छहण १) सेर १ मिथ्री घर दीठ दीवी जीम-
- ( २१ ) ण ५ संघव्यां मोटा कीया । जीमण १ बाई बीजू कीयो और जीमण पिण  
घणा हुवा । श्रीचौमुखाजी रै बारणें आखा में गोमुखयक्त चक्रेश्व-
- ( २२ ) री री प्रतिष्ठा करायनें पधराई चौमुखैजी रो सिखर सुधरायो १ नवो  
मंदिर करावण वस्ते नीव जराई । जूना मंदिरां रा जीर्णोद्धार कराया  
जन्म

- ( २३ ) सफ़्त कीयो अथच गुरुजक्ति इण मुजब कीनी ११ श्रीपूज्यजी हा २१ ०  
साधु साध्यां प्रमुख चौरासी गहाधिकारी त्यां प्रथम स्वगह
- ( २४ ) रा श्रीपूज्यजी री जक्ति सांचवा हजार पांच रो नकद मास दीयो हूजो  
खरच जर दीयो अनुक्रमे सारा हूजा श्रीपूजां री साधु साध्यां री  
जक्ति
- ( २५ ) साचवी आहार पाणी गाडियांरो जाडो संबू चीवरो ठांणे दीठ ४) रुपया  
दीया नगद दुसाळावाळांनै दुसाळा दीया सेवग ५०० हा जिणांनै जणें  
दीठ
- ( २६ ) २१) इकीस रोठ्यां खरच न्यारो मोजा पहरण रा ओषध खरची सारू रुपया  
चाहीज्यां जिणांनै दीया पठे ज०। श्रीजिनमहेंद्रसूरिजी पासै सिंघ-
- ( २७ ) वियां २१ संघमाळा पहरी जिणमे माळा २ गुमास्ते साखगरांम महेसरी  
ने पहराई पठे बड़ा आडंबर सूं तखेटी रो मंदिर जुहार डेरां दाखळ  
हुवा
- ( २८ ) जाचकां नै दान दीयो पठे जीमण कीयो साधम्यां नै सिरपाव दीया  
राजा डेरे आयो जिणनै सिरपाव हाथी दीया हूजां मार्ग में राजवी न-
- ( २९ ) बाब प्रमुख आया डेरै जिणांनै राज मुजब सिरपाव दीया श्रीमुखनायकजी  
रै जंडार रै ताळा ३ गुजरातियां रा हासो चौथो ताळो संघव्यां आ-
- ( ३० ) परो दीयो सदावरत सरू वेई जैसा २ मोटा काम कत्या पठे संघ कुसळ-  
वेम सूं अनुक्रमे राधनपुर आयो उठे अंगरेज भीगोनी-

- ( ३१ ) जी रा दरसण करण नैं आयो उठे पांणी नहीं थो गेवाऊ नदी नीसरी  
भीगोडीजी नैं हाथी रे होदे विराजमान कर संघ नैं दरसण दि० ७
- ( ३२ ) इकसग करायो चढापै रा साढा तीन लाख रुपया आया सवा महीनो  
रहा जीमण घणा हुवा भीगोडीजी रे विराजण नैं बनो चोतरो
- ( ३३ ) पको करायो ऊपर ठतरी बणाई घणो डव्य खरदयो बडो जस आयो  
अक़ात नाम कीयो साथे गुमास्तो महेसरी साखगरांम हो जिणनैं जे-
- ( ३४ ) नरा शिवरा सर्व तीर्थ करायो पठे अनुक्रमे संघ पाली आयो जीमण  
१ करनै दानमद्व कोटे गयो चाई ४ जेसखमेरु आया डेरा दरवाजे
- ( ३५ ) बाहिर कीया पठे सामेखो बना थाट सूं हुवो श्रीरावसजी सांम पधाखा  
हाथी रे होदे संघड्यां नैं श्रीरावसजी आपरे पूठे बेसांण नैं
- ( ३६ ) सारा सहर में हुय देहरा जुहार उपासरे आय हवेख्यां दाखख हुवा पठे  
सर्व महेसरी बगैरे ठत्तीस पौन नैं खुगायां समेत पांच पकवान
- ( ३७ ) सूं जीमायो ब्राह्मणा नैं जणै दीठ एक रुपयो दिषणा रो दीयो पठे श्री  
रावसजी जनानै समेत संघड्यां री हवेखी पधारपा रुप्यां सूं चांतरो
- ( ३८ ) कीयो सिरपेच मोत्यांरो कंठो कड़ा मोती डुसाखा नगदी हाथी घोड़ा  
पालखी नीजर कीया पाठा श्रीरावसजी इण मुजब हीज सिर-
- ( ३९ ) पात्र दीयो एक खुडवोजी ताबां पत्रां पठे दीयो इतो इजाफो कीयो आगे  
पिण इणारी हवेखी उदैपुर रांणोजी कोटेरा महारावजी

- ( ४० ) षीकानेररा किसनगढरा बूंदीरा राजाजी इंदोररा हुलकरजी प्रमुख सर्व देसांरा राजवी जनानै समेत इणारै घरे पधारया देणो
- ( ४१ ) खेणो हजारं रो कीयो दिह्वी रै पातसां रा अंगरेजां रै पातसां री दीयोड़ी सेठ पदवी हे सुविख्यात हीज है पठे संघरी लाहण न्यात मै
- ( ४२ ) दीवी पुतली १ हेमरो थाली १ मीश्री सेर १ घर दीठ पठे बहादरमल्ल-जी सारै लाहण कीवी रुपया ५) थाली १ मिश्री सेर
- ( ४३ ) १ घर दीठ दीवी जीमण कीयो पठे सहर मै ठावां २ नै सिरपाव दीया पठे गढ मांहला मंदिरां खुडवे उपासरे बडै चढापो कीयो इण
- ( ४४ ) मुजब हीज उदैपुर कोटै देणो खेणो कीयो इह्वै संघमें देरासर रो रथ हा जिणरा ५१००) सागा त्रगडो सोना रूपैरा २
- ( ४५ ) जिणरा १००००) सागा मंदिर रा सुनैरी रूपैरी वासणां रा १५०००) सागा । इजा फुटकर सरंजामनै लाख एक रुपया
- ( ४६ ) सागा । हमै संघ मै जाबतो हो तिणरी त्रिगत । तोपां ४ पलटण रा लोक ४००० असवार १५० नगारे निसांण समेत उदैपुर रा रा-
- ( ४७ ) षैजीरा असवार ५०० नगारे निसांण समेत कोटै रा महारावजी रा असवार १०० नगारै निसांण समेत जोधपुर रै राजाजी
- ( ४८ ) रा असवार ५० नगारै निसांण समेत । पाला १०० जेसन्नमेर रा रावलजी रा असवार २०० टूंकु रै नवाब रा असवार ४०० फु-

[ १४९ ]

- ( ४९ ) टकर अस्वार १०० घरू और अंगरेजी जाबतो बपरासी तिलंगा सोनेरी  
रूपैरी घारेवाला जायगा १ परवाना बोला
- ( ५० ) वा एवं पालखियां ९ हाथी ४ म्याना ५१ रथ १०० गाडियां ४०० ऊंठ  
१५०० इतता संघव्यां रा घरू संघ री गाडियां ऊंठ प्रमुख न्यारा
- ( ५१ ) सर्व खरचरा तेरेलाख रुग्या लागा इति संघ री संक्षेप पथे प्रशस्ति ॥ और  
पिण ठिकाणै १ धर्म रा काम करया सो संषे
- ( ५२ ) छिलिये ठे श्रीधूलेवाजी रै मंदिर बारणै नोषत रवानो करायो गहणो चढायो  
लाख एक लागा मगसीजी रै मंदिर रौ जीर्णोद्धार क-
- ( ५३ ) रायो उदैपुर में मंदिर १ दादासाहिब री उतरी धर्मशाखा कराई कोटा  
में मंदिर १ धर्मशाला दादासाहिब री उतरी कराई
- ( ५४ ) जेसलमेरु में अमरसागर में बाग कगयो जिणमें मंदिर करायो जयवंतां रो  
उपासरो करायो बुद्धवैजी में धर्मशा-
- ( ५५ ) ला कराई गढ माथे जमी मंदिरां वास्ते खीवी बीकानेर में दादासाहिब री  
उतरी कराई इत्यादिक ठिकाणै १ धर्मरा था-
- ( ५६ ) हीठाण कराया श्रीपूज्यजी रा चौमासा जायगा १ कराया पुस्तकां रा जंडार  
कराया जगवतीजी प्रमुख सुण्या प्र-
- ( ५७ ) श्र दीठ १ मोती भख्यो कोठी में दोय लाख रुपया देनै बंदीखानो बुडायो  
बीज पांचम आठम इग्यारस चउदसरा

- ( ५८ ) उजमणा कीया इत्यादिक काम धर्म रा कीया फेर ठिकाणें ठिकाणें धर्म रा काम कराय रखा है इण मुजब होज
- ( ५९ ) सबैयो ३१ सो ॥ सोजनीक जैसाणें में बाफणा गुमानबंद ताके सुत पांच पांच पांडव समान है । संपदा में अच-
- ( ६० ) छ बुध में प्रबल राव राणा ही मानें जाकी कांन है । देव गुरु धरम रागी पुण्यवंत बडजागी जगत सहु वात जानै
- ( ६१ ) प्रमान है देसहू विदेश मांह कीरत प्रकास कीयो सेठ सहु हेठ कवि करत बखान है ॥ १ छूहा ॥ अठारसै वि-
- ( ६२ ) नूवै जेठ मास सुदि दोय खेख खिख्यो अति चूप सूं जवियण वांचो जोय ॥ १ सकल सूरि सिर मुगटमणि
- ( ६३ ) श्रीजिनमहेंजसूरिंद चरण कमल तिनके सदा सेवै जवियण वृंद ॥ २ कीनो अति आग्रह थकी जेश-
- ( ६४ ) छमेरु चोमास संघ सहू जक्ति करै चढतै चित्त उलास ॥ ३ ताकी अज्ञा पाय करि धरि दिख में आणंद
- ( ६५ ) ज्युं थी त्युं रचना रची मुनि केसरीचंद ॥ ४ जूबो जो परमाद में अकर घाट ही बाध खिलत षोट आ-
- ( ६६ ) ई हुवै सो षमीयो अरराध ॥ ५ इति ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥





अमरसागर—बाफणा हिम्मतरामजी का मंदिर प्रशस्ति (नं० २५३१)

॥श्री॥

॥श्रीलारसदिनभएभ॥

Handwritten text in Devanagari script, likely a temple inscription or a collection of verses. The text is dense and covers most of the page area.

NEW TEMPLE PRASHASTI-AMARSAGAR.



- ( ७ ) पंचदजी तत्पुत्र हिमतरामजी जेठमल्लजी नथमल्लजी सागरमल्लजी उमेद-  
मल्लजी तटरिवार मुल्लचंद सगतमल्ल केसरीमल्ल कृषजदास सांगीदास जग-  
वांनदास जीषचंद चिंतामणदास लुणकिरण मना
- ( ८ ) छाल कनैयालाल सपरिवारयुतैः आत्मपरकल्याणार्थं श्रीसम्यक्त्वोद्दीपनार्थं च  
श्रीजेसल्लमेरुनगरसत्का अमरसागर समीपवर्तना समीचिना आरामस्थाने श्री-  
कृषजदेव जिन-
- ( ९ ) मन्दिर नविनं करापितं तत्र श्रीआदिनाथबिंब प्राचिन वृहत्खरतरगणनाथेन  
प्रतिष्ठितं तत् श्रीमज्जिनमहेंद्रसूरिपदपंकजसेविता वृहत्खरतरगणाधिश्वरेण  
चतुर्विधसंघसहितेन
- ( १० ) श्रीजिनमुक्तिसूरिणा त्रिधिपूर्व महता महोत्सवेन शोजनलभे श्रीमूलनायक-  
त्वेन स्थापितं पुनश्चनेक बिंबानामंजनसिलाका विहिता पुनर्दुतिय भूमि  
प्रासादे स्वप्रतिष्ठितं
- ( ११ ) श्रीपार्श्वनाथबिंब मुल्लनायकत्वेन स्थापितं पुनर्विंशवहिरमाण प्रतिष्ठा कृतं  
मंदिर के पास बाजू जोमणे श्रीदादासाहेब को मंदिर हो जिण मांहे  
श्रीजिनकुशलसूरिजी
- ( १२ ) म्हाराज की मुर्ति त्रिच मांहे विराजमान तथा श्रीजिनवत्तसूरिचरणगडुका  
तथा श्रीजिनकुशलसूरिचरणगडुका तथा श्रीजिनहर्षसूरिचरणपाडुका तथा  
जिनम-

[ १५३ ]

- ( १३ ) हैंडसूरिचरणपादुका प्रमुख स्थापितं तथा जाई सवाईरामजी के घर का इठे था श्रीरत्नलाम सुं चिरुं सोजागमल चांदमल सोजागमल की मांजी वगेरे आया श्रीउदे.
- ( १४ ) पुर सुं चिरुं सिरदारमल तथा इणां की मांजी वगेरे आया और पण धणे दिसावरां सुं श्रीसंघ आया सांमीवठल प्रमुख करी श्रीसंघ की वड़ी जक्ति करि तथा पांच
- ( १५ ) शिष्यां नै श्रीपूजजी म्हाराज के हाथ से दीक्षा दिनी जी दिन १५ सुधां श्रीअमरसागर में रहा वडो गठ श्रीशुव सुं नित्य नवि नवि पूजा प्रजावना हुई श्रीदरवार साहिव
- ( १६ ) श्रीमंदिरजी में पधारीया तोबां का फेर हुवा पग में सोनो बगसीयो फेर श्रीसंघ समेत श्रीजेशत्रमेर आया उजमण प्रमुख कीना श्रीपूजजी म्हाराज की
- ( १७ ) पधरावणी दोय कीनी जिण में हजागं रुपीयां को माल इसबाब तथा रोकड जेट कीनो उपाध्यायजी वगेरे ठावां ठावां ठाणां नै तथा श्रीवणा-रसवाला उपाध्याय
- ( १८ ) जी श्रीबालचंद्रजी का चेला नै रोकड रुपीया तथा साल जोड़ तथा कपड़े का थान वगेरे अलग अलग दीना उपाध्यायजी श्रीसाहेबचंद्रजी गणि पं० प्रमेर-

- (१९) जी गणि प्रमुख साधू ठांणे ४१ था ठांणे दिठ रुशिया २०) दस रोकड  
थांन प्रत्येके प्रत्येके दीना तथा परगड के यतीयां को सतकार थाठी  
तरे कीनो श्रीसिर ॥
- (२०) कार की पघरांवणा कीनी घोडा सिरपाव वगेरे मोकन्नो निजराणे कीनो  
मुसंदी वगेरे ठावां ठावां सर्व ने सिरपाव दीना सेवकां ने जिणे दोठ  
रुशिया ४) छ्या
- (२१) र तो सर्वांछे दिना कोतरांक जिणांने सोने का कडा तथा थांन वगेरे  
सिरपाव दीना भीजिनजद्रसूरिसाखायां पं ॥ प्र ॥ श्रीमयाचंद्रजी गणि  
तत् शिष्य पं ॥ स-
- (२२) रूपचंद्रजी मुनी भीजेशलमेरु ध्यादेसी नां इयं प्रसस्तो रचिता कारिगर  
सिखावट वीराम के हाथ सुं श्रीमंदिरजी वणिया जीण के परिवार नां  
सोने की कंठीयां
- (२३) तथा कडा की जोड़ीयां तथा मंदीस तथा डुपटा थांन वगेरे सिरपाव  
दीना श्रीमंदिर के मुस गंजारे में थासेपासे दिषण नी तरफ परतापचंद  
जी की षड़ी मुरती ठै उ-
- (२४) तर की तरफ परतापचंदजी को जारजायां की खड़ी मुरती ठै नित्र  
मंदिर के सामने उगूण की तरफ पठम मुषो चोतरो कराय जिण उपर  
परतापचंदजी की मुरती

- ( १५ ) तथा परतापचंद्रजी की जारजायां सदपरिवार सहित की मुरतीयां स्थापित कीनी सं० ॥ १९४५ मित्ती मिंगसर सुद २ वार बुध द ॥ सगतमख जेठ-मखाणी बाफणे का सुजं
- ( १६ ) डुहा ॥ अष्ट कर्म वन दाह के ॥ जये सिद्ध जिनचंद्र ॥ ता सम जो आप्पा गिणे ॥ ताकुं वंदे चंद्र ॥ १ ॥ कर्मरोग ओषध सद्गी ग्यांन सुधारस दृष्टि ॥ सिव सुष अमृत बेखमी
- ( १७ ) जय जय सम्यग् दृष्टि ॥ २ ॥ एहिज सदगुरु सीष ठै ॥ एहिज शिवपुर माग खेज्यो निज ग्यांनादि गुण ॥ करजो परगुण त्याग ॥ ३ ॥ जेद ग्यांन भावण ज्यौ ॥ समर-
- ( १८ ) स निरमख नीर ॥ अंतर भोबी आतमा ॥ धोत्रै निजगुण चीर ॥ ४ ॥ कर डुष अंगुरी नैन डुष ॥ तन डुष सहज समांन ॥ खिप्यो जात हे कठोन सुं ॥ सठ जानत आसांन ॥ ५ ॥
- ( १९ ) ॥ श्रीः ॥ ॥ श्री श्री श्री ॥ ॥ श्री ॥



[ १५६ ]

मूर्तियों पर ।

[ 2532 ]\*

॥ ॐ ॥ जालवृद्धान्वये तुंगे । कुले च सप्तसंज्ञके । प्रद्युम्नाचार्य्य । सत्केन वृरु-  
खेनेद कारितं

[ 2533 ]†

- ( १ ) ॥ संवत् १९१० शाके १७९३ प्रवर्त्तमाने मिते माघ सुदि १३ गुरौ श्रीपार्श्व-  
जिन विंबं प्र-
- ( २ ) तिष्ठितं श्रीमत्पृहत्खरतरगङ्गाधोश्वर जंगमयुगप्रधान जट्टारक श्रीजिनमुक्ति सू-
- ( ३ ) रिजिः ॥ महाराजाधिराज महारावस्रज श्रीवैरिसालजीविजयरा-
- ( ४ ) ज्ये श्रीजेसलमेर कारितं च संघत्री बाफणा हिमतराम न-
- ( ५ ) यमस्र सागरमस्र उमेदमस्र मूस्रचंद सगनमस्रादिजिः ॥ स्वश्रेयोर्थ ॥

[ 2534 ]‡

- ( १ ) सं० १९१० शाके १७९३ मिते माघ सुदि १३ गुरौ श्रीपार्श्वजिनविंबं प्र० ।
- ( २ ) श्रीजिनमुक्तिसूरिजिः ॥ महाराजाधिराज महारावस्रज श्रीवैरिसालजी

\* यह धातु की मूर्ति बहुत प्राचीन है । सप्तफल-सहितः पद्मपासल की मूर्ति, दोनों तरफ दो बड़ी लवण कायोत्सर्ग की मूर्ति, नीचे दाहिने तरफ हस्ती पर पुरुष मूर्ति, बांये सिंहे पर देवी मूर्ति, गोद में लड़का, नीचे दाहिने तरफ चार पुरुष मूर्ति, बांये तरफ चार स्त्री मूर्ति और मध्य में धर्मचक्र है ।

† यह दाहिने तरफ की श्याम मूर्ति पर का लेख है ।

‡ यह पीले पाषाण की प्रतिमा पर का लेख है ।



[ १५९ ]

[ 2535 ] \*

( १ ) ॥ सं० १९२७ शाके १७९३ मिति माघ सुदि १३ गुरौ श्रीपार्श्वजिन-

( २ ) विंश प्र० । श्रीजिनमुक्तिसूरिजिः कारितं च । वा । सं । हिमतराम ।

[ 2536 ] †

॥ सं० १९२७ शाके १७९३ मि० माघ सुदि १३ गुरौ श्रीक्षेत्रपालमूर्तिः प्रतिष्ठितं  
शुभं भवतु ।

[ 2537 ]

॥ सं० १९२७ शाके १७९३ मि० माघ सुदि १३ गुरौ श्रीक्षेत्रपालमूर्तिः प्रतिष्ठितं

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2538 ]

सं० १४७३ वर्षे चैत्र सुदि १५ से० पासह ..... बीडहाकेन श्रीपार्श्वविंश  
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगढे श्रीजिनवर्द्धन सूरिजिः

[ 2539 ]

॥ संवत् १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीउपकेशकृतौ । वांगरडगोत्रे । सं० ईसर  
पुत्र सं० हांसा जा० हांसखदे पुत्र सं० मंडलिकेन जार्या तारु पु० सं० हेमराज  
युतेन स्वभ्रयेसे श्रीशांतिनाथविंश कारितं प्रतिष्ठितं श्रीउपकेशगढे ककुदाचार्यसंताने  
श्रीदेवसुखसूरिजिः ॥ श्रीपत्तने ॥

\* यह श्याम पाषाण की मूर्ति परका लेख है ।

† यह लकड़ पाषाण की मूर्ति है ।

[ १५७ ]

पट्टक पर ।

[ 2540 ]\*

- ( १ ) ॥ संवत् १९१७ का शाके १७९३ प्र-
- ( २ ) वर्त्तमाने मिति माघ सुदि १३ गुरौ
- ( ३ ) श्रीबीस बहिरमान जिनधिवा
- ( ४ ) नि प्रतिष्ठितं च श्रीमद्बृहत्स्वरतर
- ( ५ ) गङ्गाधीश्वर । जं । यु । प्र । जहारक श्री
- ( ६ ) जिनमुक्तिसूरिजिः २ कारापितं श्री
- ( ७ ) जेशसमेरस्य श्रीसंघेन स्वश्रे-
- ( ८ ) योर्थ ॥ सि । कृष्णचंद्र ॥

यंत्र पर ।

[ 2541 ]†

- ( १ ) ॥ प्रतिष्ठितमिदं यंत्रं जंगमयुगप्रधान जहारकेन्द्रु श्री १०८ श्री श्रीजिनमुक्ति-  
सूरिवरैः सपरिकरैः श्रीजेससमेर अमर-
- ( २ ) सागरमध्ये महारावसजी श्री १०८ श्रीत्रैरिसासजीविजयराज्ये कारितं बाफणा  
गोत्रीयः संघवी श्रीप्रतापचंद्र पुत्रैः हिम-

---

\* श्री बीस बहिरमान के पाषाण के पट्ट पर यह लेख खुदा हुआ है । यह ७। इंच लम्बा और ६ इंच चौड़ा आठ पंक्तियों में है ।

† यह "इं यंत्र" पीले पाषाण में खुदा हुआ है ।

[ १५९ ]

( ३ ) तराम जेठमह्व नाथमह्व सागरमह्व उमेदमह्वदि सपरिकरैः स्वश्रेयोर्षं संवत् १९३२

वैशाख सुदि १२

( ४ ) सोमे ॥


दादाजी के चरण पर

[ 2542 ] \*

सं० १९१७ रा वर्षे शाके १७०२ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे माधवमासे कृष्णपक्षे  
नवमी ए तिथौ शनिवारे महाराजाधिराज महारावसजी श्रीरणजीतसिंघजी विजयराज्ये  
श्रीजेसलमेरुणा वृहत्खरतरजद्वारकगछेन श्रीसंघेन श्रीअमरसागर मध्ये श्रीजिनकुशल-  
सूरि सद्गुरुणां शाखा स्थुंग पाडुका कारापितं श्रीजिनमहेन्द्रसूरिपट्टासंकार श्रीजिनमुक्ति-  
सूरिः । धर्मराज्ये श्रीजिनजद्रसूरि शाखायां पं० । पद्महंस मुनि तत् शिष्य पं० ।  
साहिबचंद्र मुनि प्रतिष्ठितं उपदेशात् पं० अग्रचंद्रमुनि ख । जडं चूयात् ॥



\* यह छतरी बगोचे में है । चरण श्वेत और परिकर पीले पाषाण का है । मंदिर के दो मंजले में श्रीजिनमहेंद्रसूरिजी के श्याम पाषाण के और श्रीजिनहर्षसूरिजी के श्वेत पाषाण के चरण विराजमान हैं और छोड़े पर बेंटे हुए जीवनरामजी की श्वेत पाषाण की मूर्ति है, जिसमें जी सं० १६२८ लुटा हुआ है ।



## श्रीपार्श्वनाथजी का मंदिर ।

### शतदलपद्म यंत्र ।

[ प्रशस्ति ]

[ 2543 ] \*

( मध्य भागमें )

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| (१) भीनिवासं सुरश्रेष्ठिसेव्यक्रमं | (२) वामकामाग्निसंतापनीरोपमं ।            |
| (३) माधवेशादिदेवाधिकोपक्रमं        | (४) तत्त्वसंज्ञानविज्ञानजव्याभ्रमं ॥ १ ॥ |


आजकल लोद्रवा एक सामान्य स्थिति का प्राप्त मात्र रह गया है परन्तु प्राचीन काल में "लोद्रपुर" नामक एक बड़ा समृद्धिशाली पत्तन था। यह स्थान जेसलमेर से पश्चिम लगभग बाँस कोस की दूरी पर है और यहाँ के श्रीपार्श्वनाथजी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बाँसों काने पर चार छोटे मंदिर हैं और मध्य में यह मूल-मंदिर बना हुआ है। ये सब मंदिर एक ही हाते में परकोट से घिरे हुए हैं। फाटकके बाँये तरफ क्षेत्रशाठ और आचार्यों के कई एक खरण मो प्रतिष्ठित हैं।

\* यह प्रशस्ति का शिलालेख मंदिर के गर्भद्वार के बाँये तरफ दीवार पर लगा हुआ है। इसकी लंबाई २२ इंच और चौड़ाई १७ इंच है।

यह शतदलपद्मयंत्र की प्रशस्ति अपूर्ण है। अद्यावधि मेरे देखने में जिनने प्रशस्ति शिलालेखादि आये हैं उनमें अलंकार शास्त्र का बेटा मज्जना नहीं मिला है। पाठकों को बिनासे अच्छी तपस्व बात होजायगा कि यह शतदलपद्मयंत्र जो बीचमें खुदा

# शतदलपद्म यंत्र ।

लोद्रवा - श्री पार्श्वनाथ मंदिर प्रशस्ति ( नं० २५४३ )



SHRI PARSHWANATH TEMPLE PRASHASTI - LOIDRAVA.



- (५) नढ्यनीरागताकेलिकर्मकमं (६) यं(य)स्य जव्यैर्जजे नाम संपडमं ।  
 (७) नीरसं पापहं स्मर्यते सत्तमं (८) तिग्ममोहार्तिविध्वंसतायाजमं ॥ १ ॥  
 (९) लब्धप्रमोदजनकादरसौख्यधामं (१०) तापाधिकप्रमदसागरमस्तकामं ।  
 (११) घंटारवप्रकटिताद्भुतकीर्तिरामं (१२) नक्षत्रराजिरजना(नी)शनताजिरामं ॥ ३ ॥  
 (१३) घंटापथप्रथितकीर्तिरमोपयामं (१४) नागाधिपः परमजक्तिवशातसवामं ।  
 (१५) गंजीरधोरसमतामयमाजगामं (१६) मं(म)र्त्यानतं नमत तं जिनपंकिकामं ॥ ४ ॥  
 (१७) संसारकांतारमपास्यनाम (१८) कड्याणमासास्पदमस्तशामं ।  
 (१९) साजाय वज्राम तवाविरामं (२०) लोजाजिचूतः श्रितरागधूमं ॥ ५ ॥  
 (२१) कर्मणां राशिरस्तोकलोकोद्गम (२२) संसृतेः कारणं मे जिनेशावमं ।  
 (२३) पूर्णपुण्याद्य दुःखं विधत्तेऽतिमं (२४) एर्ण(न)कमस्त्वां विना कोऽपि तं दुर्गमं ॥ ६ ॥  
 (२५) कर्मणं निर्द्वेहंतुमन्योऽसमः (२६) यं(य)करात्पूज्य तेनोच्यते निर्ममं ।  
 (२७) श्रीपते तं जहि जाग् विधापोद्यमं (२८) दानशौडाद्य मे देहि रुद्रिप्रमं ॥ ७ ॥  
 (२९) यस्य कृपानलधंविश्रामं (३०) कंठगताशुसुजटसंप्रामं ।

हुआ है उसके लो पत्रियों में पचीस श्लोकों के लो खरण हैं और केंद्र में 'मः' जो अक्षर है वही ये सब खरणों के अंत का अक्षर है । शब्दों के भादि अक्षर लेकर पद बनाना उतना कठिन नहीं है जितना अंश का अक्षर मिलाना कष्ट साध्य है ।

श्री जैसलमेर-निवासो, ओसवाल कुल भूषण, अरतरगच्छोय संघवी याहइसाह अणशाली ने सं० १६७१ में यह चार्धनाथ जोके मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था । उसो उत्सव पर भाये हुये साधु मंडलियों में से सहजकीर्ति गणि नामक किली विद्वान की यह कीर्ति है ।

यह लेख G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट के पृ० ७१-७१ नं० ६ में प्रथम प्रकाशित हुआ है । पाठ में कुछ अशुद्धियां हैं । यहाँ कुछ पाठ प्रकाशित करने के लिये यथासाध्य प्रयास किया गया है ।

- (३१) जयजनकऽप्यायामं  
 (३२) जेतारं जगतः श्रितयामं ॥ ७ ॥  
 (३३) कक्षीकृतवसुभृतपुर्ग्रामं  
 (३४) क्षापोश्चारमहामं ।  
 (३५) केशोच्चयमिह नयने क्षामं  
 (३६) खिंगति कमलां कुरु ते क्षेमं ॥ ८ ॥  
 (३७) कक्षयति जगताप्रेमं  
 (३७) क्षंजयति सौख्यं षट्क्षमुहामं ।  
 (३८) काक्षं हंति च गतपरिणामं  
 (३८) महतंमहिमस्तोमं ॥ १० ॥  
 (४१) रसनयेत्पित्तदानसुरद्रुमं  
 (४१) हितमहीरुहृद्भिज्जलोत्तमं ।  
 (४२) तं(त)रुष्यपुण्यरमोदयसंगमं  
 (४४) समरसामृतसुंदरसंयमं ॥ ११ ॥  
 (४५) हिनस्ति सङ्क्रानवशातस्य मध्यमं  
 (४६) तं तीर्थनाथं स्वमतःपुत्रवंगमं ।  
 (४७) सुरासुराधीशममोघनैयमं  
 (४७) रैः नाथसंपूजितपद्भुगंस्तुमं ॥ १२ ॥  
 (४८) संसारमाखाकुलचित्तमादिमं  
 (५०) सास्त्रार्थसंवेदनशून्यमभ्रमं ।  
 (५१) रम्यासजावस्थितपूर्णचिह्नमं  
 (५१) सर्पांकितः शोषितपापकर्षमः ॥ १३ ॥  
 (५३) रत्नत्रयासंकृतनित्यहेम  
 (५४) सीमाद्रिसारोपमसत्त्वसोम ।  
 (५५) शोचामयो ज्ञानमयं विसामं  
 (५६) षड्वर्गं मां देव विभेद्यकामं ॥ १४ ॥  
 (५७) जावविजासकनष्टविलोमं  
 (५७) स्कंदितस्कंदक्षतं प्रणमामं ।  
 (५८) रंगपतंगनिवारण सुजीमं  
 (६०) कंबुदानं जिनपहत ते जौमं ॥ १५ ॥  
 (६१) मंत्रेश्वरः पार्श्वपतिः परिभ्रमं  
 (६१) क्षाक्षाश्रितस्थापनया मनोरमं ।  
 (६३) कर्मोत्थितं मे जिनसाधु नैगमं  
 (६४) रंजाविद्यासासनेत्रनिर्गमं ॥ १६ ॥  
 (६५) समितिसारशरीरमविभ्रमं  
 (६६) हरिनतोत्तमभूरिगमाणमं ।



- (६७) श्रयत तं नितमानजुजंगमं (६८) फलसमृद्धिविधानपराक्रमं ॥ १७ ॥
- (६९) ण्मैर्यशः सृजति शं जिनसाठ्वर्जौमः (७०) तारस्वरेण विबुधैः श्रित शतैर्होम ।
- (७१) शोकारिमारिविरह्यतवात्तदामं (७२) जठ्यैः स्तुतं निहतदुर्मतदंडषमं ॥ १८ ॥
- (७३) माद्यांबुजध्वंसविधौ महद्भ्रमं (७४) न वाजयत्याशु मनस्तुरंगमं ।
- (७५) मंत्रोपमं ते जिन राम पंचमं (७६) स्तवेन युक्तं गुणरत्नकुट्टिमं ॥ १९ ॥
- (७७) कलिशैलोरु व्याधाम (७८) माहात्म्यं हृदयंगमं ।
- (७९) लब्धश्रितवसुत्रामं (८०) यंतिवर्गस्तुतं नुमं ॥ २० ॥
- (८१) लोकोत्पत्तिविनाशसंस्थितिविदां  
मुख्यं जिनं वै स्तुतं (८२) द्रव्यारक्तसमाधरं नमत जो  
पूजां दगं पाश्चिमं ।
- (८३) परपक्षस्य तव स्तवं त्वन्नमित्तकरींद्रगे (८४) तत्तद्भावमयं वस वदतस्त्रैकाच्यस्तर्वद ॥२१॥
- (८५) नयनाननसद्रोमं (८६) संततिं तव जंगम ।
- (८७) स्थावराशु(सु)मतां स्याम (८८) नयते शमकृत्रिमं ॥ २२ ॥
- (८९) दासानुदासस्य मम (९०) नवानंद विहंगमं ।
- (९१) माद्यति प्राप्य सुमं (९२) नंपा(नया)क्षतां महाद्रुमं ॥ २३ ॥
- (९३) क्षमाबोहित्यनिर्यामं (९४) मानवाचर्यं महाक्षमं ।
- (९५) गुणिपूज्यं प्रीणयाम् (९६) हं(रु)चिं स्तौमि नमं नमं ॥ २४ ॥
- (९७) स्मरंति यं सुंदरयक्षकर्षमं (९८) रागात् समादाय महंति कौकुमं ।
- (९९) मिथो मिश्रित्वा मवुजाख्यकुंकुमं (१००) चंद्राननं तं प्रविशोक्तताडमं ॥ २५ ॥

[ १६४ ]

( केंद्र में ) \*

मं: १००

( उपरि भागमें )

( दाहिना भंश )

- ( १ ) इत्थं पार्श्वजिनेश्वरो जुवनदिवकुञ्ज्यंगधं
- ( २ ) द्वात्मके वर्षे वाचकरत्नसारकृपया राका
- ( ३ ) दिने कार्तिके । मासे लोडपुरस्थितः शतद
- ( ४ ) लोपेतेन पद्मेन सन् नूतोयं सहजादिकी
- ( ५ ) तिगणिना कष्ट्याणमालाप्रदः ॥ १५ ॥

\* केंद्र में जो 'मं: १००' लिखा हुआ है वही सांकेतिक वर्ण है, अर्थात् यंत्र के सौ पल्लवियों में लिखे हुए पचीस श्लोकों के सौ चरणों का अंत अक्षर है ।

केंद्र के अतिरिक्त वृत्त के परिधि में सौ पल्लवियों के सौ कोठे बने हुये हैं । उन सबों के चरणों के जो प्रथम अक्षर हैं उन से भी इस प्रकार श्लोक बनते हैं :—

श्रीवामातनयं नीतिलताधं न घनागमं ।

सकला लोक संपूर्णकायं श्रीदायकं जजे ॥ १ ॥

कला केलिं कलंकामरहितं सहितं सुरैः ।

संसार सरसी शोष जास्करं कमलाकरं ॥ २ ॥

सहस्र फणता शोचमान मस्तक मालयं ।

लोडपतन संस्थान दान मानं कामा गुरुं ॥ ३ ॥ स्मरामिचं

( बायां अंश )

- ( १ ) ॥ ऐं नमः ॥ श्रीसाङ्घिर्गुणयोगतो युगवरेत्यञ्जपदं वत्तवान् । येन्यः श्री  
 ( २ ) जिनचन्द्रसूरय इक्षा विख्यातसत्कीर्त्तयः । तत्पट्टेमिततेजसो युगव  
 ( ३ ) राः धाजैनसिंहाजिधास्तत्पट्टांबुजजास्करा गणधराः श्रीजैनराजाः  
 ( ४ ) श्रुताः ॥ १ तैर्जाग्योदयसुंदरै रि  
 ( ५ ) पुसरस्वत्षोडशाब्दे १६७५ ( ६ ) सितछादश्यां सहसः प्र  
 ( ७ ) तिष्ठितमिदं चैत्यं ( ८ ) स्वहस्तश्रिया ।  
 ( ९ ) यस्य प्रौढत ( १० ) रप्रतापत  
 ( ११ ) रणेः श्री ( १२ ) पार्श्वना  
 ( १३ ) शेश ( १४ ) तुः

( दाहिने अंश के नीचे भागमें )

- ( १ ) सोयं पुण्यजरां तनो ( २ ) तु विपुक्षां अक्षी  
 ( ३ ) जिनः सर्व । ( ४ ) दा ॥ २ पू  
 ( ५ ) र्व श्रीस ( ६ ) गरो  
 ( ७ ) नृपो ( ८ ) ज

( नीचे भागमें )

( दाहिना अंश )

- ( १ ) व ( २ ) दक्षं  
 ( ३ ) कारोन्व ( ४ ) ये यादवे

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ( ५ ) पुत्रौ श्रीधर                | ( ६ ) राजपूर्वकधरौ                    |
| ( ७ ) तस्याय ताज्यां क्षितौ ।      | ( ८ ) श्रीमल्लोद्गपुरे जिनेश          |
| ( ९ ) जवनं सत्कारितं षोमसी । तत्पु | ( १० ) अस्तदनुक्रमेण सुकृती जातः सुतः |
| ( ११ ) पूनसो ॥ ३ तत्पुत्रो वरधर्म  | ( १२ ) सदृशैः श्रीमल्लस्तनयोथ तस्य    |
| कर्मणि रतः ख्यातोऽखिलै             | सुकृती श्रीथाहरू ना ।                 |

( १३ ) मकः । श्रीशत्रुंजयतीर्थसंघरचनादीन्युत्तमानि ध्रु

( बायां अंश )

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ( १ ) वं                  | ( २ ) यः का                             |
| ( ३ ) र्याण्य             | ( ४ ) करोत्त                            |
| ( ५ ) यात्वसर             | ( ६ ) फीं पूण्णां प्रति                 |
| ( ७ ) द्वाहणे ॥ ४ प्रा    | ( ८ ) दात्सर्वजनस्य जै                  |
| ( ९ ) नसमयं चाखेखयत्      | ( १० ) पुस्तकं । सर्वं पुण्यजरेण पा     |
| ( ११ ) वनमलं जन्म स्वकीयं | ( १२ ) यं ज्ञयनस्य यस्य जिनपस्योद्धारकः |
| व्यधात् ॥ तेना            | कारितः । साङ्गं सङ्ग                    |

( १३ ) रराजमेघतनयाज्यां पार्श्वनाथो मुदे ॥ ५ श्रीः



[ १६७ ]

मूलनायकजी पर ।

[ 2544 ] \*

- ( १ ) श्रीखोडव नगरे । श्रीवृहत्खरतरगष्ठाधीशैः  
( २ ) सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ गुरौ जांकशाक्षिक श्रीमह्व जाया चांपलदे पुत्ररत्न  
( ३ ) थाहरुकेन जाया कनकादे पुत्र हरराज मेघराजादियुतेन श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथ  
( ४ ) विंबं का० प्र० ज० युगप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिपट्टालंकार ज० श्रीजिनराज  
सूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

पाट पर ।

[ 2545 ] \*

- ( १ ) संवत् १९११ मितो ज्येष्ठ सुदि ११ तिथौ श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथजी रै सिंघासण  
ठां(चां)दी रो साक्षण । बर्द्धमान चढायो श्रीखोडवपुरनयरे  
( २ ) सासतो चढीयो रहसी जंडार मध्ये धरसी तो धरमनी सोगन ठै कारण(कारण)  
विशेषे मोकलो ॥ ( ३ ) श्रीशुजं जवतु ॥

धातुकी मूर्ति और पंचतीर्थियों पर ।

[ 2546 ]

संवत् १४२६ फागुण सुदि ७ काग करवाहा.....यसुदे सुतेन

---

\* श्याम पाषाण की सहस्रफणवाली श्वेत पाषाण के परिकर रहित श्री मूलनायकजी के मनोन्न मूर्ति की  
धरणचौकी पर यह लेख खुदा हुआ है ।

† श्रीमूलनायकजी के चांदी के पाट पर यह लेख है ।

[ १६७ ]

[ 2547 ]

॥ ॐ ॥ सं० १४७४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ दिने जकेशवंशे ज० मठर जा० मेकमादे  
सुत जउदनकेन पुत्र रतना रासणकलाण (?) .....  
.....देह्हा प्रमुख पुत्रादियुतेन सपुण्यार्थ कारितं श्रीवासपूज्य विंबं कारितं  
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगछे श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनजडसूरिजिः । शुभं भवतु ।

[ 2548 ]

॥ ॐ ॥ संवत् १५१० वर्षे माघ सुदि ५ दिने गुरौ श्रीजकेशवंशे लूणीया गोत्र सा०  
सोहेर जा० ईसरदे पुत्र सा० सहसाकेन जा० रूपादे पु० जयतादिपरिवारयुतेन श्री  
शांतिनाथ कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनजडसूरिजिः श्रीखरतरगछे ।

[ 2549 ]

॥ सं० १५१७ वैशाख वदि ५ दिने श्रीजकेशवंशे जणशाळी गोत्रे सा० हरीजां चार्या  
हांसखदे पुत्रेण सा० वणवीर श्रावकेण चार्या सीलू पुत्र दशरथादियुतेन श्रीचंडप्रज  
विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगछे श्रीजिनचंडसूरिजिरिति ।

[ 2550 ]

॥ संवत् १५६७ वर्षे वैशाख सुदि ३ दिने जकेशवंशे बुहरा गोत्रे सा० चारमल्ल  
जा० जोजलदे जा० वारिणि पुत्र सा० तोला पु० सा० अमरा सुश्रावकेण जा० सारू  
पु० सा० महिराज सा० मेरा सा० पासा प्रमुख परिवार सहितेन श्रीवासपूज्य विंबं स्वधे-  
योर्य कारितं प्रतिष्ठितं श्रीबृहत्खरतरगछेश श्रीजिनहंससूरिजिः ॥ श्रीशुभं भवतु ॥

[ १६९ ]

[ 2551 ]

॥ संवत् १५७१ वर्षे वैशाख व० १३ शुके श्रीश्रीमाल ज्ञातीय मोरी आसा जा० लोखू  
सुन श्रे० जीवा जसंग हरषा लाषा जेसिंग जा० जसमादे आत्मश्रेयसे श्रीजीवतस्वामि  
श्रीचंद्रप्रजस्वामि बिंबं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीनागेंद्र गढे श्रीगुणरत्नसूरिनिः ॥  
मांडलि वास्तव्य ॥

[ 2552 ]

सं० १६७५ वर्षे वैशाख सुदि १३ शुके फोफलिया गोत्रे जेठा पुत्र धरमसी पुत्र  
धनजी युत जार्या लाडोदे जार्या पांची । पुत्र रतनसी केन का० श्रीपार्श्वनाथ बिंबं  
प्रतिष्ठितं श्रीजिनराजसूरिनिः खरतरगढे ।

चौबीसी पर ।

[ 2553 ]

सं० १५०३ वर्षे पौष सु० १२ गुरू सरसापत्तन वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय सं०  
वस्ता जार्या लद्धी सुत वीधा सुहड़ा मेघराजेन हंसराज श्रीरंग सुत जोजा जीवराजादि  
कुटुम्ब युतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथ चतुर्विंशतिपट्टः कारितं प्रतिष्ठितं तपागुणनायक  
श्रीजयचंद्रसूरिनिः ॥ शुभं जवतु ॥ श्रीः ॥

[ 2554 ]

सं० १५१७ वर्षे चैत्र वदि ० शुके श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रेष्ठि जीमसीह जा० शणी  
श्रेयसे सुत वरसाकेन जा० रानू पुत्र भाणिक सहितेन आत्मश्रेयोर्थः श्रीविमलनाथ चतु-  
र्विंशतिपट्ट का० पिप्यल० श्रीविजयदेवसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं श्रीशालिचंद्रसूरिनिः ॥

[ १९० ]

[ 2555 ]

संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने ऊकेशवंशे लूणीया गोत्रे सा० लोहर पुत्र  
सा० महसा जा० रूपादे पु० साहलदे पुत्र पदाकेन त्रातृ सदा महिराज मन्त्र प्रमुख  
परिवार युतेन श्रीश्रेयांस विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगञ्जे श्रीजिनचंद्रसूरिपट्टे  
श्रीजिनचंद्र सूरिजिः ।

पाडुका पर ।

[ 2556 ]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फा० सुदि ५ दिने श्री ऊकेशवंशे संषशास्त्र गोत्रे सा०  
आपमह्य पुत्र सा० मेघा पुत्र सा० आसराज पुत्र.....नाम्ना पुत्र सा० षेता  
पुत्र स० चांदा नोडादि युतया श्रीआदिनाथ पाडुका युग्मं कारयामास ॥ प्रतिष्ठिता  
श्रीखरतरगञ्जे श्रीजिनचंद्रसूरिजिः ॥

[ 2557 ]

॥ ओं ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ श्रीआदिनाथ ना पादपद्म बाई  
गेली कारिता.....श्रेयोर्थ.....

रौप्य पाडुका पर ।

[ 2558 ]

श्रीकेशरियानाथजी

बाई सूना बनाया



[ १७१ ]

रौप्य गद्दाजी पर ।

[ 2559 ]

॥ बादरमल्लजी जोगीदासाणी खूनावत रुपसिया वा० सं० १९३३ जा ॥ कात्तक  
सु० १५

[ 2560 ]

श्रीनवपदजी महाराज को चढ़ाई चा सालूदे देदारामजी साणी गांम बैसा-  
खेग वासी श्रीखोडवेजी चढ़ायो सं० १९४१ रा मिगसर सुदि ३ । सरूपचंद का

[ 2561 ]

श्रीचिंतामण पार्श्वनाथजी रे आगे फाती चढ़ायो कोइ उठावण पावे नही  
खोडवपुरे नवलषोजी रे मंदर में जीदोणी.....घरवाखो खठमो चढ़ायो सं० १९३६  
पोस सुदि ९ रवोशर

[ 2562 ]

- ( १ ) सं० १६९३ मार्गशीर्ष सुदि ए सं० थाहरू क यु
- ( २ ) तेन जगिनी सजना स्वमातृ चापखदे जरां
- ( ३ ) वी पाडुकाः ॥ प्र० श्रीजिनराजसूरि.....

बाहर के चरणों पर ।

[ 2563 ] •

॥ सं० १७९० मिगसर वदि ए दिने श्रीजिनकुशखसूरि पाडुके । कारापिता  
। स । दमसी जेराज श्रेयोर्थ

---

\* यह श्रेष्ठ पाषाण के चरण मंदि के बाहर बायें तरफ विराजमान हैं ।

[ १७२ ]

[ 2564 ] +

.....कुशलसूरिः

गणपति मूर्ति पर ।

[ 2565 ] \*

- ( १ ) ॐ सं० १३३७ फा० सु० २ श्रीमामा मणोरथ मंदिर योगे श्रीदेव
- ( २ ) गुप्ताचार्य शिष्येण समस्त गोष्ठि वचनेन पं० पद्मचंद्रेण
- ( ३ ) अजमेरु दुर्गे गत्वा द्विपंचासत जिन बिंबानि सञ्चिकादेवि ग
- ( ४ ) [ण]पति सहितानि कारितानि प्रतिष्ठितानि.....सूरिणा

मंदिर नं० १

मूलनायकजी पर ।

[ 2566 ] †

- ( १ ) ॥ सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ गुरो ज० थाहरू जार्या कनकादे पुत्री  
वीरां कारितं


---

+ यह पातुका पीले पाषाण में खुदे हुए हैं ।

\* यह लेख मकराने की गणपति मूर्ति की चरण चौकी पर खुदा हुआ है और श्रीमंदिरजी की फेरी में दाहिने तरफ रखा हुआ है ।

† मूल मंदिर के चारों कोने में चार शिखरबंद छोटे मंदिर अवस्थित हैं । दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में यह मंदिर है । इसमें पीले पाषाण की परिकर सहित श्वेत पाषाण की मूलनायकजी की मूर्ति विराजमान है । मूर्ति के चरण चौकी पर का यह लेख है ।

लोद्रवा  
मंदिर नं० १  
( नं० २५६७ )



PILLAR  
INSCRIPTION  
TEMPLE No. I  
LODRAVA

लोद्रवा मंदिर नं० १ ( नं० २५६६ )

॥ सं१६०५ मार्गशीर्षसुदि० १० सात्वती संघवा-  
घाद सूक्तप्रतीयादिनावादेव गृहसूक्तधुताय मुद्राया देवी-  
पुण्याधकारिपतिशितश्रीजिनमः ॥

INSCRIPTION ON PEDESTAL, TEMPLE No. I  
LODRAVA

लोद्रवा  
मंदिर नं० २  
( नं० २५६६ )



PILLAR  
INSCRIPTION  
TEMPLE No. II  
*LODRAVA*

लोद्रवा - मंदिर नं० २ ( नं० २५६६ )

श्रीनु द्वापरपत्रेश्रीमत् श्रीवदत्तरगञ्जाधीशैः

॥१०॥ संवत् १६७५ मार्गशीर्षसुदि १२ शुभे श्रीअजितनाथदेविका० सं० घाट् कृतार्थाश्री०  
कनकादिउत्तरनहराऊनप्रणयुगप्रधान श्रीअजितसिंहसुरिपट्टनाकरश्रीअजितरा० सरिनिः

INSCRIPTION ON PEDESTAL, TEMPLE No. II  
*LODRAVA*

[ १७३ ]

( १ ) ॥ श्रीआदिनाथ विंभं । प्र० श्रीवृहत्स्वरतरगङ्गाधीश श्रीजिनराजसूरिनिः ॥

स्तंज पर ।

[ 2567 ] \*

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| ( १ ) सं० १६९३ मार्गशीर्ष सु | ( २ ) दि ए जणसाखी संघवी    |
| ( ३ ) थाहरूकेण श्री आ        | ( ४ ) दिनाथ देववृह स्व छ   |
| ( ५ ) घुचार्या सुहागदेवी     | ( ६ ) पुण्यार्थमकारि प्रति |
- ( ७ ) छित श्रीजिनराजि

## मंदिर नं० २

मूलनायकजी पर ।

[ 2568. ] †

- ( १ ) श्रीबुद्धपुरपत्तने श्रीमत् श्रीवृहत्स्वरतरगङ्गाधीशैः
- ( २ ) ॥ ओं ॥ संवत् १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ गुरौ ॥ श्रीअजितनाथविंभं का०  
सं० थाहरू चार्या श्रा०

---

\* प्रथम मंदिर के दक्षिण तरफ तोरण स्तंभ पर यह सात पंक्तियों का लेख खुदा हुआ है। इसकी लम्बाई आठ इंच और चौड़ाई सात इंच है। G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट नं० १० में यह लेख छपा है। इसमें 'श्रीजिन-राजसूरिनिः' पाठ है परन्तु लेख की अंतिम पंक्ति में केवल 'जिनराजि' स्पष्ट है।

† यह मंदिर मूल मंदिर के पश्चात् भाग में दक्षिण पच्छिम कोण में अवस्थित है। यह लेख श्वेतपाषाण की मूलनायकजी की मूर्ति पर है और G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट नं० ८ में प्रकाशित हुआ है।

[ १७४ ]

( ३ ) कनकादे पुत्ररत्न हरराजेन प्र० युगप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिपट्टप्रजाकर  
श्रीजिनराजसूरिजिः ॥

स्तंभ पर ।

[ 2569 ] \*

( १ ) सं० १६९३ मार्गशीर्ष सुदि ( २ ) ए जणशाही संघवी थाह  
( ३ ) रुकेण श्रीअजितदेव य ( ४ ) ह पुत्ररत्न हरराज पुण्या  
( ५ ) र्थमकारि प्र० श्रीजिन ( ६ ) राजसूरिजिः ॥

## मंदिर नं० ३

मूलनायकजी पर ।

[ 2570 ] †

( १ ) गच्छाधीशैः ॥

( २ ) ॥ सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ गुरौ श्रीसंजवनाथ विंश का० ज० श्री-  
मल पुत्ररत्न ज० थाहरू जार्या आ०


( ३ ) कनकादेव्या प्र० युगप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिपट्टप्रजाकर श्रीजिनराजसूरिजिः  
श्रीवृहत्खरतर

---

\* मंदिर के तोरण स्तंभ पर छः इंच लम्बा और ० इंच चौड़ा छः पंक्तियों का यह लेख है। यह G. O. S. No. 21. के परिशिष्ट नं० ११ में छपा है।

† यह मंदिर मूल मंदिर के पश्चात् भाग में उत्तर पच्छिम कोण में है और यह लेख मूलनायकजी की श्वेत पाषाण की मूर्ति पर है। इस लेख का अग्रिम अंश 'गच्छाधीशैः' ऊपर के भाग में खुश हुआ है इसलिये यहां पर भी उसी प्रकार दिया गया है।

लोद्रवा  
मंदिर नं० ३  
(नं० २५७१)



PILLAR  
INSCRIPTION  
TEMPLE No III  
LODRANA

लोद्रवा -- मंदिर नं० ३ (नं० २५७०)

गच्छाधीनेः॥

॥ सं० १६५५ मार्गशीर्षसु दि० न० १ साती सं० वा० १६ कृष्णश्री सं० वता १६ वशुद्वं उ० मि० रा० कृष्णश्री सं० राजसु० व० म० व० उ० धर्मकारि ५० श्री जिनराजिः॥

INSCRIPTION ON PEDESTAL, TEMPLE No. III  
LODRANA





[ १७५ ]

स्तंभ पर ।

[ 2571 ]\*

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ( १ ) सं० १६९३ मार्गशीर्ष सु | ( ३ ) दि ए जणसात्री सं० । |
| ( ३ ) थाहरूकेण श्रीसंज्ञ ।   | ( ४ ) वनाथ देव गृहं पुत्र |
| ( ५ ) मेघराज पोत्र नोज       | ( ६ ) राज सुखमल्ल पुण्या  |
| ( ७ ) र्थमकारि । प्र० श्री   | ( ८ ) जिनराजैः            |

## मंदिर नं० ४

मूलनायकजी पर ।

[ 2572 ]†

- ( १ ) ॥ श्रीलोडवा नगरे । श्रीवृहत्खरतरगणाधीशैः ॥
- ( २ ) सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ तिथौ गुरौ जांडशास्त्रिक सा० श्रीमल्ल जा० चांपलदे

\* मंदिर के तोरण स्तंभ पर आठ पंक्तियाँ का यह लेख है । इसकी लम्बाई ८॥ इंच और चौड़ाई ७ इंच है । यह G. O. S. No. 21. के परिशिष्ट नं० १२ में छपा है । इसके पाठ से मूल पाठ में कई जगह अंतर है । वे इस प्रकार हैं :—

पंक्ति २ में	'सं०'	है ;	G. O. S. में	'संघवी'	छपा है ।	
„ ६ में	'सुखमल्ल'	है ;	„	में	'सुखम(?)रूप'	छपा है ।
„ ७ में	'कारि'	है ;	„	में	छूट गया है ।	
„ ८ में	'जिनराजैः'	है ;	„	में	'जिनराजसूरिभिः'	है ।

† मूल मंदिर के बांये तरफ उत्तर दिशा में यह मंदिर है । इस में मूलनायकजी की श्याम पाषाण की बड़ी मवोह सहस्ररूपवाली मूर्ति प्रतिष्ठित है । मूर्ति की चरण चौकी पर यह लेख खुदा हुआ है । यह G. O. S. No. 21. के परिशिष्ट नं० ७ में प्रकाशित हुआ है ।


[ १७६ ]

- ( ३ ) पुत्ररत्न थाइरूकेण चार्या कनकादे पुत्र हरराज मेघराजादियुजा श्री-  
चिंतामणि पार्श्वना  
( ४ ) थ बिंबं का० प्र० च युगप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिपट्टप्रताकर ज० श्री-  
जिनराजसूरिजिः प्रतिष्ठितं ।

स्तंभ पर ।

[ 2573 ] ×

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ( १ ) सं० १६७३ मार्गशीर्ष सु | ( २ ) दि ए जणसाली संघ       |
| ( ३ ) वी थाइरूकेण श्रीपा     | ( ४ ) श्र्वनाथ देवगृहस्य वृ |
| ( ५ ) ऊ चार्या कनकादेवी      | ( ६ ) पुण्यार्थमकारि प्र०   |
| ( ७ ) श्रीजिनराजसूरि         | ( ८ ) जिः ॥                 |



× मंदिर के तोरण स्तंभ पर ६ इंच लम्बा और ७ इंच चौड़ा आठ पंक्तियों का यह लेख है। यह G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट नं० ६ में उपा है।

लोद्रवा  
मंदिर नं० ४  
( नं० २५७३ )



PILLAR  
INSCRIPTION  
TEMPLE No. IV  
LODRAVA

लोद्रवा मंदिर नं० ४ ( नं० २५७२ )

॥ श्री लोद्रवा नगरी श्री वृ हत्वरतर गणधीशैः ॥  
॥ सं १६ ७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ तिथौ गुरो नो म शा लिक सा ० श्री मलना ० चांप ताट  
पुत्र रत्न घोट कु क्कण ना र्क नका द पु वट्ट र राऊ मिघराऊ टियुऊ श्री चिंता मणि पार्श्व ना  
घुबिंबे का ० प्र ० वेद्यु गपधान श्री किनसिंद सरिप ट प्रना करन ० श्री किनराऊ सरिनिः प्रतिष्ठितं

INSCRIPTION ON PEDESTAL, TEMPLE No. IV  
LODRAVA



## पट्टावली पट्टक । \*

[ 2574 ]

### श्रीमहावीर ॥१॥

- ( १ ) श्रीइन्द्रचूति १
- ( २ ) श्रीअग्निचूति २
- ( ३ ) श्रीवायुचूति ३
- ( ४ ) श्रीव्यक्त ४
- ( ५ ) श्रीसुधर्मस्वामि ५
- ( ६ ) श्रीमंडित ६
- ( ७ ) श्रीमौर्यपुत्र ७

● यह शिलालेख मंदिर के उत्तर तरफ दीवार के सहारे रखा हुआ है, परन्तु खेद है कि असावधानता के कारण टूट गया है। मालूम होता है कि शिला को लम्बाई अधिक होने से, और किसी स्थान पर जमा कर सुरक्षित नहीं रहने से ऐसी दशा हुई है। इसकी लम्बाई अन्दाज़ ४ फीट और चौड़ाई १॥ फीट से कुछ अधिक है। मेरे आज तक जितने शिलालेख देखने में आये हैं और जितने अन्यत्र प्रकाशित हुए हैं उनमें से किसी में भी अपने पट्टावली का शिलालेख देखने में नहीं आया है। इस शिलालेख में श्री महावीर स्वामी से लेकर श्री देवर्द्धि-गणि क्षमाभ्रमण तक आचार्यगण और उनके शिष्यों के नाम खरण सहित खुदे हुए हैं। श्री महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात् ६८० वर्ष व्यतीत होने पर श्रीदेवर्द्धिगणि जी जेनागम को पत्रारुढ़ किये थे। इन के विषय में श्रीकल्प-सूत्रादि में जो कुछ संक्षिप्त परिचय मिलते हैं इस के अतिरिक्त मुझे अद्यावधि कोई विशेष इतिहास ज्ञात नहीं है। शिलालेख में कुल खरणोंकी समष्टि १०६ है, परन्तु देवर्द्धिगणि के नाम के बाद ७, ६० खुदा हुआ है, यह संकेत समझ में नहीं आया। इस के सिवाय शिलालेख के आदि में दक्षिण तरफ नीचे के भाग में तीन कोष्टक में अष्ट मङ्गलिक खुदे हुए हैं, और मध्य में तीन कोष्टक में यथाक्रम से ६,८ और ६ पञ्चड़ियों के कमल खुदे हुए हैं, और एक कोष्टक में स्वस्तिक है, अन्त में दो कोष्टक में नंदावर्ष और स्वस्तिक है। परन्तु लेख में कोई संवत् मिति अथवा प्रतिष्ठा करनेवाले आचार्य या करानेवाले कोई श्रावक अथवा कोदनेवाले का नाम अथवा प्रतिष्ठा स्थानादि का उल्लेख नहीं है।

- ( ८ ) श्रीअकंपित ८
- ( ९ ) श्रीअचलत्राता ९
- ( १० ) श्रीमेतार्य १०
- ( ११ ) श्रीप्रजास ११

### श्रीसुधर्म स्वामि

( श्रीमहावीर स्वामी के पाट पर )

### श्रीजंबू स्वामि

( श्रीसुधर्मा स्वामी के पाट पर )

### प्रजव स्वामि

( श्रीजंबू स्वामी के पाट पर )

### श्रीशय्यंजव

( श्रीप्रमथ स्वामी के पाट पर )

### श्रीयशोजड शिष्य १

( श्रीशय्यंभव स्वामी के पाट पर )

### संचूति विजय

( यशोमद्रजी के पाट पर )

( शिष्य २ )

( १ ) श्रीप्रजव स्वामि

( २ ) श्रीशय्यंजव

( १ ) संचूति विजय शिष्य १२ शिष्यणी ७

( २ ) जडबाहु स्वामि शिष्य चत्वारि ४

( शिष्य-१२ )

( १ ) श्रीनंदिजड १

( २ ) श्रीउपनंद २

( ३ ) श्रीतीसजड ३

( ४ ) श्रीयशोजड ४

[ १७९ ]

- ( ५ ) श्रीसुवर्णजड ५
- ( ६ ) श्रीगणितजड ६
- ( ७ ) श्रीपूरणजड ७
- ( ८ ) श्रीधूलिजड ८ नइ शिष्य २
- ( ९ ) श्रीरुजुमति ९
- ( १० ) श्रीजंबू १०
- ( ११ ) श्रीदीर्घजड ११
- ( १२ ) श्रीपांशुजड १२

( शिष्यणो—७ )

- ( १ ) यद्वा १
- ( २ ) यद्दत्ता २
- ( ३ ) जूता ३
- ( ४ ) जूतदत्ता ४
- ( ५ ) सेणा ५
- ( ६ ) वेणा ६
- ( ७ ) रेणा ७

( शिष्य—४ )

- ( १ ) श्रीगोदास १
- ( २ ) अग्निदत्त २
- ( ३ ) श्रीयद्दत्त ३
- ( ४ ) सोमदत्त ४

श्रीजडबाहु स्वामि

( श्रीसंभूतिविजय के पाठ पर )

**श्रीस्थूलजड**

( श्रीमद्रवाहुस्वामी के पाठ पर )

( शिष्य-२ )

( १ ) श्रीआर्यमहागिरि १

नइ शिष्य अष्टौ ७

( २ ) श्रीसुहस्तिसूरि २ नइ शिष्य १२

( शिष्य-८ )

**श्रीआर्यमहागिरि**

( श्रीस्थूलजड के पाठ पर )

( १ ) श्रीउत्तर १

( २ ) श्रीबलिस्त २

( ३ ) श्रीधनहृ ३

( ४ ) श्रीतिरहु ४

( ५ ) श्रीकोडिण ५

( ६ ) श्रीनाग ६

( ७ ) श्रीनागमित्त ७

( ८ ) श्रीरोहगुप्त ८ ❀

**श्रीसुहस्तिसूरि**

( श्रीआर्यमहागिरि के पाठ पर )

( शिष्य-१२ )

( १ ) श्रीरोहण १

( २ ) श्रीजडयसा २

( ३ ) श्रीमेहगणी ३

( ४ ) श्रीकामहृ ४

( ५ ) श्रीसुस्थित ५

( ६ ) श्रीसुप्रतिबुद्ध ६

\* खविरावलि में इन का 'उदुल्लुप रोहगुप्त' और कहीं 'उदुल्लुप रोहगुप्त' नाम है।



- ( ७ ) श्रीरक्षित ७
- ( ८ ) श्रीरोह्युत ८
- ( ९ ) श्रीरिषियुत ९
- ( १० ) श्रीगुप्त १०
- ( ११ ) श्रीब्रह्म ११
- ( १२ ) श्रीसोम १२

### श्रीसुस्थित ५

( श्रीसुहृत्स्तिस्त्रि के पाठ पर )

( शिष्य—५ )

- ( १ ) श्रीइन्द्रदिम्न १
- ( २ ) श्रीप्रियग्रंथ २
- ( ३ ) श्रीविद्याधर गोपाल ३
- ( ४ ) श्रीरुषिदत्त ४
- ( ५ ) श्रीअर्हदत्त ५

### श्रीइन्द्रदिम्न

( श्रीसुस्थितजी के पाठ पर )

### श्रीदिम्न शिष्यौ २

( श्रीइन्द्रदिम्न के पाठ पर )

( शिष्य—२ )

- ( १ ) श्रीआर्यशांतिसेन १  
नइ शिष्य चत्वारि ४
- ( २ ) श्रीसींहगिरि २  
नइ शिष्य ४

### श्रीआर्यशांतिसेन

( शिष्य—४ )

- ( १ ) श्रीसेन १

**श्रीसींहगिरि**  
(श्रीविष्णु के पाठ पर)

**श्रीवयरस्वामि**  
(श्रीसिंहगिरि के पाठ पर)

**श्रीवज्रसेन**  
(श्रीवयरस्वामी के पाठ पर)

**श्रीआर्यरथ**  
(श्रीवयरस्वामी के तीसरे शिष्य)

**श्रीपुष्पगिरि**  
(श्रीआर्यरथ के शिष्य)

**श्रीकल्याणमित्र**  
(श्रीपुष्पगिरि के शिष्य)

**श्रीधणगिरि**  
(श्रीकल्याणमित्र के शिष्य)

( १ ) श्रीतावस २

( ३ ) श्रीकुबेर ३

( ४ ) श्रीरविपासित ४

( शिष्य—४ )

( १ ) श्रीधणगिरि १

( २ ) श्रीवयरस्वामि २ नश् शिष्य ३

( ३ ) श्रीसुमित ३

( ४ ) श्रीअर्हद्विज ४

( शिष्य—३ )

( १ ) श्रीवयरसेन १

( २ ) श्रीपद्म २

( ३ ) श्रीआर्यरथ ३

श्रीशिवभूति

( श्रीघणगिरि के शिष्य )

श्रीआर्यजड

( श्रीशिवभूति के शिष्य )

श्रीआर्यनक्षत्र

( श्रीआर्यभद्र के शिष्य )

श्रीनाग ❀

( श्रीआर्यरक्ष के शिष्य )

श्रीजेहल

( श्रीनाग के शिष्य )

श्रीबिष्णु

( श्रीजेहल के शिष्य )

श्रीकालिकाचार्य शिष्यौ १

( शिष्य—२ )

( श्रीबिष्णु के शिष्य )

( १ ) संपलित १

( २ ) आर्यजड २

श्रीआर्यबुद्धि

( संपलित और आर्यभद्र के शिष्य )

श्रीसंघपालित

( श्रीआर्यबुद्धि के शिष्य )

श्रीआर्यइस्ति

( श्रीसंघपालित के शिष्य )

\* इनके प्रथम और 'श्रीआर्यनक्षत्र' के बाद 'श्रीआर्यरक्ष' का नाम स्थधिरावली में है।

श्रीआर्यधर्म

( श्रीआर्यहस्ति के शिष्य )

श्रीसिंह

( श्रीआर्यधर्म के शिष्य )

श्रीआर्यधर्म ❀

( श्रीसिंह के शिष्य )

श्रीसंडिल्ल ७३

( श्रीआर्यधर्म के शिष्य )

श्रीइंद्ररुतकण्ह १

श्रीआर्यजंबु २

श्रीआर्यनंदि ३

श्रीदूष्यगणि ४

श्रीस्थिरगुति क्षमाश्रमण ५

श्रीकुमारधर्म ६

❀ श्री ❀

देवद्विगणि


क्षमाश्रमण ७ ९०



\* किसी २ पहावली में इस नाम के स्थान में 'आर्यपरा' है।

नोट:—'श्रीआर्यधर्म' के शिष्य 'श्रीसंडिल्ल' के नाम के नीचे '८३' अङ्क खुदे हैं। इनके बाद 'श्रीइंद्ररुतकण्ह' से लेकर 'श्रीदेवद्विगणि' तक जो सात नाम हैं इनके नामों के साथ १—७ यथाक्रम हैं और 'श्रीदेवद्विगणि' के नाम के साथ ६० अङ्क भी खुदे हुये हैं।

श्रीमद्वबाहु स्वामी के शिष्य श्रीसोमदत्त के चरणों के दाहिने तरफ नंदावर्त के नीचे जो पांच अक्षर खुदे हैं उनके भावापे समक में नहीं आने के कारण यहाँ उल्लेख नहीं किया गया।



## श्री आदिनाथजी का मंदिर ।

प्रशस्ति नं० १

[ 2575 ] \*

- ( १ ) ॥ संवत् १९६० मिते वैशाख मासे सुदि पक्षे ७ तिथौ गुरुवारे महाराजाधिराज महारावस्य श्री
- ( २ ) मूलराजजी विजे राज्ये श्रीदेवीकोट नगरे समस्त श्रीसंघेन श्रीऋषज्जिनदेव ए
- ( ३ ) हं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीमद्वृद्धत्वरतरगच्छाधीश जहारक श्रीजिनचन्द्र
- ( ४ ) सूरि पट्टप्रजाकर श्रीजिनदर्षसूरिजिः श्रेयोस्तुसर्वेषाम् शुभं भवतु श्रीः श्रीः॥

प्रशस्ति नं० २

[ 2576 ] †

- ( १ ) ॥ श्रीमद्विघ्नेविघ्नेघ्ननमः ॥ श्रीमन्नुपति वीर विक्रमादित्य

\* देवीकोट जेसलमेर से पूर्व की तरफ बारह कोस पर है । वर्तमान समय में यहां बस्ती अधिक नहीं है । ग्राम के एक तरफ यह मंदिर स्थित है । मंदिर के भीतर बाहिने तरफ उत्तर दीवार में यह शिलालेख पोले पाषाण में है ।

† यह प्रशस्ति भी मंदिर के भीतर पूर्व की दीवार में लगा हुआ है ।

[ १७६ ]

- ( १ ) दशरात् १७६० शालिवाहन कृत शाके १७१५ प्रवर्त्तमाने
- ( ३ ) मासोत्तममासे वैशाख सुदि ७ दिने श्रीदेवीकोट मध्ये
- ( ४ ) श्रीऋषभदेवस्य मंदिरं त्रिंब सहितं श्रीसंघेन कारापितं प्र
- ( ५ ) तिष्ठितं च श्रीवृहत्स्वरतरगणाधीश्वरेण जं । यु । ज श्रीजिन
- ( ६ ) हर्षसूरिजिः तत्पट्टप्रजाकर जं । यु । ज श्रीजिनमहेन्द्रसूरि
- ( ७ ) जिः सं० १७७७ वर्षे चैत वदि ७ दिने पधास्या महामहोत्सवेन तत्र
- ( ८ ) मंदिरस्य पुनः गुरुस्थूंजस्य जीर्णोद्धार कारापितं । तथे श्री सं
- ( ९ ) घरे माहो मांदि दोनोहिवासरे धडा था सु अकमेक क्रिया व
- ( १० ) डो जश हुवो मास १ रद्या धर्म री महिमा घणी हूर्ई षमास
- ( ११ ) मणां प्रमुख री जक्ति विशेख साचवी तस्य प्रशादा
- ( १२ ) त् श्रीसंघ रे सदा मंगलमाळा जवतुतराम् ॥ श्रीः
- ( १३ ) श्रीरस्तुः ॥ कल्याणमस्तुः

पंचतीर्थीये पर ।

[ 2577 ]

सं० १५१४ वर्षे फागुण सुदि १० सोमे उपकेश झा० धेष्टि गोत्रे महाजनी  
शाखायां म० वानर जा० त्रिमन्नादे पु० नादह जा० नादहणदे पु० पुंजा सहितेन  
श्रीशांतिनाथत्रिंबं का० प्र० उपकेश ग० ककुदाचार्य सं० श्रीककसूरिजिः ॥ पारस्कर  
वास्तव्यः श्री ॥ त्रातुव्यसंमाम ॥

[ १८७ ]

[ 2578 ]

संवत् १५३४ वर्षे आषाढ सुदि २ दिने उकेशवंशे बायडागोत्रे सा० सूरु जा०  
माणिकदे पु० सा० जांजण सुश्रावकेण जा० पूनी पु० गांगादी परिवार सहितेन श्री  
मुनिसुव्रतर्षिबं कारितं प्रति० श्रीखरतरगळे श्रीजिनचन्द्रसूरिपट्टे श्रीजिनचन्द्रसूरिजिः ॥

चौवीसी पर ।

[ 2579 ]

संवत् १५१२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १ दिने बुधवासरे ओशवाल झातीय कुंवर गोत्रे सं०  
जेसल जा० जयश्री पु० जगसी जा० रूपादे पु० पीया जा० प्रेमव्रदे पु० समा देता  
श्रीमल सहितेन सं० पांथाकेन आत्मपूण्यार्थे श्रीत्रिमलनाथर्षिबं कारापितं प्रतिष्ठितं  
श्रीधर्मघोषगळे श्रीविजयचन्द्रसूरिपट्टे ज० श्रीसाधुरत्नसूरिजिः ॥



[ १७७ ]

दादाजी के स्तूप पर ।

[ 2580 ] \*

- ( १ ) ॥ श्रीसद्गुरुभ्योनमः ॥ संवत् १७९४ वर्षे
- ( २ ) शाके १९३९ प्रवर्त्तमाने मासोत्तममासे
- ( ३ ) मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे वशमी तिथौ गु
- ( ४ ) रुवासरे । श्रीदेवीकोट नगरे श्रीबृहत्ख
- ( ५ ) रतरगुह्यीय समस्त श्रीसंघेण दादाजी
- ( ६ ) श्रीश्रीजिनकुशलसूरिजी स्तूपशाला
- ( ७ ) कारापिता ॥ जं । यु । ज । श्रीजिनद्वर्षसूरिजी
- ( ८ ) .....वा । जैसारजीगणि । पं । प्र । अमरसिं
- ( ९ ) .....पं । रिधविलास उपवेशात्
- ( १० ) ॥ श्रीरस्तु ॥







## श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर ।

शिलाखेख ।

[ 2581 ] \*

- ( १ ) ॥ स्वस्तिश्री संवत् १९४४ शाके ॥
- ( २ ) १८०९ माघ शुक्ल ८ शनौ प्रवर्त्त ॥
- ( ३ ) माने ब्रह्मसर ग्रामे पार्श्वजिनचैत्यं
- ( ४ ) महारावसजी श्री श्री १०५ धीवैरिशा
- ( ५ ) लजीविजयराज्ये कारापित ओशवंशे
- ( ६ ) वाग(रे)चा गोत्रे गिरधारीलाल जार्या सिण
- ( ७ ) गारी तस्युत्र हीरालालेन प्रतिष्ठितं जै
- ( ८ ) नजिडू मोहनमुनिना प्रेरक वाग(रे)चा
- ( ९ ) अमोलखचन्द पुत्र माणकलालेन कृ
- ( १० ) तं गजधर महादान पुत्र आदम ना
- ( ११ ) मेण श्रेयोचूयात् शुजं जवतु

---

\* 'ब्रह्मसर' और 'गजकपसागर' ये दोनों स्थानों के लेख मुझे जेसलमेर के कारतरगच्छ के बड़े उपासके के पं० लक्ष्मीचंद्रजी यति की कृपा से प्राप्त हुये हैं। यह स्थान जेसलमेर से उत्तर की तरफ चार कोस पर है। यह लेख मंदिर के बांये तरफ है।

[ १७०. ]

मूलनायकजी पर ।

[ 2582 ]

- ( १ ) ॥ निशेषानंता मंडलेन्द्र श्रीमद्विक्रमादित्यराज्यास्संवत्सिद्दिगजनेत्रांकोर्विमिते  
मासोत्तम माघाज्जुन त्रयोदश्यां
- ( २ ) गुरुयुतायां कम(१)वास्यां ॥ सं० १९१७ का शके १९९३ प्रवर्त्तमाने माघ शुद्ध  
१३ गुरौ श्रीपार्श्वजिनर्षिं
- ( ३ ) बं प्रतिष्ठितं श्रीमद्वृहत्खरतरगङ्गाधीश्वर श्रीमन्महेन्द्रसूरि पट्टप्रजाकर जं ।  
यु । प्र । सकल ज । चक्रचूडामणि
- ( ४ ) श्रीजिनमुक्तिसूरिजिः श्रीमन्महाराजाधिराजा महारावलजी श्रीवैरिशास्त्रजी  
विजयराज्ये कारितं च श्रीजेशस्त्र-
- ( ५ ) .....

पंचतीर्थियों पर ।

[ 2583 ]

सं० १५१३ वर्षे प्राग्वाट सं० केडहा जा० कीडहणदे सुत सं० नाना चांपाकेन  
जा० गुरी पु० मांडणादि कुटुम्बयुतेन स्वपितृव्य सं० कान्हा श्रेयसे श्रीनमिनाथर्षिबं  
का० प्रतिष्ठितं तथा श्रीसोमसुन्दरसूरि शिष्य श्रीरत्नशेखरसूरिजिः ... ल पुर्गे ॥

[ 2584 ]

॥ संवत् १५२४ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीमात्र ज्ञातीय व्य० रत्ना जा० रत्नादे  
सु० हरीया जा० लाली सु० लषमणाजिधेन स्वपितृ श्रेयार्थं श्रीशांतिनाथर्षिबं श्री  
पूर्णिमापदे श्रीपुष्करस्नसूरीणामुपदेशेन कारि० प्र० विधिना वाराहि ग्रामे ॥

[ १७१ ]

## दादाजी के स्थान पर ।

शिक्षालेख नं० १

[ 2585 ] \*

- ( १ ) ॥ संवत् बह्मिप्रहादिनागचन्द्रवर्षे ( १७७३ )
- ( २ ) कार्तिकमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यांतिथौ
- ( ३ ) भृगुवारे कृतो(?) श्रीश्रीवृहत्स्वरतरंग
- ( ४ ) छे ज । श्रीजिनहर्षसूरिजिः पं० खूबचंद शि
- ( ५ ) ष्य । पं । प्र । जगविशालमुनि उपदेशात् दादा
- ( ६ ) जी श्रीजिनकुशलसूरिश्चर जीर्ण पादुका
- ( ७ ) परि नवीन थुंजशास्त्रा कृता श्रीब्रह्मसर ग्रामे
- ( ८ ) अशदास्य समस्त श्रीसंघ सहितेन प्रतिष्ठा कृ
- ( ९ ) ता महारावल श्रीगजसिंहजी वारे तथा सी
- ( १० ) यड़ जोजराज श्रीब्रह्मसर कुंडात् पश्चिम दिशे थुं
- ( ११ ) जशाल स्थापना कृता १७७३ गजधर सरूपा ॥

शिक्षालेख नं० २

[ 2586 ] †

॥ सेठ चांदमखजी बाफना की तरफ से मरामत करी सं० १७६२ सांवण सुद २

\* ब्रह्मसर से लगभग एक मील उत्तर की तरफ दादाजी का स्थान है । यह ठेक मंदिर के बांये बरफ दीवार पर है ।

† मंदिर के नवीन फरों पर यह ठेक है ।

[ १९२ ]

पाडुका पर ।

[ 2587 ]

॥ श्रीगोड़ी पार्श्वनाथ पाडुका कारितं ब्रह्मसर संघेन श्री जं । यु । ज । महेन्द्रसूरि-  
जिः प्रतिष्ठितं १७९६ मि० फागुण सुदि ४


[ 2588 ] \*

॥ सं० १७९६ वर्षे मित्ती फागुण सुदि ४ तिथौ शनिवारे श्रीमद्वृद्धरत्नरतरगळे  
ब्रह्मसर ना समस्त श्रीसंघेन श्री जं । यु । ज । मणियाळा जिनचन्द्रसूरिजी गुरो  
पाडुका कारितः श्री जं । यु । ज० । श्रीजिनमहेन्द्रसूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[ 2589 ]

॥ श्रीजिनदत्तसूरि पाडुका ॥





## दादास्थान ।

शिलालेख ।

[ 2590 ] †

( ? ) ॥ श्रीमङ्गिनेन्द्रो विजयताम् ॥

- ( १ ) ॥ संवत् १९२१ रा वर्षे शाके १७७६ प्रवर्त्तमाने मा
- ( ३ ) सोत्तममासे माघमासे शुक्लपक्षे नवम्यांतिथौ
- ( ४ ) शनिवासरे महाराजाधिराज महारावळजी श्री
- ( ५ ) वैरीशास्त्रजीविजयराज्ये श्रीजेशस्त्रमेरु नगरे
- ( ६ ) वृहत्खरतर जहारक गच्छे समस्त श्रीसंघेन श्री
- ( ७ ) गजरूपसागर ऊपर श्रीजिनकुशलसूरि स
- ( ८ ) दुरुणां स्थंज उतरी पाण्डुका कारापित श्रीजि
- ( ९ ) नमहेन्द्रसूरिपट्टालंकार श्रीजिनमूक्तिसूरिजिः
- ( १० ) धर्मराज्ये श्रीजिनजद्रसूरिशाखायां पं । प्र । पद्महंश
- ( ११ ) मुनिः तत्शिष्य उपाध्याय साहिवचन्द्रगणिः पं । अ

† यह स्थान जैसलमेर से उत्तर की तरफ दो मील पर है और यह शिलालेख वहां के दादेजी के स्थान का है ।

[ १९४ ]


- ( १२ ) गरुडचन्द्रमुनिः उपदेशात् आग्रह नागे बाबेरो इ  
( १३ ) णि बाबेरी जायगारे पास ठे गजधर आदम विरामाणी ॥

## परसाल पर ।

[ 2591 ]

( १ ) ॥ श्रीजिनोजयतीतरां ॥

- ( २ ) ॥ ओशवास समस्त की पंचायती की परशाख इ  
( ३ ) णी तसाव के बंध ऊपरे थी सु बंध को हरजो देख  
( ४ ) ने परसाख खोलाय कर बंध के पास चोकी करा  
( ५ ) ई च्यारे पासे पेडाक्षिया घनाया इणी चोकी के सा  
( ६ ) ह्याने बंध ऊपरे गुरां धर्मचन्द्र आचार्यगण्ड  
( ७ ) का जिणांकी परसाख ऊपर सुं खुली ठे जिणे के  
( ८ ) सामने चोकी कराई सं० । १९३६ के साल में ॥





( किले पर )

## श्री ऋषभदेवजी का मंदिर ।

शिलालेख ।

[ 2592 ] •

- ( १ ) ॥ वीर सं० १४४९ 卐 दत्त सू । सं । ७६९
- ( २ ) ॥ ओशवं । संघवीगो । बहादरमह्वस्तत्पु । दुष्ठी
- ( ३ ) चन्द्रस्तम्भा । रायकुंवरी स्वांतसमये सर्व शुभ
- ( ४ ) योग्य निमित्त योग्य श्राद्धाधीन स्वलक्ष्मी विधा
- ( ५ ) य सं । १९७८ आश्विन शु । ए चं । वः० स्वर्गगता प
- ( ६ ) श्राद्ध जैसलमेरु दुर्गोपरि श्रीआदिनाथ जिनप्रासा
- ( ७ ) दे श्रेयो निमित्तं तरुनव्ययेन नवीन रावट्टी ।
- ( ८ ) वधाप्य तत्र सं । १९८० वैशाख शुक्लैकादश्यां
- ( ९ ) शुके दादा श्रीजिनकुशलसूरि मूर्ति तत्पा

• शहर के किले पर श्रीजिनदेवजी के मंदिर में श्रीजिनदेवसूरि और श्रीकुशलसूरि महाराज की पादुकार्य नवोन स्थापित हुए हैं वहाँ का यह लेख है ।

[ १९६ ]

- (१०) डुका सम्राट् अकबरप्रतिबोधक श्रीजिन  
(११) चन्द्रसूरि पाडुका नवीनाक्षये चक्रेश्वरी मू  
(१२) तिश्च श्रीवृहत्खर० गङ्गीय गणि श्रीर  
(१३) त्नुमुनि यतिवर्य श्रीवृद्धिचन्द्रेज्यः प्र(ति)स्था  
(१४) पता ॥ पुनस्त्रयशीत्यधस्थित जिन बिंबानि  
(१५) प्रतिष्ठाप्योर्द्ध स्थापितानि ॥ ज्ञयाच्च मू  
(१६) तिः कुशलाख्यसूरेः सत्पाडुका श्रीजिन  
(१७) चन्द्रसूरे श्रीसंघरत्नाकर वृद्धिचान्द्रा ज  
(१८) कार्त्तमवांठापरिपूरकाय ॥ १ वि । छल्ली  
(१९) न्द्रु ॥ साधुत्वां वदद् जादमत्वां मेणुना कृता १



॥ श्री जैन लेख संग्रह एनीय कण्ड समाप्तः ॥







परिशिष्ट - क

संवत् की सूची ।

(विक्रमीय)

संवत्	...	...	खेखांक	संवत्	...	...	खेखांक
११०१	...	...	२४८६	१३२७	...	...	२२२६
११२६	...	...	२२१५	१३२६	...	...	२२३०
११४७	...	...	२१२४	१३३३	...	...	२३८७
११६२	...	...	२२१८	१३३७	...	...	२२३१, २५६५
११७१	...	...	२४१४	१३३८	...	...	२२३२
१२०१	...	...	२२१६	१३३६	...	...	२४१६
१२०५	...	...	२४६५	१३४१	...	...	२२३३
१२०८	...	...	२१४७, २२२०	१३४३	...	...	२२३४
१२१०	...	...	२२२१	१३४५	...	...	२२३५-३६
१२२६	...	...	२४१५	१३४६	...	...	२२३७-३८
१२४७	...	...	२१७६	१३४६	...	...	२३८८
१२५५	...	...	२२२२	१३५२	...	...	२२३६
१२६२	...	...	२२२३	१३५५	...	...	२२४०
१३१०	...	...	२२२४	१३५७	...	...	२२४१
१३१३	...	...	२२२५	१३५८	...	...	२२४२
१३१४	...	...	२२२६	१३६१	...	...	२२४३
१३२५	...	...	२२२७-२८	१३६२	...	...	२२४४

संवत्	खेखांक	संवत्	खेखांक
१३६७	२२४५	१४२७	२११३
१३६८	२२४६	१४२८	२२७३
१३७३	२२६७	१४३०	२२७४
१३७४	२२४७-४८	१४३३	२२७५
१३७६	२३८६	१४३४	२२७६
१३८१	२२४६	१४३६	२११३, २२७७
१३८४	२२५०-५१	१४४०	२२७८
१३८५	२२५२	१४४५	२२७९
१३८६	२२५३	१४४६	२११३
१३८८	२२५४-५५	१४५२	२२८०, २४१८
१३८९	२२५६	१४५५	२२८१
१३९०	२२५७	१४५६	२३६०
१३९१	२२५८-६१	१४५७	२१७७
१३९२	२४७७	१४५८	२२८२
१३९३	२२६२	१४५९	२११२, २२८३
१३९४	२२६३	१४६१	२२८४-८५
१४०४	२२६४	१४६२	२४७८
१४०५	२२६५	१४६३	२१७८
१४१०	२२६६	१४६५	२२८६
१४१६	२२६७	१४६६	२२८७
१४२१	२२६८-६९	१४७३	२११२-१३, २२८८-८९,
१४२२	२२७०-७१		२४१०, २४१७, २४३२,
१४२३	२२७२		२४७६, २५३८
१४२५	२२१३	१४७६	२२१६, २२६०-६२
१४२६	२५४६	१४७९	२४५७

संवत्	खेतांक	संवत्	खेतांक
१४८१	... २२६३-६४	१५०१	... २१४४
१४८२	... २२६५	१५०६	... २४००
१४८३	... २२६६	१५०७	... २३२३-२५
१४८४	... २२६७, २५४७	१५०८	... २३२६-२७, २४१६
१४८५	... २१७६, २३६१	१५०९	... २१४८, २१५६, २३२८-२९
१४८६	... २२६८-६९	१५१०	... २१२६, २१६८, २४५८, २५४८
१४८७	... २१३६, २३००-०१, २४३६	१५११	... २१५४, २१८३-८४, २३३०,
१४८८	... २३०२-०३		२३३१, २४६८, २४८०
१४८९	... २३०४-०५	१५१२	... २१३६, २१६५, २३३३,
१४९०	... २१३६, २३०६, २४५०		२३३४, २४२०, २५७६
१४९२	... २३०७ ०६	१५१३	... २१५२, २१६०, २१६६, २१८५,
१४९३	... २११४, २१३८, २१८०, २३६२, २४३८		२१८६-८८, २४४२, २५८३
१४९४	... २१३६, २४११, २५१७	१५१४	... २३३५, २५७७
१४९५	... २३१०	१५१५	... २१४६, २१७०, २३३६,
१४९६	... २३११		२४१२, २४६३, २५२१
१४९७	... २१३६, २१४२-४३, २१४५-४६, २१५७, २१८१, २३१२-१३, २४५१-५२	१५१६	... २१६१, २१७१-७२, २३३७-३६, २४८१
१४९८	... २३१४	१५१७	... २५५४
१४९९	... २३१५	१५१८	... २११६-१६, २१२२-२३, २१२५, २१३०-३१, २१४०-४१,
१५००	... २३१६		२१८६-६१, २३४०-४२, २३८२-८३, २४८२
१५०१	... २१८२, २३१७	१५१९	... २३४३-४५, २४२१-२२
१५०२	... २१५८	१५२०	... २१२८, २१६६
१५०३	... २३१८-२२, २४५३, २५५३	१५२१	... २४१३

संवत्

खेखांक

संवत्

खेखांक

१५२२	...	...	२३४६, २३६८
१५२३	...	...	२१३२, २१६२
१५२४	...	...	२१५४, २५२५-२६, २५८४
१५२५	...	...	२१५०, २३४७
१५२७	...	...	२१६२, २३४८, २३६३
१५२८	...	...	२१६३, २३४६-५०, २३८४, २४२३, २५४६
१५२९	...	...	२४५४, २४८३
१५३०	...	...	२४२४
१५३१	...	...	२३५१
१५३२	...	...	२३५२, २४३७, २४५५, २५२२
१५३३	...	...	२१७३, २१६४, २४६४
१५३४	...	...	२१३३, २३५३-५४, २५२७, २५७८
१५३५	...	...	२२१७, २३५५-५६, २३६४-६५, २४२५
१५३६	...	...	२१२०-२१, २१२६, २१५३-५४, २१६३, २१६५-६६, २३५७ ५८, २३६६, २३६६-२४०६, २४०६, २४२६-२८, २५२३, २५२८, २५५५-५७
१५३७	...	...	२३५६, २४६६
१५३८	...	...	२२००-०१
१५४२	...	...	२४५६, २५३६
१५५०	...	...	२१३७

१५५१	...	...	२२०२
१५५३	...	...	२४८४
१५५५	...	...	२४८५
१५५६	...	...	२३६०
१५५८	...	...	२२०३, २३६१
१५५९	...	...	२३६२
१५५९	...	...	२२०४
१५६०	...	...	२१३४
१५६१	...	...	२४८६-८७
१५६३	...	...	२४२६
१५६४	...	...	२४०८
१५६६	...	...	२२०५
१५६७	...	...	२२०६, २४४३
१५६८	...	...	२३६७, २५५०
१५७१	...	...	२५५१
१५७३	...	...	२३६३
१५७५	...	...	२३६४, २४६६
१५७७	...	...	२३६५, २४३०
१५७८	...	...	२३६६
१५७९	...	...	२३६७, २४५७
१५८१	...	...	२१५४, २३६८
१५८३	...	...	२१५४
१५८५	...	...	२१५५
१५८७	...	...	२४३४
१५८९	...	...	२४३१

[ १०३ ]

संवत्	खेखांक	संवत्	खेखांक
१५६०	२१६४	१६७८	२४६८
१५६१	२१५१	१६७९	२३८५
१५६३	२३६६	१६८३	२२०७-०८, २२१४,
१५६५	२४८८		२३७४, २५१५-१६
१६०६	२४३३	१६८५	२५०७
१६१०	२४४८	१६८६	२४३५
१६१५	२४४०	१६६३	२५६२, २५६७, २५६९
१६१८	२३७०-७१		२५७१, २५७३
१६२२	२१५६	१७१५	२४७४
१६२५	२१३५	१७५३	२२११
१६२६	२३७२	१७६६	२५०१
१६३६	२४४६	१७७२	२४६२
१६४४	२५१३	१७७४	२२१२
१६४६	२३७३, २४३१	१७८१	२४४६
१६५०	२४६४-६५	१७८३	२५१६
१६५६	२२०६	१७८५	२४७१
१६६३	२५०५	१७६०	२५६३
१६६६	२४३६	१८०३	२५२०
१६७०	२४७३	१८०६	२५०८
१६७२	२२१०, २४६६-६७	१८०७	२४५६
१६७३	२४४७	१८१२	२५०६
१६७४	२५००, २५०६	१८१६	२४७६
१६७५	२५४३-४४, २५५२, २५६६,	१८२५	२५०३
	२५६८, २५७०, २५७२	१८३१	२४४१
१६७७	२५१४	१८४०	२५०२

संवत्	संख्यांक	संवत्	संख्यांक
१८४३	२४४४, २५१०	१८२३	२४४५
१८४६	२५११	१८२६	२५६१
१८५२	२४६०	१८२८	२२१३, २४४५,
१८६०	२५७५-७६		२५३१, २५३३-३६,
१८६१	२५१२		२५४०, २५८२
१८६६	२१६५	१८३२	२५४१
१८७४	२५८०	१८३३	२५५८
१८७५	२५०४	१८३६	२५६०
१८७६	"	१८४१	२५६०
१८७६	२४६१	१८४४	२५८१
१८८१	२५३०	१८४५	२५३१
१८८३	२४७२, २५८५	१८५२	२४६३
१८८६	२५३०, २५८७-८८	१८६२	२५८६
१८८७	२५२४, २५७६	१८८०	२५६१
१८—	२४६२		
१९०१	२४६०, २४६६	( नाग )	
१९०३	२५१८	१११० ( संवत् )	२१७४
१९११	२५४५	( झलाही )	
१९१७	२५४२	४८ ( सन् )	२२०६
१९२१	२५८६		





परिशिष्ट - ख

राजाओं की सूची ।

संवत्	नाम	खेखांक	संवत्	नाम	खेखांक
—	अकबर	२१७५, २५६२	१५१८	बाबिगदेव	२११६-१७, २११६, २१४०
१७८१	भखेसिंह	२४४६	—	"	२१५४
१८०६	"	२५०८	१५८१	जयत(जैत्र) सिंह	२१५४
१८१२	"	२५०६	१५८३	"	"
१५२४	अरडकमल (युवराज)	२५२६	—	"	२११२, २१३६, २१५५
१६७२	कल्याणदास	२४६७	१६७८	जाहंगीर	२४६४
१६७३	"	२४४७	—	श्याम्बकदास	२१३६
१६७५	"	२५०६	—	दुर्लभराज	"
१६७८	"	२४६८	—	दूवा	"
१६८३	"	२५१५	१५३६	देवकर्ण	२१२०, २१५४, २४००, २४०४, २४०६, २४०६
—	केहरी(केसरी)	२११२, २१३६	—	देवराज	२११२, २१३६
१८७६	गजसिंह	२५०४	१७६६	बुधसिंह	२५०१
१८६१	"	२५३०	१६५०	भीम(सेन)	२४६४
१८६३	"	२५८५	१६६३	"	२५०५
१८६७	"	२५२४	१६७२	मनोहरदास ( कुंअर )	२४६७
१६०१	"	२४६६	१६७८	"	२४६८
—	षट्सिंह	२११२, २१३६	१६८५	" ( रावल )	२५०७
१५०५	बाबिगदेव	२१४४			

[ १०६ ]

संवत्	नाम	संख्यांक	संवत्	नाम	संख्यांक
—	मूलदेव	... २११२	१८६१	रूप ( बावली )	... २५३०
—	मूलरात्र [ १ ]	... २११२, २१३६	१८७१	लक्ष्मण	... २११२-१३
—	" [ २ ]	... " "	१८६४	"	... २५१०
१८२५	" [ ३ ]	... २५०३	—	"	... २१३६
१८४०	"	... २५०२	१५८१	नृणकर्ण ( कुमार )	... २१५४
१८४३	"	... २५१०	१५८३	"	... "
१८४६	"	... २५११	१५८५	"	... २१५५
१८६०	"	... २५७५	—	विमल ( मंत्रा )	... २१३६
१८६१	"	... २५१२	१४६३	वैरि(बयर) सिंह	... २११४
१८६२	"	... २१७५	१४६४	"	... २१३६, २५१०
१८७५	"	... २५०४	१४६७	"	... २१३६, २१४५-४६
१६०३	रणजीतसिंह	... २५१८	—	"	... २११६
१६१७	"	... २५४२	१६२१	बेरोशाल	... २५६०
१५२४	रणमल्ल	... २५२६	१६२८	"	... २५३१, २५३३-३४, २५८६
—	रत्नसिंह	... २११२, २१३६	१६३२	"	... २५४१
१८६१	राणाबत ( महाराणी )	... २५३०	१६४४	"	... २५८१
१८६७	"	... २५२४	—	श्रीधर	... २५४३
१८४०	रायसिंह ( युवराज )	... २५०२	—	सागर	... "
१८४६	"	... २५११	१६७८	सलेमसाहि	... २४६८



परिशिष्ट - ग

श्रावकों की जाति-गोत्रादि की सूची ।

जाति-गोत्र	खेखांक	जाति-गोत्र	खेखांक
<b>श्रासवाल [ ऊ०, उमकेश ]</b>			
...	२१३३-३४, २१६०, २१७०, २१७२,	गणधर ...	२११४, २११७-१६, २३६६,
...	२१८२, २२१६, २२२७, २२४७-४८,		२४०५, २५००
...	२२६६-७०, २२७२-७७, २२८१,	गणधर चोपड़ा ...	२४००, २४०२-०४,
...	२२८४, २२८६-८७, २२९५, २३०७-		२४०६, २४०६, २५२३
...	०८, २३१३, २३२१, २३२७, २३५८,	गुलेछा ( गोलवच्छा )	२१३१, २१८५, २१६८,
...	२३६०-६१, २३६६-६७, २३७३,		२३६४, २४७६
...	२३६०, २४२०, २४२४, २४३८, २४५८	शोया ...	...
...	२५२८, २५४७, २५५३	धु... ..	२१३८
	<b>गोत्र ।</b>	चंडालिया ...	...
भाषरी ... ..	...	चांप ... ..	२५२७
भासडवा ( भासात्रा )	२२०३, २२१७, २३१०	चित्रवाल ... ..	२३११
कासपस ... ..	...	चोपड़ा ( चो० ) ...	२१३५, २१३६-४०, २१४२-४३,
कांकरिया ... ..	२३६२, २३६७		२१४५-४६, २१५४, २१५७, २२३४,
कुकड़ा चोपड़ा ...	२१६३, २३६६, २४२६, २४२८		२२८३, २४४२-४३, २४५१-५२
कोरटा ... ..	...	छाजहड़ ... ..	२१५६, २१६६, २३६८,
	२३२५		२४०१, २४०८, २४३७,
			२४४७, २४५८, २५०५-०६

ज्ञाति-गोत्र	संख्यांक	ज्ञाति-गोत्र	संख्यांक
जंबानी	२४४५	बाफणा (बप्पणा, बप्पन.ग)	२१७६, २१६६, २२५३,
जांगड़	२३२२		२३६६, २३६१, २४६०,
जायक	२१६५		२५२४, २५३३, २५३५,
जुंथर	२५७६		२५३०-३१, २५४१
डागा	२३८५, २४३२	बांगरड़	२५३६
डिंडिम	२२०४	बांठिया	२४०४
दातहड़	२४२५	बिनाकिया	२३३७
बेलहरा	२१८३	बूवाडेवा	२२०५
बूगड़	२३३८, २३६५	बोहित्य (बोधरा)	२४६८
बोसी	२६६६	भणसाली (भ०, भाण्डशालिक)	२१८८, २३२८, २४२७,
बांधू	२३१२		२५०१, २५४४, २५४६, २५६७,
नंदवाणेवा	२३५२		२५६६, २५७१-७३
नानहड़	२३४१	भाभू	२४५५
नाहटा	२११६	महाजनी	२३३५, २५७७
नाहर	२१६६, २२३६	मीठाडया	२४५४
परीझ	२१२६, २१८६, २१६७, २४६३, २५२१	रांका	२११३, २१८०, २१८७, २३३१
पलडेवा	२४५६	रीहड़	२१६१, २४८०
परडिया (बल्हडिया)	२३२४, २४७२, २४६२	लालन	२३१७, २३५१, २४८७
बहरा	२३६२	लूनावत	२५५६
बाग (रे) या	२५८१	लूणिया	२१८६, २१६०, २३५४,
बाघमार	२२०१, २४११		२५४८, २५५५
बाघसीण	२३४८	लोढा	२३२३, २४१७
बापड़ा	२५७८	बड़हरा (बउहड़ा)	२१३२, २१६२
		बं०	२१५८

ज्ञाति-गोत्र

खेखांक

बुद्धरा	...	...	२५५०
बंद	...	...	२३३४, २४०२
शंखवाह ( शंखवालेवा )	२१२२-२३,	२१४१, २१४४,	
	२१५४-५५, २१८१,	२१९२-९३,	
	२२८५, २३८२-८४,	२४४०,	
	२५२५, २५५६		
भ्रंष्टि	...	...	२३३४-३५, २५७७
सत्यकी शाखा	...	...	२२९९, २३०१
संघवी	...	...	२५८१, २५९२
साइ	...	...	२४८२
साणी	...	...	२५६०
सांडशाखा	...	...	२३१६
सीसोदिया	...	...	२१८४
सुवी	...	...	२३४०
सु'बिया	...	...	२४५३
सुराणा	...	...	२२७१, २४१२
सुल्ल ( सुल्ल )	...	...	२३५६, २५२६
सुंधा	...	...	२४८८
सोनी	...	...	२२००
हार	...	...	२३४३

श्रीसवाल [ वृद्धशाखा ] ।

----- ... .. २४३६

श्रीसवाल [ साधु-साहुशाखा ] ।

----- ... २१४८, २१७१, २१९६, २४२३

ज्ञाति-गोत्र

खेखांक

गूजर [ गुर्जर ] ।

----- ... .. २४५०

दीसावाल [ डीसावाल ] ।

----- ... २१६७, २२८०, २३५६

डुर्घट ।

----- ... .. २२३७

नागर ।

गोत्र ।

गोठी ... .. २४२२

प्राग्वाद् [ प्राण, पोरवाड़ ] ।

----- २१२५, २१५२, २१७३,  
 २१७८, २१९४, २२३८,  
 २२४०, २२४६, २२५०,  
 २२५८, २२७६, २२९८,  
 २३०६, २३१५, २३१८  
 -१६, २३३०, २३३६,  
 २३४२, २३५३, २३८७  
 -८८, २३९५, २४१६,  
 २४६६, २५८३

प्राग्वाद् [ वृद्धशाखा ] ।


----- ... २१५१, २४५७

ज्ञाति-गोत्र	लेखांक	ज्ञाति-गोत्र	लेखांक
मंत्रिदलीय ।		गांधिक	२३२६
गोत्र ।		गौतम	२४६४
वसीयड	२४२१	धीण	२४२६
काणा	"	फोफकिया	२५५२
वायट ।		मुहवणा	२३७०
...	२२३२	मूसल	२३३३
बुहड ।		सिद्ध	२२६२
...	२२६०	श्रीश्रीमाल ।	
श्रीमाल ।		...	२१३०, २१३६, २१४६, २१६५,
२१२६, २२०६, २२३५, २२४६,		...	२१६८, २१६९, २२०२, २२६२,
२२६३-६४, २२६६, २३०३,		...	२२६६-६७, २३००, २३०४,
२३०५, २३२०, २४६१, २४६८		...	२३०६, २३२६, २३३६, २३४४
२४८३-८४, २५८४		...	-४७, २३४६-५०, २३५५,
गोत्र ।		...	२३६३, २३७०-७१, २३६३,
बा०	२३४६	...	२४०७, २४१३, २४३०-३१,
		...	२४८१, २५२२, २५५१, २५५४
		श्रीश्रीवंश ।	
		...	२३६४



**परिशिष्ट - घ**

## आचार्यों के गच्छ और संवत् की सूची ।



संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक
	<b>श्रंचल गच्छ ।</b>				
१४३६	धीमरि ...	२२७७	१५३५	" ...	२२६४
१४५२	" ...	२२८०, २४१८	१५५६	सिद्धांतसागर सू्रि ...	२३६०
१४५५	" ...	२२८१	१५६१	भावसागर सू्रि ...	२४८७
१४७६	" ...	२२१६	<b>श्रागम गच्छ ।</b>		
१४५२	मेरुबुंग सू्रि ...	२४१८	१५१२	हेमरत्न सू्रि ...	२१६५
.....	" ...	२२१६	१५१६	" ...	२३४४
१४७६	जयकीर्ति सू्रि ...	"	.....	अमररत्न सू्रि ...	२४८५
१४८३	" ...	२२६६	१५५५	सोमरत्न सू्रि ...	"
१५०१	जयकेसरि सू्रि ...	२३१७	<b>उपदेश [ जकेश ] गच्छ ।</b>		
१५०२	" ...	२१५८	१३१४	देवगुप्त सू्रि [ १६ ] ...	२२२६
१५१२	" ...	२३२०	१४३०	" [ १७ ] ...	२२७४
१५२७	" ...	२१६२	१५३८	" [ १८ ] ...	२२०१
१५२६	" ...	२४५४	१५४२	" " ...	२५३६
१५३०	" ...	२४२४	१५५५	" " ...	२२०४
१५३१	" ...	२३५१	.....	" " ...	२३८१, २५६५

संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक			
१३३०	पद्मचंद्र (पं०)	...	२५६५	कौरंट गञ्ज ।				
१३४५	सिद्धसूरि [ १६ ]	...	२२३६					
१३४६	" [ " ]	...	२२३८					
१४८५	" [ १७ ]	...	२१७६, २३६१					
१४६४	" [ " ]	...	२४११	१३८४	वज्रसूरि	...	...	२२५१
१३८६	ककसूरि [ १७ ]	...	२२५३	१५६५	ककसूरि	...	...	२४८८
१३११	" [ " ]	...	२२६१	.....	"	...	...	२३७६
१४६८	" [ १८ ]	...	२३०२	खरतर गञ्ज ।				
१५०७	" [ " ]	...	२३२५					
१५१४	" [ " ]	...	२३३५, २५७७	.....	उद्योतन सूरि	...	...	२१२०, २१४४
.....	"	...	२१७६, २२०४	.....	वर्द्धमान सूरि	...	...	२१२०, २१३६, २१४४
१५०८	... सूरि	...	२३२७	.....	जिनेश्वर सूरि	...	...	२१२०, २१३६, २१४४, २४०१, २४०४, २१०६, २४४६
.....	ककुदाचार्य	...	२२०१, २२०४, २२५३, २२६१, २३२७, २३३५, २३६१, २५३६, २५७७	.....	जिनचंद्र सूरि *	...	...	२११२-१३, २१२०, २१३६, २१४४, २१५३, २१५५, २३५६, २३८५, २३८६, २४०१, २४०४ -०६, २४४६, २४६६, -२५००, २५०४, २५१६, २५१८, २५३३, २५५२, २५७५, २५८८
१५१२	ककुदाचार्य सूरि	...	२३३४	कृष्णर्षि गञ्ज ।				
१४६८	नयचंद्र सूरि	...	२३१४					
.....	जयसिंह सूरि	...	"					

\* संवत् १०८० में अणहिलपुर के दुलेम नृपति की सभा में विजयी होकर 'श्रीजिनेश्वर सूरि' 'खरतर' विख्यात पाये थे, ऐसा प्रवाद है। इनके पाट पर 'श्रीजिनचंद्र सूरि' बैसे थे। इनके पश्चात् खरतरगञ्ज में हर चौथे आचार्य का नाम 'श्रीजिनचंद्र सूरि' मिलते हैं। यह प्रथम श्रीजिनचंद्र सूरिजी से लेकर नवमें श्रीजिनचंद्र सूरिजी (१६३५-५५) तक के जितने नामों में आस संवत् नहीं है वे सब एक साथ ही यहाँ दिये गये हैं।



संवत्	नाम	खेत्तांक	संवत्	नाम	खेत्तांक
.....	अभयदेव सूरि	... २१२०, २१३६, २१४४, २१४६	१४१६	जिनोदय सूरि	... २२६०
११४७	जिनशेखर सूरि	... २१२४	१४२५	"	... २११३
.....	"	... २१६६, २४०१	१४२७	"	... "
.....	जिनवल्लभ सूरि	... २१२०, २१३६, २१४४	.....	"	... २११२-१३, २१२०,
.....	जिनवत्स सूरि	... २११२-१३, २१२०, २१३६, २१४४, २३८५, २४०१, २४०४, २५३०	१४३६	जिनराज सूरि	... २११३
.....	"	... २५३१, २५८६	१४४६	"	... "
.....	जिनपति सूरि	... २१२०, २१३६, २१४४, २४०४	१४५७	"	... २१७७
.....	जिनप्रबोध सूरि	... २१२०, २१३६, २१४४, २४०४	१४५८	"	... २२८२
१३७६	जिनकुशल सूरि	... २३८६	१४५६	"	... २११२, २२८३
.....	"	... २११२-१३, २१२०, २१३६, २१४४, २३८५, २४०१, २४०४, २४०६, २४३५, २४६४-६५, २५०१-०२, २५३१, २५४८, २५६३-६४, २५८०, २५६०, २५६२	१४६१	"	... २२८५
.....	"	... २५७३-६४, २५८०, २५६०, २५६२	१४७५	"	... २५४३-४४, २५५२, २५६६, २५६८, २५७०, २५७२-७३
.....	जिनपद्म सूरि	... २११२-१३, २१२०, २१३६, २१४४, २३८५, २४०४, २४०६	१४७८	"	... २४६८
.....	जिनललिध सूरि	... २११२-१३, २१२०, २१३६, २१४४, २३८५, २४०४, २४०६	१४८३	"	... २५१५
.....	"	... २५६३	१४८३	"	... २५६२, २५६७, २५६६, २५७१, २५७३
.....	"	...	.....	"	... २१२०, २१३६, २१४३-४५, २१४८, २१५३, २१८१, २१८५, -८७, २३०३, २३२३, २३२८, २३३१, २३६७, २३८५, २४०४, २४०६, २४०६, २४३२, २४४२, २४८०, २५४७-४८

संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक
१४५६	सागरचंद्र सूरि ...	२११२	१५१८	जिनमद्र सूरि ...	२४८२
१४६६	जिनवचन सूरि ...	२२८७	.....	" ...	२११७-२०, २१२६, २१३१,
१४७३	कीर्तिराज ...	२११२		" ...	२१४०, २१५३, २१५५, २१६३,
"	जयसागरगणि ...	२११२-१३		" ...	२१७१, २१६०, २१६३, २१६७,
.....	" ...	२१३६		" ...	२३५४, २३५७, २३५६, २३६६,
१४७३	जिनवर्द्धन सूरि ...	२११२-१३, २२८८		" ...	२३६६, २४००, २४०२-०६,
		-८६, २४३२, २४७६,		" ...	२४०६, २४२३, २४२५-२८,
		२५३८		" ...	२४६३, २५२३, २५२५-२६,
"	प्रभाष सूरि ...	२४३२		" ...	२५२८, २५३१, २५४२, २५५५,
"	भाग्य सूरि ...	"		" ...	२५६८, २५६०
१४७६	जिनमद्र सूरि ...	२३६७, २३८५, २४६७	१४८८	जिनचंद्र सूरि ...	२३०३
१४८४	" ...	२५४७	१४६३	" ...	२३६२
१४८७	" ...	२४३६	१४६७	" ...	२१८१
१४६३	" ...	२११४, २१३८, २१८०	१५१३	" ...	२१८८
१४६४	" ...	२१३६	१५१५	" ...	२१७०, २४६३, २५२१
१४६७	" ...	२१३६, २१४२-४३,	१५१६	" ...	२१६१, २१७१
		२१४५-४६, २१५७	१५१८	" ...	२११६-१६, २१२२-२३,
		२३१३, २४५१-५२		" ...	२१३१, २१४०-४१, २१८६,
१५०३	" ...	२३२२		" ...	२१६०, २३४१, २३८२-८३,
१५०५	" ...	२१४४		" ...	२४८२
१५०७	" ...	२३२३-२४	१५२३	" ...	२१३२, २१६२
१५०६	" ...	२१४८, २३२८	१५२४	" ...	२५२५-२६
१५१०	" ...	२५४८	१५२८	" ...	२१६३, २३८४,
१५११	" ...	२१८३, २३३१, २४८०		" ...	२४२३, २५४६
१५१३	" ...	२१६०, २१८५-८७, २४४२	१५३२	" ...	२४३७

संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक
१५३४	जिनचंद्र सूरि ...	... २३५४, २५०८	१५०५	कीर्तिरत्न सूरि ...	... २१४४
१५३५	" ...	... २४२५	१५१८	" ...	... २१२३
१५३६	" ...	२१२०, २१२६, २१५४, २१६३, २१६७-६६, २३५७-५८, २३६६, २३६६-२४०६, २४०६, २४२६-२८, २५२३, २५२८, २५५५-५६	" ...	" ...	... २३८२
			१५०६	जयशेखर सूरि ...	... २१५६
			१५१३	जिनधर्म सूरि ...	... २१६६
			.....	" ...	... २४०१, २४३७
			१५१८	कमलराज गणि ...	... २१४०-४१
			.....	" ...	... २११८
१६२५	" ...	... २१३५	१५१८	उत्तमलाल गणि ...	... २११८, २१४१
१६५०	" ...	... २४६४	१५१६	जिनहर्ष सूरि ...	... २४२१
१८२५	" ...	... २५०३	१५२०	" ...	... २१२८
१८४०	" ...	... २५०२	१८६०	" ...	... २५७५-७६
१८४३	" ...	... २४४४	१८७३	" ...	... २५८०
१८५२	" ...	... २४६०	१८६१	" ...	... २५३०
१८...	" ...	... २४६२	१८६३	" ...	... २५८५
१४६७	जिनसेन गणि ...	... २१३६	.....	" ...	... २५१८, २५२४, २५३१
"	भानुप्रभ गणि ...	... "	१५३६	जिनसमुद्र सूरि ...	... २१२०-२१, २१५३-५४, २३५८, २३६६, २३६६, २४०२-०३, २४०६, २४०६, २४२८
"	सोमबुंजर (घा०) ...	... "			
१५०३	राजितधर्म सूरि ...	... २३२१			
१५०५	रत्नमूर्ति गणि ...	... २१४४			
"	हर्षमद्र गणि (घ०) ...	... "	१५३७	" ...	... २३५६
"	जिनसेन गणि ...	... "	.....	" ...	... २१५५, २३६६, २४४६
"	जयाकर गणि ...	... "	.....	कमलसहस्र (?) ...	... २१५३
"	मेरुसुंदर गणि ...	... "	१५३६	मुनि उपाध्याय ...	... "
"	जीवद्वैज गणि ...	... "	"	शान्तिसागर सूरि ...	... २१५४

संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक
१५६६	गुणरत्नाचार्य ...	२४०६	१६७२	उदय सिंह (पं०) ...	२४६७
"	समयभक्त (उ०) ...	"	१६७४	" ...	२५००
"	सोम गणि ...	"	"	धर्मनिधान (उ०) ...	"
१५३८	देवसुंदर सूरि ...	२२००	"	धर्मकीर्ति गणि ...	"
१५५८	जिनहंस सूरि ...	२३६१	"	सुखसागर गणि ...	"
१५५६	" ...	२३६२	"	समयकीर्ति गणि ...	"
१५६६	" ...	२१६५	"	सदांग मुनि ...	"
१५६७	" ...	२४४३	१६७५	रत्नसार ...	२५४३
१५६८	" ...	२३६७, २५५०	"	सहजकीर्ति ...	"
१५७२	" ...	२३६४	१६८३	जिनसागर सूरि ...	२५१५
१५७८	" ...	२३६६	१७६६	जिनसुख सूरि ...	२५०१
१५८१	" ...	२३६८	"	तरवसुंदर गणि ...	"
.....	" ...	२१५४-५५	.....	जिनलाम सूरि ...	२५०२
१५६४	जिनमे" सूरि ...	२४०८	.....	जिनकीर्ति सूरि ...	२५०३
१५८१	जिनमणिकय सूरि ...	२१०४	.....	जिनयुक्ति सूरि ...	२५०३-०४
१५८५	" ...	२१५५	१८२५	मीमराज मुनि ...	२५०३
१५६३	" ...	२३६६	१८४३	चातुर्यनदि मुनि ...	२४४४
१५८३	देवतिलक (उ०) ...	२१५४	१८५२	रूपाकल्याण गणि ...	२४६०
१५८५	" ...	२१५५	१८७४	रिधबिलास (पं०) ...	२५८०
१६१५	ज्ञानचंद्र सूरि ...	२४४०	"	जेसार गणि ...	"
१६५०	जिनसिंह सूरि (आ०) ...	२४६४	"	भयर सिं (पं०) ...	"
१६७२	" ...	२४६७	१८७६	जिनउदय सूरि ...	२५०४
.....	" ...	२४६८, २५४३-४४,	"	अमयसोम गणि ...	"
		२५६८, २५७०, २५७२	१८६१	जिनमहेंद्र सूरि ...	२५३०
१६५०	पुण्यसागर (महो०) ...	२४६४	१८६३	" ...	२४७२

संवत्	नाम	खेत्वांक
१८६६	जिनमहेंद्र सूरि ...	२५३०, २५८७-८८
१८६७	" ...	२५२४, २५७६
१६०१	" ...	२४६०, २४६६
१६०३	" ...	२५१८
.....	" ...	२५३१, २५४२,
		२३८२, २५६०
.....	खूबचंद (पं०) ...	२५८५
१८६३	जगविशाल मुनि ...	"
१८६६	केसरीचंद मुनि ...	२५३०
१६०३	जीतरंग गणि ...	२५१८
.....	" ...	२४६६
१६०३	दानमल्ल (पं०) ...	२५१८
"	डुंगरसी मुनि ...	"
१६१७	जिनमुक्ति सूरि ...	२५४२
१६२१	" ...	२५६०
१६२८	" ...	२४७५, २५३१, २५३३
		-३५, २५४०, २५८२
१६३२	" ...	२५४१
१६५२	" ...	२४६३
.....	पद्महंस मुनि ...	२५४२, २५६०
१६१७	साहिबचंद्र मुनि ...	२५४२
१६२१	" ...	२५६०
१६२८	" (उ०) ...	२५३१
१६१०	अगरचंद मुनि ...	२५४२
१६२१	" ...	२५६०

संवत्	नाम	खेत्वांक
१६२८	बालचंद्र ( उ० ) ...	२५३१
"	प्रमेर गणि ...	"
"	मयाचंद्र गणि ...	"
"	सरूपचंद मुनि ...	"
"	वीराम ...	"
"	कृष्णचंद्र ...	२५४०
१६८०	रत्नमुनि गणि ...	२५६२
"	वृद्धिचंद्र यति ...	"

खरतर-आचार्य शाखा ।

१६३६	धर्मचंद्र ...	२५६१
------	---------------	------

खरतर बेगड़ गह्व ।

.....	जिनेश्वर सूरि ...	२४४६, २५०५, २५०६
.....	जिनगुणप्रभ सूरि ...	२४४६, २५०५
.....	जिनचंद्र सूरि ...	२४४६, २५०५, २५०६
.....	जिनसमुद्र सूरि ...	२४४६, २५०६
.....	जिनसुंदर सूरि ...	२४४६, २५०८-०६
.....	जिनशेखर सूरि ...	२५०५
.....	जिनधर्म सूरि ...	२५०५
.....	जिनमेरु सूरि ...	२५०५
१६६३	जिनेश्वर सूरि ...	२५०५
१६७३	" ...	२४४७
१६८५	" ...	२५०७

संवत्	नाम	खेतांक	संवत्	नाम	खेतांक
१८४३	...	२५१०	१३३६	धर्मदेव सूरि ...	२४१३
१८४६	जिनदेव सूरि ...	२५११	१३८१	" ...	२२४६
१६६३	मसिखार ...	२५०५	१३८८	आमदेव सूरि ...	२२५५
"	विद्यासागर (पं०) ...	"	१५०३	मल्लचंद्र सूरि ...	२३२०
"	भारतविजय (पं०) ...	"	तप गच्छ ।		
"	उद्योतविजय (पं०) ...	"			
१७८१	जिनउदय सूरि ...	२४४६	१४८६	सोमसुंदर सूरि ...	२२१८
१८०६	" ...	२५०८	१४६६	" ...	२३१५
.....	" ...	२५०६	.....	" ...	२१५२, २१८२, २१६४;
१८०६	मुनिसुंदर ...	२५०८			२३३०, २५८३
"	परशोवल्लभ (पं०) ...	"	१४६६	सोमचंद्र सूरि ...	२३१५
"	मानसिंह (पं०) ...	"	१५०१	मुनिसुंदर सूरि ...	२१८२
"	मन्महाट (पं०) ...	२५०८	१५०३	जयचंद्र सूरि ...	२३१८, २५५३
"	जगामी (पं०) ...	"	१५०८	रत्नशेखर सूरि ...	२४१६
"	वर्द्धमाव (पं०) ...	"	१५११	" ...	२३३०
.....	" ...	२५११	१५१३	" ...	२१५२, २५८३
१८१२	जिनचंद्र सूरि ...	२५०६	१५१६	" ...	२३३६
✓ १८४३	रूपचंद (पं०) ...	२५१०	.....	" ...	२१२५, २१६४
"	तिलोकचंद (पं०) ...	"	१५१०	रत्नसिंह सूरि ...	२४५८
"	किशनचंद (पं०) ...	"	.....	विजय सूरि ...	२४६८
.....	जयोवल्लभ ...	"	१५११	विजयरत्न सूरि ...	"
			१५१८	लक्ष्मीसागर सूरि ...	२१२५
			१५३३	" ...	२१०३, २१६४
.....	भजितसिंह सूरि ...	२२२६	१५३४	" ...	२३५३
१३२७	कलकाम सूरि ...	"	१५३५	" ...	२३५६, २३६५

वैत्र [ चित्रावल्लभ ] गच्छ ।

संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक
१५३०	लक्ष्मीसागर सूरि	२४६६	१४२२	देवचंद्र सूरि	२२७१
१५१६	उदयवल्लभ सूरि	२४२२	१४६६	महीतिलक सूरि	२३११
१६१०	विजयदान सूरि	२४४८	.....	पद्मशेखर सूरि	२१६६, २३३३, २४१२
१६१८	"	२३७०-७१	१५१२	पद्मानंद सूरि	२३३३
१६२६	हीरविजय सूरि	२३७२	१५१५	"	२४१२
.....	"	२१७५, २४७०	१५२०	"	२१६६
१६५६	विजयसेन सूरि	२२०६	.....	विजयचंद्र सूरि	२५७६
१६६६	"	२४३६	१५१२	साधुरत्न सूरि	"
१६७०	"	२४७३			
.....	"	२३७८			
१६८३	विजयदेव सूरि	२२०७-०८, २२१४, २३७४	१२४७	विजयसिंह सूरि	२१७६
१८६६	दीपविजय	२१७५	१३६१	.....	२२४३
"	नगविजय	"	.....	परस ( उ० )	"
.....	गुलाल विजय	"	१४१०	गुणाकर सूरि	२५६६
.....	जिनेंद्र सूरि	"	१५३५	गुणदेव सूरि	२३५५
१६४४	मोहन मुनि	२५८१	.....	"	२३७६
			१५७१	गुणरत्न सूरि	२५५१

नागेन्द्र गण्ड ।

थिराडा (?) गण्ड ।

.....	विजयसिंह सूरि	२४६४
१५३३	शांति सूरि	"

धर्मघोष गण्ड ।

.....	खामाचंद्र सूरि	२२७१
-------	----------------	------

नानकीय [ ज्ञानकीय ] गण्ड ।

१३२६	धनेश्वर सूरि	२२३०
१४७६	"	२२६१
१५२७	"	२३४८
१३८८	सिद्धसेन सूरि	२२५४
.....	"	२३७५

संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक
<b>पद्मि गण्ड ।</b>			१५००	जयमद्र सूरि ... ..	२३१६
			१५०३	" ... ..	२३१६, २४५३
१४६२	शांति सूरि ... ..	२४७८	१५१८	" ... ..	२३४०
			१५०६	वीरप्रभ सूरि ... ..	२४०७
			.....	" ... ..	२१२६
			१५०८	गुणसमुद्र सूरि ... ..	२३२६
१४०४	त्रिबुधप्रभ सूरि ... ..	२२६४	१५१२	" ... ..	२१३६
१४७६	धर्मप्रभ सूरि ... ..	२२६२	१५१०	कमलप्रभ सूरि ... ..	२१२६
१४८४	धर्मशेखर सूरि ... ..	२२६७	१५१५	राजतिलक सूरि ... ..	२१४६
१५१७	शालिभद्र सूरि ... ..	२५५४	१५२५	" ... ..	२३४७
१५२७	भरतचंद्र सूरि ... ..	२३६३	१५१५	मुनिसिंघ सूरि ... ..	२३३६
.....	उदयदेव सूरि ... ..	२३५०	१५१६	गुणधीर सूरि ... ..	२४८१
१५२८	रत्नदेव सूरि ... ..	"	१५१८	" ... ..	२१३०, २१६१
१६४६	गुणसागर सूरि ... ..	२४३१	१५३२	" ... ..	२५२२
"	शांति सूरि ... ..	"	.....	महीतिलक सूरि ... ..	२४१३
			१५२१	गुणतिलक सूरि ... ..	"
			१५२४	पुण्यरत्न सूरि ... ..	२५८४
			१५३४	श्रीसूरि ... ..	२१३३
			१५५३	देवसुंदर सूरि ... ..	२४८४
<b>पूर्णिमा [ पद्म ] गण्ड ।</b>			<b>पूर्णिमा गण्ड - प्रधानशाखा ।</b>		
.....	देवेन्द्र सूरि ... ..	२२६४, २३०१	१५२८	जयप्रभ सूरि ... ..	२३४६
१४८१	जयप्रभ सूरि ... ..	२२६४	.....	" ... ..	२२०२
१४८७	" ... ..	२३०१	१५५१	भुवनप्रभ सूरि ... ..	"
.....	" ... ..	२४५३			
१४८७	साधुरत्न सूरि ... ..	२३००			
१४८६	" ... ..	२३०५			
१५२२	" ... ..	२३४६			
१४६०	भैरवसुंदर सूरि ... ..	२३०६			



संवत् नाम खेखांक

पूर्णिमागण्ड-जीमपल्लीयशाखा ।

१४६२	पांसचंद्र सूरि	...	...	२३०६
"	जयचंद्र सूरि	...	...	"
१५०३	"	...	...	२३१८
१५०६	"	...	...	२३२६
१५१८	"	...	...	२३४२

पूर्णिमापक-साधुशाखा ।

.....	उदयचंद्र सूरि	...	...	२४५७
१५०५	मुनिचंद्र सूरि	...	...	२४६६
१५७६	"	...	...	२४५७

बाहड़ गण्ड ।

.....	यशोमद्र सूरि	...	...	२२६६
१४२१	ईश्वर सूरि	...	...	"

ब्रह्माण गण्ड ।

१४८६	पञ्जन सूरि	...	...	२३०४
.....	जजग सूरि	...	...	२१६८
१५१०	पञ्जग सूरि	...	...	"
.....	बुद्धिसागर सूरि	...	...	२३६३

संवत् नाम खेखांक

१५१६	विमल सूरि	...	...	२३४५
१५७३	"	...	...	२३६३
१५७७	"	...	...	२४३०
.....	.....	...	...	२३८०

जावडार [जावड़, जावडहरा] गण्ड ।

१३२५	गुणरत्न सूरि	...	...	२२२८
.....	कालिकाचार्य	...	२२०३, २३१०, २४८३	
१३७४	धीर सूरि	...	...	२२४८
१४६५	"	...	...	२३१०
१५२६	भावदेव सूरि	...	...	२४८३
१५३५	"	...	...	२२१७
१५५८	विजयसिंह सूरि	...	...	२२०३

जोनमाल गण्ड ।

१४८२	रामदेव सूरि	...	...	२२६५
------	-------------	-----	-----	------

मडाहड [मडाहडीय] गण्ड ।

१३५८	भाणंदम सूरि	...	...	२२४२
.....	सोमदेव सूरि	...	...	२१७८
१४६३	धनचंद सूरि	...	...	"
१५४२	नयचंद्र सूरि	...	...	२४५६

संवत्	नाम	खेतांक
<b>मधुकर गण्ड ।</b>		
१५६३	मुनिप्रभ सूरि ... ..	२४२६

संवत्	नाम	खेतांक
<b>मङ्गुधारी गण्ड ।</b>		
१३३७	प्रमानंद सूरि ... ..	२२३१
१४६७	गुणसुंदर सूरि ... ..	२३१२
१५३४	गुणनिर्मल सूरि ... ..	२५२७

संवत्	नाम	खेतांक
<b>रुद्रपञ्चोदय गण्ड ।</b>		
१४७३	हर्षसुंदर सूरि ... ..	२४१७
.....	देवसुंदर सूरि :... ..	२३३७
१५१६	सोमसुंदर सूरि ... ..	"
.....	जिनोदय सूरि ... ..	२४५५
१५३२	जिनचंद्र सूरि ... ..	"

संवत्	नाम	खेतांक
<b>वापटीय गण्ड ।</b>		
११६२	बोरदेव ... ..	२२१८
१३३८	राशिष्ठ सूरि ... ..	२२३२

संवत्	नाम	खेतांक
<b>विद्याधर गण्ड ।</b>		
१४४०	गुणप्रभ सूरि ... ..	२२७८

संवत्	नाम	खेतांक
<b>वृहज्ज ।</b>		

१४२२	महेन्द्र सूरि ... ..	२२७०
१४३३	नरदेव सूरि ... ..	२२७५
१४४५	रत्नाकर सूरि ... ..	२२७६
१४६५	धर्मलिंग सूरि ... ..	२२८६
१५१६	सागरचंद्र सूरि ... ..	२३३८
१५१६	देवचंद्र सूरि ... ..	२३४३
१५३६	मेखम सूरि ... ..	२१६६
१५६६	मलयहंस सूरि ... ..	२२०५

संवत्	नाम	खेतांक
<b>षं [खं] डेर [क] गण्ड ।</b>		
१४६१	सुमति सूरि ... ..	२२८४
.....	यशोभद्र सूरि ... ..	२१८४, २३०८
१४६२	शांति सूरि ... ..	२३०७-०८
१५११	" ... ..	२१८४

संवत्	नाम	खेतांक
<b>सरवाल गण्ड ।</b>		
१२०८	जिनेश्वराचार्य ... ..	२२२०
१२५५	" ... ..	२२२२
.....	वर्द्धमानाचार्य ... ..	२४१५



संवत्	नाम	लेखांक	संवत्	नाम	लेखांक
जिनमें गणों के नाम नहीं हैं ।			१३७४	धर्मघोष सूरि ... ..	२२४७
.....	सुधर्म स्वामि ... ..	२११३, ६१४४	१३८४	तिलक सूरि ... ..	२२५०
.....	स्यूलमद्र ... ..	२१३६	.....	यशोदेव सूरि ... ..	२२५६
११७१	अजितदेव ( आ० ) ... ..	२४१४	१३८६	धर्मदेव सूरि ... ..	"
१२०८	देव सूरि ... ..	२१४७	१३६०	मल्लिखेण सूरि ... ..	२२५७
१२६२	परमानंद सूरि ... ..	२२५३	१३६१	जिनसिंह सूरि ... ..	२२५८
.....	द्वेन्द्र सूरि ... ..	२२२५	"	अभयदेव सूरि ... ..	२२६०
१३१३	अमरचंद्र सूरि ... ..	"	१३६३	कान्तिलक सूरि ... ..	२२६२
१३२५	विजयप्रभ सूरि ... ..	२२२७	१३६४	रत्न सूरि ... ..	२२६३
१३३३	..... सूरि ... ..	२३८७	१४०५	हरिप्रभ सूरि ... ..	२२६५
१३४१	राममद्र सूरि ... ..	२२३३	१४२१	धर्मतिलक सूरि ... ..	२२६८
१३४३	श्रीसूरि ... ..	२२३४	१४३४	" ... ..	२२७६
१३४५	" ... ..	२२३५	१४२३	सिद्ध सूरि ... ..	२२७२
१३८५	" ... ..	२२५२	१४३४	धनतिलक सूरि ... ..	२२७६
१३६१	" ... ..	२२५६	१४८१	जयप्रभ सूरि ... ..	२२६३
१४२८	" ... ..	२२७३	१४८६	" ... ..	२२६६
१४५६	" ... ..	२३६०	१४६०	हर्षतिलक सूरि ... ..	२४५०
१४६३	" ... ..	२४३८	१५१६	जयमद्र सूरि ... ..	२१७२
१३४६	देवाचार्य ... ..	२२३७	१५३२	सावदेव सूरि ... ..	२३५२
"	सुनिरत्न सूरि ... ..	"	१५६०	गुणचंद्र सूरि ... ..	२१३४
१३४६	..... सूरि ... ..	२३८८	१५७७	जय ..... ..	२३६५
१३५२	श्री ..... ..	२२३६	१५६१	आनंदबिमल सूरि ... ..	२१५१
१३५५	परमचंद्र सूरि ... ..	२२४०	१६०६	विजयदेव सूरि ... ..	२४३३
१३६८	लक्ष्मीतिलक सूरि ... ..	२२४६	"	सोमबिमल गणि ... ..	"
			.....	वर्णदत्त ... ..	२५१४

संवत्	नाम	लेखांक
.....	कमलोदय गणि ...	२५१४
१९६७	वर्णकीर्ति ( पं० )	"
"	देवसार ( „ )	"
१८३१	वि... देव सूरि ...	२४४१
.....	गांग गणि ( पं० )	२५१२
✓ १८११	रूपचंद्र ( „ )	"
"	वकता ( „ )	"
"	आजम ...	"

जिनमें संवत् नहीं हैं ।


.....	सौभाग्यसुंदर सूरि ...	२१२७
.....	प्रद्युम्नाचार्य ...	२५३२

संवत्	नाम	लेखांक
<b>दिगम्बर संघ ।</b>		
<b>पमातसम संघ ।</b>		
१७१५	.....	२४७४
<b>मूल संघ ।</b>		
.....	ज्ञानभूषण ...	२४८६
१५६१	विजयकीर्ति ...	"





## स्थानों की सूची ।




स्थान	खेतांक	स्थान	खेतांक
अजमेर	... २५६५	कारेरी	... २३४६
अणहिल्ल गाटकपुर	... २१३६	कालूपुर	... २१२५
अमरकोट	... २४८७	किसानगढ़	... २५३०
अमरसागर	... २५२४, २५३०-३१, २५४१-४२	कोटा	... "
अरहटवाड़ा	... २४५६	कोरड़ा	... २१६२
अर्बुद ( भायू )	... २१३३, २१५४, २५३०	कोरंट	... २१५४
अहमदाबाद	... २१२५, २४७३	खंभात	... २३७२
अहिलाड़ा	... २४८१	गजरूपसागर	... २५६०
अंबानी	... २४४७	गाली	... २४८३
आगेवाणे	... २२६७	गिरनार	... २११३, २१५४, २५३०
इंदौर	... २५३०	गुजरात	... २५३०
उज्जयंताचल	... २११३, २१३६	खंपकनगर	... २४५७
उदयपुर	... २५३०-३१	चित्रकूट	... २१३६
उमड़ा	... २१६५	छबड़ा	... २४४५
ककरा	... २३६५	जिरावला	... २१५४, २५३०
कछ	... २५३०	जूनहरगढ ( जूनागढ )	... २१५४

स्थान	खेतांक	स्थान	खेतांक
जेसलमेर-नगर	... २११२-१३, २११५, २१३६, २१४५, २१५४, २१७५, २२०७ -०८, २२१४, २३६६, २३७४, २४२६, २४४३, २४४७, २४७५, २४६२, २४६७, २५०३-०४, २५२४, २५३०-३१, २५३३, २५४०-४२, २५८१-८३, २५६०	धुलेबा	... २५३०
जेसलमेरदुर्ग	... २१२०, २१४४, २१४६, २१५४ -५५, २४००, २४०२, २४०४, २४०६, २४४६, २४६८, २५०१ -०२, २५०५, २५०८, २५१०, २५१२, २५१५, २५६२.	धुंघुका	... २३४४, २४८५
जोधपुर	... २५३०	नरसाणा	... २१६८
कमरामी	... २३७६	पत्तन (नगर)	... २१२०, २२०२, २४६६, २५१६
भांजक(भू ?)या	... २३४५	पंखातरा	... २५३०
हुंका	... २५३०	पंजाब	... "
हुंकाड	... "	पाटण	... २१५४
तरभद्र	... २४०७	पारकर (पारकर)	... २३३५, २३६०, २४५४, २५७७
तलपाटक	... २१३६	पाली	... २५३०
ताणवडनगर	... २४६८	पालीताणा	... "
तारंगा	... २५३०	प्रल्हादनपुर	... २१३६
तालध्वज (तलाजा)	... २३५५	बणारस	... २५०१, २५३१
विली	... २१७५, २५३०	ब्रह्मसर	... २५८१, २५८५, २५८७-८८
देवीकोट	... २५७५-७६, २५८०	बामजूआ	... २३६३,
घणक	... २१३०	बंमणवाड	... २५३०
		बीकानेर	... २५०२, २५३०
		बुंदी	... २५३०
		मांऊरुधा	... २४३०
		भांघरीघ	... २५२२
		भुज	... २५३०
		भूपीयाणा	... २२०१
		मगसी	... २५३०
		मंडपवूर्ण (फुल)	... २१३६
		मंडोवर	... २११६
		माकली	... २१३०

स्थान	खेत्तांक	स्थान	खेत्तांक
मारवाड़ ( मारवाड़ ) ...	... २१५४, २५३०	बीचीयाड़ी ...	... २३६४
मालवा ...	... २५३०	वीरमगाम ...	... २१५४, २४८४
मांडली ...	... २३५०, २५५१	वीसलनगर ...	... २१७३, २१६४
मूलताण ...	... २४५५	वैसालेरा ...	... २५६०
मेदतट ...	... २४६८	शकुंजय ...	... २११३, २१३६, २१५४, २४६८, २५४३
मेवाड़ ...	... २५३०	सरसा पत्तन ...	... २५५३
मोरवाड़ा ...	... २१२६	सहसावन ...	... २५३०
रतलाम ...	... २४६०, २४६३, २५३१	संजवाली ...	... २१५४
राणपुर ...	... २१५४	संजेशरा ...	... २५३०
राधनपुर (राइधानपुर)	... २३७०-७१, २५३०	सागवाज ...	... २२११
रायपुर ...	... २५०५	सागवाड़ा ...	... २१५१
रेवताबल (रेवतगिरि) ...	... २१३६, २१८१	सिद्धपुर ...	... २४५८
लक्षणखेट ...	... २१७६	सिद्धाबल ( सिद्धगिरि ) ...	... २५३०
लोदवा ( लोदपुर-पत्तन )	... २५३०, २५६०-६१, २५७२, २४६८, २५४३, २५६८, २५७४-७५	सिरधर ...	... २३६३
धगतटमह ...	... २३५६	सिध ( सिंधुदेश ) ...	... २४६८, २५३०
बड़ी ...	... २३२६	सीणीज ...	... २१३६
धानिक ...	... २३३६	सीरोही ...	... २२०३
बाराही ...	... २४१३, २५८४	सुनेध ...	... २३०४
बिकमपुर ...	... २५२६	सूरत ...	... २३५३
बिराडा ...	... २४२२	हाडोनी ...	... २५३०

नोट:—यद्यपि 'उज्जयंताबल, रेवतगिरि' भादि गिरनार के ही नाम हैं तथापि यह सूची अकारादि अनुक्रमिका से कनाये जाने के कारण ऐसे २ जिनके नाम इसमें भाये हैं वे वर्णानुसार यथा स्थान में मिलेंगे।





## शुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११	...	जिनचंद्रसूरिपट्टे	जिनभद्रसूरिपट्टे
१४	...	जिनभद्रसूरिमिः	जिनचंद्रसूरिमिः
४३	...	नाहड़	नाहर
५४	...	१५३६	१५६६
५६	...	देवगुरु	देवगुप्त
"	...	"	"
६१	...	नाहड़	नाहर
७२	...	१४८८	१४६८
८६	...	१५७६	१४७६
९०	...	१६७६	१४७६
१०२	...	जिनचंद्रसूरिपट्टे	जिनभद्रसूरिपट्टे
१३६	...	प्रतिष्ठापितः	प्रतिष्ठितः
२०२	...	१५५६	१५५८
१४१	...	२५२५	यह लेख वहाँ के पंचायती मंदिर के पीले पाषाण की मूलनायक-जी की मूर्ति पर का है ।
७८	...	१२-१५ ... ( दुबारा ) 2332	लेख नं० २३३१
१५७	...	७-८ ... ( " ) 2537	" २५३६

**PRINTED BY**  
**G. N. Sharma**  
**at the**  
**VISWAVINODE PRESS,**  
**48, Indian Mirror Street,**  
**Calcutta.**



वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं०

2 P 3 (अतिलम्ब) नहर

लेखक

जाहर, पूर्णचन्द्र

शीर्षक

98 98 98 98  
जनसंघ संग्रह जसलमेर

खण्ड

क्रम संख्या

620

दिनांक

क्षेत्रे वापसी के इन्तजार

वापसी का